

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Neemuch-I****Challan No. : 28/345**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	2715	9.11	54.97	12.48	0.6249
2	2703	8.55	55.47	13.43	0.6370
3	2747	8.08	60.27	12.38	0.6028
4	2725	4.74	60.82	13.02	0.3754
5	2749	6.53	60.39	9.02	0.3559
6	2723	4.46	49.69	13.73	0.3042
7	2772	7.19	68.97	14.77	0.7327
8	2767	7.41	60.12	11.21	0.4994
9	2720	4.17	52.53	12.66	0.2773
10	2751	4.62	61.46	13.37	0.3798
11	2791	8.18	41.15	11.59	0.3902
12	2714	9.08	42.02	13.18	0.5030
13	2717	7.66	52.32	12.29	0.4925
14	2716	8.94	54.36	10.93	0.5310
15	2793	7.24	53.65	12.10	0.4699
16	2796	7.03	57.74	13.06	0.5301
17	2748	8.46	61.11	15.64	0.8088
18	2764	4.3	53.18	12.54	0.2868
19	2768	7.8	56.96	13.90	0.6178
20	2735	6.87	55.10	14.79	0.5599
21	2712	7.79	40.29	17.30	0.5430
22	2736	7.11	49.93	14.12	0.5013
23	2741	7.49	48.60	13.99	0.5093
24	2733	8.49	54.34	13.97	0.6444
25	2750	4.53	54.54	14.85	0.3669
26	2773	3.64	53.76	14.64	0.2865
27	2771	7.36	57.91	15.18	0.6469
28	2757	4.37	50.47	15.12	0.3334
29	2727	8.29	55.95	14.44	0.6698
30	2795	4.21	48.02	15.45	0.3124
31	2782	8.61	55.81	13.49	0.6483
32	2701	7.36	51.70	13.77	0.5240
33	2777	8.27	64.19	13.01	0.6905
34	2719	7.42	40.39	12.82	0.3844
35	2722	4.66	65.95	12.43	0.3821
36	2775	4.34	63.23	13.00	0.3567
37	2779	8.04	46.42	14.24	0.5314
38	2745	7.47	67.33	11.75	0.5909
39	2789	4.36	67.13	13.94	0.4081
40	2739	4.09	48.71	12.75	0.2540
41	2799	2.06	50.12	6.36	0.0657
42	2737	4.81	52.83	13.50	0.3430

43	2728	6.95	47.70	11.55	0.3829
44	2800	2.7	47.38	13.36	0.1709
45	2798	4.32	58.06	12.69	0.3184
46	2707	4.32	59.50	12.72	0.3270
47	2713	7.31	47.22	11.39	0.3933
48	2756	9.48	53.67	12.74	0.6484
49	2740	7.4	57.59	12.29	0.5239
50	2760	4.55	62.42	13.35	0.3790
51	2726	4.37	49.62	14.07	0.3050
52	2724	4.48	56.21	11.07	0.2787
53	2766	4.51	59.97	12.57	0.3401
54	2765	7.48	64.37	13.42	0.6463
55	2792	4.08	49.84	12.30	0.2501
56	2787	7.43	51.25	13.72	0.5223
57	2790	8.55	52.14	12.83	0.5720
58	2758	7.29	62.39	13.58	0.6175
59	2705	4.37	58.52	14.23	0.3640
60	2788	7.52	68.32	14.30	0.7347
61	2769	7.01	59.68	15.70	0.6568
62	2763	4.59	61.09	13.50	0.3787
63	2778	8.54	72.39	13.15	0.8130
64	2753	7.25	53.27	14.32	0.5532
65	2755	4.33	59.29	13.63	0.3499
66	2752	6.97	55.17	15.12	0.5813
67	2770	7.56	58.79	13.40	0.5957
68	2786	7.31	56.77	16.72	0.6937
69	2711	7.66	41.70	15.83	0.5056
70	2721	4.42	51.11	14.64	0.3306
71	2794	3.61	50.51	15.11	0.2754
72	2718	4.43	47.20	15.97	0.3340
73	2744	9.36	55.71	15.40	0.8031
74	2738	4.37	58.10	14.01	0.3557
75	2704	4.46	53.27	15.92	0.3782
76	2746	4.45	57.83	13.52	0.3480
77	2732	7.8	50.02	17.01	0.6638
78	2776	4.27	62.48	15.38	0.4103
79	2702	4.36	53.78	14.71	0.3449
80	2743	4.73	47.72	16.70	0.3770
81	2708	4.37	58.69	15.08	0.3867
82	2774	4.3	63.58	12.33	0.3371
83	2729	4.29	58.22	13.52	0.3376
84	2730	9.52	54.25	12.37	0.6388
85	2709	7.24	66.20	13.05	0.6255
86	2762	4.27	52.92	14.64	0.3309
87	2742	4.46	51.55	13.83	0.3180
88	2734	7.86	56.29	12.22	0.5408
89	2754	8.66	53.11	13.01	0.5984

90	2784	7.38	56.68	14.38	0.6015
91	2785	7.11	49.40	14.35	0.5041
92	2797	7.26	50.13	11.91	0.4334
93	2706	9.17	61.52	13.10	0.7391
94	2759	8.52	63.99	11.81	0.6441
95	2761	7.41	58.06	12.42	0.5343
96	2780	6.47	48.22	14.72	0.4594
97	2710	3.97	63.26	16.76	0.4208
98	2731	7.72	53.19	14.36	0.5898
99	2783	9.25	49.67	15.88	0.7298
100	2781	8.7	43.72	15.51	0.5899

Date: 03.09.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Neemuch-I****Challan No. : 21/255**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	2017	6.93	64.41	13.83	0.6175
2	2015	7.23	65.17	11.86	0.5589
3	2003	7.72	67.21	14.03	0.7280
4	2032	7.07	50.45	12.63	0.4504
5	2044	7.34	64.73	15.11	0.7179
6	2074	4.22	59.39	14.01	0.3511
7	2098	7.28	65.63	12.16	0.5809
8	2034	3.48	42.11	13.23	0.1938
9	2047	7.18	54.92	12.69	0.5004
10	2094	7.32	51.64	13.09	0.4948
11	2031	7.09	44.21	14.66	0.4594
12	2005	7.17	61.42	16.30	0.7177
13	2078	4.66	47.82	13.76	0.3066
14	2064	7.69	60.45	13.61	0.6329
15	2058	9.12	51.13	14.34	0.6685
16	2089	7.21	54.32	14.34	0.5617
17	2035	8.37	45.55	15.35	0.5851
18	2093	7.51	42.69	14.73	0.4724
19	2036	7	52.13	14.44	0.5271
20	2084	6.77	44.26	15.77	0.4725
21	2087	7.28	50.80	10.31	0.3815
22	2054	5.63	59.09	9.07	0.3018
23	2040	7.32	60.99	12.58	0.5614
24	2009	4.44	62.27	14.55	0.4023
25	2072	8.84	61.67	14.19	0.7735
26	2099	4.25	62.58	10.29	0.2737
27	2083	7.59	44.63	12.37	0.4190
28	2025	8.29	68.16	12.41	0.7013
29	2033	4.48	46.37	11.06	0.2298
30	2056	7.18	61.71	13.79	0.6110
31	2026	8.78	67.68	13.25	0.7876
32	2001	4.17	66.37	13.70	0.3791
33	2091	6.73	44.61	12.08	0.3627
34	2075	3.79	58.68	14.23	0.3165
35	2011	7.05	60.33	13.96	0.5936
36	2041	7.12	63.09	11.36	0.5105
37	2061	4.39	64.31	14.68	0.4144
38	2021	4.33	71.65	13.64	0.4230
39	2007	4.56	66.66	14.63	0.4446
40	2019	8.48	61.05	13.28	0.6877
41	2022	7.47	62.85	13.33	0.6260
42	2069	8.15	50.99	14.36	0.5966

43	2027	4.36	68.22	13.71	0.4077
44	2046	4.25	58.44	13.74	0.3413
45	2068	4.37	49.08	15.77	0.3382
46	2024	7.15	67.01	15.19	0.7279
47	2012	7.41	67.36	14.71	0.7343
48	2042	7.25	55.31	14.05	0.5633
49	2028	7.14	57.16	14.64	0.5976
50	2073	4.55	51.96	14.05	0.3322
51	2071	7.37	53.68	13.75	0.5439
52	2057	7.33	63.44	13.00	0.6047
53	2004	7.35	64.77	12.95	0.6167
54	2014	8.76	68.22	11.89	0.7104
55	2038	4.3	58.37	12.54	0.3148
56	2039	7.11	57.62	13.75	0.5631
57	2051	4.35	63.80	11.71	0.3249
58	2037	7.19	53.51	11.59	0.4458
59	2010	4.51	68.52	13.08	0.4041
60	2077	5.87	49.17	14.52	0.4191
61	2081	7.63	49.40	13.44	0.5066
62	2063	4.61	61.70	14.51	0.4126
63	2008	7.5	64.52	13.89	0.6720
64	2097	7.48	58.14	12.75	0.5543
65	2043	7.06	57.58	14.55	0.5916
66	2070	4.28	67.06	14.33	0.4113
67	2023	4.43	66.23	14.36	0.4213
68	2059	7.61	48.89	14.28	0.5312
69	2100	7.29	56.25	12.89	0.5285
70	2045	7.26	48.52	16.67	0.5873
71	2018	7.57	70.05	12.73	0.6752
72	2030	4.16	50.75	13.38	0.2825
73	2029	7.13	74.40	13.63	0.7230
74	2050	4.28	70.30	13.06	0.3929
75	2067	3.48	58.88	11.80	0.2419
76	2060	4.46	54.89	10.49	0.2569
77	2006	7.33	66.30	13.98	0.6795
78	2065	3.75	65.19	14.08	0.3443
79	2082	7.12	43.90	11.21	0.3503
80	2049	4.22	62.23	11.01	0.2891
81	2096	3.83	49.45	11.55	0.2187
82	2013	4.36	54.88	15.36	0.3675
83	2092	7.54	40.91	15.91	0.4909
84	2062	3.74	41.32	14.40	0.2225
85	2052	5.67	59.70	14.27	0.4831
86	2066	8.6	48.30	16.15	0.6708
87	2048	6.8	64.00	14.39	0.6263
88	2055	7.22	54.76	14.04	0.5552
89	2088	7.5	47.67	15.40	0.5505

90	2076	7.97	46.83	14.07	0.5252
91	2090	7.26	53.25	14.40	0.5568
92	2080	4.13	64.13	12.99	0.3440
93	2002	4.08	61.40	13.52	0.3386
94	2079	6.27	57.38	11.71	0.4213
95	2016	8.6	69.57	15.73	0.9408
96	2095	7.32	56.09	12.73	0.5226
97	2020	7.13	68.83	14.01	0.6873
98	2086	7.15	52.30	15.62	0.5842
99	2085	4.25	53.55	14.57	0.3315
100	2053	8.24	63.37	15.02	0.7844

Date: 02.09.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Neemuch-I****Challan No. : 05/42**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	417	7.58	63.69	14.40	0.6951
2	463	7.34	67.46	11.21	0.5549
3	486	7.32	59.26	10.45	0.4531
4	471	4.3	64.68	10.87	0.3023
5	458	7.48	57.44	12.50	0.5371
6	455	7.29	56.88	11.22	0.4651
7	448	8.55	54.80	12.01	0.5626
8	489	8.66	49.31	12.61	0.5387
9	467	7.47	62.29	12.51	0.5819
10	404	4.14	53.18	14.20	0.3126
11	418	9.18	66.99	12.84	0.7895
12	413	4.75	64.94	15.24	0.4703
13	431	4.08	58.51	13.09	0.3125
14	439	8.62	59.71	11.79	0.6068
15	446	7.07	60.69	10.43	0.4475
16	401	9.24	64.77	14.65	0.8769
17	405	9.16	64.18	13.74	0.8079
18	461	7.36	62.39	12.26	0.5630
19	472	8.56	61.18	12.41	0.6497
20	496	7.72	59.37	11.44	0.5242
21	435	8.38	52.42	13.49	0.5925
22	492	8.74	58.83	14.70	0.7560
23	449	8.1	54.35	14.48	0.6375
24	481	7.11	48.61	13.93	0.4813
25	437	8.92	47.59	15.23	0.6467
26	470	8.78	52.22	14.25	0.6532
27	444	8.76	52.30	13.77	0.6307
28	454	7.27	46.33	15.28	0.5147
29	500	8.55	45.38	14.72	0.5711
30	491	8.68	53.76	13.62	0.6354
31	477	8.82	48.84	13.33	0.5742
32	433	7.28	52.44	15.26	0.5824
33	495	7.19	58.66	14.03	0.5917
34	483	7.28	54.88	12.61	0.5038
35	450	7.54	57.89	12.96	0.5655
36	497	7.12	56.32	13.64	0.5468
37	468	8.51	58.41	12.84	0.6383
38	429	8.71	52.21	16.07	0.7308
39	416	7.93	64.85	14.94	0.7684
40	436	7.55	51.34	15.62	0.6055
41	487	8.57	55.96	12.81	0.6145
42	494	8.42	62.13	13.02	0.6812

43	402	4.86	63.93	13.28	0.4126
44	438	7.32	55.47	11.38	0.4619
45	480	7.18	59.94	12.28	0.5284
46	414	8.71	60.92	15.38	0.8161
47	469	7.59	49.55	12.37	0.4653
48	426	8.2	53.45	12.83	0.5625
49	478	7.54	59.22	12.33	0.5504
50	432	8.77	55.55	12.73	0.6200
51	412	9	45.77	15.93	0.6561
52	493	8.73	61.35	15.09	0.8084
53	434	7.28	51.15	15.13	0.5635
54	442	4.24	50.72	15.14	0.3256
55	466	7.5	55.73	13.66	0.5707
56	460	8.63	45.49	15.67	0.6153
57	485	8.62	56.96	14.92	0.7327
58	474	4.4	53.34	14.38	0.3375
59	488	7.14	46.28	15.10	0.4991
60	447	8.9	54.66	14.34	0.6978
61	452	8.84	62.47	13.72	0.7576
62	484	7.46	61.49	12.16	0.5580
63	457	7.14	60.61	10.43	0.4512
64	423	7.71	55.29	12.62	0.5382
65	422	7.83	43.59	13.40	0.4573
66	424	8.7	51.25	10.89	0.4855
67	498	8.49	63.16	11.34	0.6079
68	406	9.06	62.75	13.59	0.7728
69	490	8.56	57.08	12.54	0.6129
70	445	4.36	55.61	11.40	0.2764
71	453	8.36	54.89	14.25	0.6538
72	428	8.49	46.33	17.35	0.6826
73	499	8.58	54.10	14.70	0.6821
74	441	4.34	42.24	17.85	0.3272
75	473	4.28	55.75	13.97	0.3334
76	479	8.85	46.37	15.85	0.6505
77	465	8.82	55.85	14.04	0.6915
78	427	7.17	48.65	16.14	0.5628
79	410	9.02	59.45	16.30	0.8740
80	464	6.93	55.24	15.13	0.5793
81	425	7.41	49.55	16.29	0.5980
82	415	3.58	53.50	16.28	0.3118
83	408	9.08	58.08	15.34	0.8090
84	459	6.79	52.34	14.39	0.5113
85	420	8.52	38.40	16.43	0.5376
86	409	9.37	59.43	13.98	0.7786
87	462	3.67	57.93	14.74	0.3134
88	419	9.36	60.71	16.04	0.9117
89	451	7.34	55.46	14.24	0.5799

90	411	7.64	56.45	15.62	0.6738
91	482	7.29	54.32	11.19	0.4432
92	475	7.38	58.69	13.38	0.5793
93	403	7.55	57.96	14.03	0.6138
94	476	8.6	72.12	13.28	0.8239
95	440	8.57	63.14	12.39	0.6702
96	456	7.32	60.74	10.92	0.4853
97	421	8.68	51.25	11.55	0.5139
98	407	4.82	66.79	13.31	0.4285
99	430	7.45	61.17	12.23	0.5573
100	443	4.31	66.65	13.38	0.3845

Name of Division : Neemuch-I

Challan No. : 08/101

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	725	4.59	59.52	12.25	0.3346
2	771	7.26	63.06	14.16	0.6483
3	782	8.93	48.21	14.79	0.6367
4	756	7.49	61.77	13.76	0.6366
5	714	8.85	64.76	12.63	0.7239
6	744	7.44	47.62	15.98	0.5662
7	732	8.48	53.72	15.04	0.6852
8	766	4.58	56.23	15.49	0.3989
9	769	4.68	60.67	14.41	0.4090
10	735	7.56	50.72	16.32	0.6260
11	787	7.31	59.56	14.54	0.6330
12	733	7.28	52.76	13.44	0.5162
13	718	7.46	62.37	12.52	0.5826
14	703	7.53	60.35	13.11	0.5956
15	794	8.46	55.87	15.14	0.7157
16	788	6.99	56.34	12.03	0.4739
17	777	7.52	62.89	11.18	0.5287
18	739	4.55	63.22	11.83	0.3403
19	715	7.37	65.87	13.24	0.6427
20	765	7.23	70.01	12.38	0.6268
21	705	9.06	59.76	12.67	0.6858
22	729	7.46	56.10	11.50	0.4812
23	702	8.54	63.25	12.92	0.6977
24	781	8.77	47.83	14.95	0.6271
25	711	6.91	57.38	10.53	0.4174
26	730	7.6	54.95	12.88	0.5381
27	701	7.46	61.14	11.91	0.5431
28	706	8.41	51.70	14.08	0.6122
29	740	5.25	45.73	11.33	0.2720
30	768	4.17	63.21	13.48	0.3553
31	750	4.82	54.95	13.08	0.3466
32	791	7.49	61.42	10.58	0.4868
33	797	8.79	65.21	13.48	0.7726
34	734	8.69	61.04	13.48	0.7152
35	776	7.65	63.26	10.83	0.5240
36	737	7.3	60.99	11.92	0.5307

37	755	7.41	61.28	12.89	0.5854
38	764	4.38	57.04	13.15	0.3285
39	778	7.12	62.16	15.03	0.6650
40	716	7.76	68.04	11.48	0.6061
41	799	7.31	65.45	12.74	0.6097
42	712	8.59	58.28	11.03	0.5523
43	767	7.03	61.79	11.41	0.4956
44	798	8.61	58.61	11.04	0.5571
45	753	7.64	51.18	12.72	0.4974
46	722	8.53	64.80	12.55	0.6935
47	790	7.34	64.19	11.50	0.5417
48	717	8.88	66.64	11.81	0.6989
49	761	7.43	63.93	13.26	0.6301
50	762	7.26	52.73	12.04	0.4610
51	710	8.85	57.67	12.90	0.6584
52	751	7.47	47.34	15.00	0.5304
53	748	4.52	56.06	12.15	0.3078
54	727	7.44	45.96	14.97	0.5119
55	779	7.32	56.09	13.16	0.5402
56	786	7.15	60.95	14.65	0.6385
57	738	7.32	49.87	14.96	0.5461
58	707	8.59	59.87	14.83	0.7628
59	728	7.25	46.27	13.46	0.4517
60	757	8.61	55.43	13.39	0.6389
61	724	8.93	57.14	12.97	0.6617
62	774	8.49	46.24	14.97	0.5875
63	795	7.38	53.10	15.89	0.6229
64	785	7.1	45.26	14.67	0.4714
65	741	8.84	57.29	15.94	0.8071
66	726	9.13	63.27	13.51	0.7806
67	784	8.44	57.21	14.89	0.7191
68	770	8.48	59.83	15.59	0.7912
69	792	8.7	54.09	16.20	0.7621
70	745	7.25	54.56	14.08	0.5568
71	780	7.21	60.00	14.87	0.6431
72	763	7.44	68.44	11.25	0.5729
73	800	7.5	65.45	11.28	0.5535
74	720	8.73	66.05	14.28	0.8232
75	742	4.49	59.70	15.08	0.4041
76	772	7.36	65.37	14.09	0.6779
77	746	7.16	56.64	11.32	0.4590
78	749	7.62	54.06	11.76	0.4846
79	723	7.18	65.43	14.01	0.6584
80	783	4.52	65.05	15.48	0.4552
81	775	7.52	55.82	14.44	0.6061
82	754	4.52	44.25	14.87	0.2974
83	709	7.57	53.80	13.18	0.5367
84	752	7.56	48.77	14.82	0.5466
85	721	7.23	47.92	15.13	0.5242
86	758	7.55	49.38	12.54	0.4673

87	731	7.67	50.45	16.00	0.6190
88	713	8.86	58.95	13.83	0.7221
89	796	7.2	48.28	17.09	0.5940
90	704	7.49	59.65	13.73	0.6134
91	736	7.55	57.53	12.97	0.5632
92	719	7.56	60.87	13.67	0.6290
93	793	7.57	60.75	12.81	0.5889
94	759	7.18	55.15	12.04	0.4768
95	760	7	60.74	13.75	0.5845
96	789	8.95	51.43	12.27	0.5647
97	743	7.23	63.47	13.03	0.5979
98	773	8.54	56.96	12.01	0.5841
99	747	8.86	60.52	13.65	0.7318
100	708	8.48	57.27	11.05	0.5368

Name of Division : Neemuch-I

Challan No. : 09/102

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	839	7.21	56.76	10.43	0.4268
2	813	7.39	63.56	10.37	0.4870
3	832	7.36	67.90	14.27	0.7132
4	867	7.39	69.80	11.59	0.5979
5	854	4.32	61.66	14.81	0.3944
6	849	7.55	64.83	11.26	0.5512
7	895	7.26	68.13	13.27	0.6563
8	843	7.68	63.90	14.04	0.6889
9	875	7.31	58.62	13.66	0.5855
10	806	7.3	64.49	11.34	0.5336
11	803	8.79	59.64	11.99	0.6285
12	815	7.54	60.31	12.07	0.5489
13	859	7.2	55.79	13.05	0.5242
14	830	7.85	64.63	12.83	0.6508
15	840	7.05	65.98	12.34	0.5739
16	811	7.3	66.25	11.70	0.5658
17	810	7.12	65.67	13.10	0.6123
18	889	7.24	48.14	10.78	0.3758
19	863	7.44	60.60	14.44	0.6510
20	880	7.4	53.54	12.48	0.4943
21	833	4.18	54.93	14.86	0.3411
22	892	3.95	46.23	14.49	0.2647
23	890	7.18	51.32	13.39	0.4933
24	869	7.52	62.20	13.30	0.6219
25	812	7.5	59.93	12.56	0.5648
26	872	7.42	51.80	15.17	0.5832
27	893	4.47	65.19	11.92	0.3473
28	858	7.18	50.83	15.60	0.5694
29	882	7.18	59.90	14.92	0.6419
30	842	8.53	61.57	14.65	0.7694
31	804	8.82	55.33	15.96	0.7788
32	884	7.22	57.02	14.78	0.6086
33	874	7.3	52.18	15.85	0.6037

34	897	4.5	67.24	13.16	0.3982
35	900	7.09	51.57	15.45	0.5651
36	870	7.34	63.48	13.59	0.6334
37	865	3.8	59.31	12.44	0.2804
38	835	8.26	58.47	14.95	0.7219
39	898	7.3	57.50	14.83	0.6227
40	871	7.17	64.27	13.91	0.6410
41	891	6.87	49.30	12.45	0.4218
42	820	4.27	63.57	13.54	0.3676
43	817	7.15	64.46	13.95	0.6428
44	860	7.55	59.45	12.77	0.5730
45	829	7	50.91	15.83	0.5642
46	886	8.53	54.54	11.92	0.5544
47	836	4.33	66.72	13.70	0.3958
48	807	7.26	60.27	11.13	0.4871
49	885	6.75	51.85	11.98	0.4192
50	821	6.88	53.54	14.61	0.5380
51	850	8.83	50.48	16.44	0.7329
52	861	7.38	51.72	16.09	0.6140
53	873	3.66	61.73	15.63	0.3532
54	844	4.34	55.08	15.38	0.3676
55	864	4.3	56.15	14.85	0.3586
56	899	8.6	59.22	14.99	0.7637
57	888	4.1	47.60	14.52	0.2833
58	866	7.47	61.62	15.12	0.6962
59	848	4.53	51.81	14.30	0.3357
60	818	8.64	58.32	16.99	0.8562
61	824	7.01	56.38	12.15	0.4802
62	883	8.52	59.52	11.76	0.5964
63	846	7.19	66.79	13.13	0.6306
64	857	4.38	58.02	14.72	0.3741
65	855	3.57	61.45	13.73	0.3013
66	878	7.49	61.48	12.83	0.5910
67	847	4.3	67.84	14.78	0.4313
68	823	7.11	61.66	14.13	0.6193
69	841	8.92	64.70	14.36	0.8287
70	809	8.95	65.77	11.02	0.6489
71	827	8.52	51.48	17.91	0.7855
72	877	7.21	62.02	15.40	0.6886
73	808	7.57	51.73	15.10	0.5912
74	838	7.22	49.52	15.77	0.5639
75	828	7.2	51.25	16.23	0.5990
76	879	9	50.38	16.00	0.7254
77	881	4.42	63.01	13.22	0.3682
78	852	7.36	55.75	14.55	0.5969
79	887	6.84	56.70	14.43	0.5595
80	801	9.4	56.29	15.60	0.8253
81	845	8.21	57.13	15.68	0.7356
82	868	7.25	59.45	14.92	0.6431
83	826	8.5	47.62	14.38	0.5822

84	814	7.36	62.06	12.15	0.5549
85	894	7.56	60.32	14.42	0.6577
86	816	3.7	59.92	15.67	0.3474
87	837	4.37	60.80	15.69	0.4169
88	819	8.69	49.09	16.87	0.7195
89	805	7.42	59.29	14.39	0.6329
90	853	7.48	60.20	12.48	0.5617
91	825	7.35	59.04	11.62	0.5042
92	834	4.13	55.37	15.44	0.3531
93	802	7.05	63.56	16.19	0.7254
94	876	8.96	54.53	14.10	0.6890
95	856	7.03	61.96	10.67	0.4647
96	851	8.79	57.79	11.06	0.5617
97	822	8.2	57.18	13.20	0.6191
98	896	4.49	68.64	11.41	0.3516
99	862	7.37	52.81	9.92	0.3862
100	831	4.29	60.26	14.89	0.3848

Date: 01.09.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Neemuch-I****Challan No. : 06/99**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	528	8.66	53.98	13.47	0.6296
2	553	7.63	54.88	14.41	0.6035
3	556	7.5	60.53	12.87	0.5843
4	550	8.06	65.23	13.55	0.7125
5	552	8.79	61.63	13.44	0.7278
6	586	8.17	56.41	12.23	0.5637
7	582	9.27	63.31	12.68	0.7444
8	520	6.87	53.58	11.72	0.4314
9	562	7.31	72.53	12.82	0.6798
10	590	8.92	51.94	10.07	0.4665
11	543	7.15	53.66	15.10	0.5792
12	565	8.85	61.92	13.16	0.7213
13	569	7.18	60.78	13.67	0.5967
14	508	4.6	54.77	12.93	0.3257
15	539	4.23	56.16	14.80	0.3515
16	537	7.52	46.50	14.32	0.5008
17	563	9.14	54.73	13.59	0.6800
18	589	7.66	60.96	12.93	0.6036
19	554	7.6	58.24	14.37	0.6361
20	523	8.26	52.13	14.91	0.6418
21	525	4.66	53.48	10.99	0.2740
22	560	8.63	54.74	12.15	0.5739
23	541	8.67	64.59	12.45	0.6971
24	544	6.13	60.95	14.37	0.5370
25	509	8.9	56.14	10.76	0.5376
26	534	7.17	49.69	14.77	0.5263
27	506	9.08	50.46	15.50	0.7101
28	566	7.41	60.89	13.76	0.6210
29	513	9.67	48.80	15.55	0.7340
30	581	9.16	56.35	14.20	0.7328
31	585	8.78	48.66	14.24	0.6085
32	542	7.81	57.54	13.90	0.6248
33	510	7.62	55.54	15.52	0.6568
34	529	7.5	42.08	15.68	0.4950
35	567	7.54	48.54	16.38	0.5994
36	530	6.99	49.64	16.32	0.5662
37	524	7.57	45.69	16.06	0.5556
38	579	7.49	44.61	15.47	0.5168
39	588	8.66	57.76	13.94	0.6971
40	598	8.63	47.79	15.90	0.6559
41	531	8.92	53.96	15.09	0.7261
42	561	7.37	54.72	16.63	0.6707

43	600	8.68	56.02	14.12	0.6866
44	558	7.36	51.93	14.48	0.5535
45	522	3.93	61.18	12.18	0.2928
46	576	7.56	49.45	16.30	0.6093
47	502	8.63	70.94	12.79	0.7827
48	557	7.82	48.54	14.15	0.5372
49	536	7.79	43.88	13.88	0.4744
50	546	8.17	58.26	12.96	0.6168
51	583	7.22	56.90	14.34	0.5892
52	597	7.66	65.67	13.52	0.6802
53	596	7.64	64.33	13.23	0.6502
54	591	8.73	52.08	14.06	0.6390
55	559	7.39	63.99	11.41	0.5395
56	575	6.95	59.05	12.55	0.5150
57	532	8.68	46.24	14.90	0.5981
58	564	4.28	58.18	13.63	0.3394
59	571	8.46	61.15	13.23	0.6844
60	578	4.44	51.69	13.89	0.3188
61	521	8.92	53.09	13.83	0.6547
62	572	7.26	54.47	14.94	0.5910
63	594	4.33	55.84	13.86	0.3351
64	518	4.54	52.05	14.74	0.3482
65	535	8.63	42.39	15.71	0.5748
66	549	7.31	43.65	14.87	0.4744
67	584	6.46	47.68	15.21	0.4684
68	538	6.95	57.30	15.81	0.6297
69	512	7.56	53.61	13.58	0.5504
70	504	8.49	59.00	15.07	0.7548
71	547	6.66	54.24	15.67	0.5661
72	519	8.45	63.01	15.87	0.8450
73	503	8.01	50.28	14.18	0.5711
74	515	3.82	44.12	14.03	0.2365
75	548	7.09	58.96	16.13	0.6743
76	545	7.41	58.65	14.36	0.6239
77	514	3.53	55.89	15.85	0.3128
78	555	7.02	65.91	14.57	0.6739
79	507	9.11	62.36	12.83	0.7288
80	501	8.46	63.64	15.30	0.8240
81	577	8.12	60.88	13.98	0.6910
82	533	8.03	52.52	13.18	0.5557
83	511	8.53	63.73	14.33	0.7788
84	505	8.68	60.00	12.57	0.6545
85	517	4.55	62.44	14.54	0.4131
86	516	4.25	64.44	13.72	0.3757
87	574	7.14	61.27	14.30	0.6255
88	595	9.22	57.87	12.61	0.6731
89	573	7.27	55.46	12.84	0.5176

90	551	8.49	66.87	13.10	0.7437
91	540	7.56	64.87	12.84	0.6297
92	593	6.95	59.76	12.22	0.5073
93	587	8.6	60.02	11.25	0.5805
94	570	3.68	63.29	13.59	0.3165
95	527	7.07	54.75	13.94	0.5394
96	599	7.48	55.03	13.10	0.5393
97	526	8.41	64.32	14.66	0.7931
98	580	7.47	49.13	12.86	0.4721
99	592	8.78	69.26	11.07	0.6734
100	568	8.5	63.95	13.46	0.7318

Name of Division : Neemuch-I

Challan No. : 16/246

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	1540	6.88	41.21	17.74	0.5029
2	1551	7.62	45.56	16.07	0.5578
3	1533	7.1	52.90	15.27	0.5737
4	1514	9.01	53.13	15.28	0.7316
5	1590	9.24	52.58	13.69	0.6653
6	1583	8.87	45.96	14.86	0.6058
7	1539	7.24	55.88	15.39	0.6226
8	1532	7.56	43.24	14.25	0.4657
9	1554	7.78	50.81	14.13	0.5586
10	1571	7.13	61.54	13.19	0.5790
11	1510	9.18	58.15	14.45	0.7711
12	1528	7.38	56.45	12.75	0.5314
13	1553	7.57	64.93	12.38	0.6086
14	1517	4.54	73.77	12.32	0.4127
15	1507	9.12	63.48	12.52	0.7250
16	1519	8.43	55.60	13.35	0.6255
17	1559	7.71	68.58	12.35	0.6530
18	1555	7.71	61.97	13.31	0.6361
19	1509	8.82	61.03	13.39	0.7206
20	1546	7.24	55.23	13.22	0.5285
21	1535	7.26	51.77	15.34	0.5764
22	1594	4.47	53.67	14.92	0.3580
23	1520	4.65	65.37	14.01	0.4259
24	1581	7.61	54.81	15.11	0.6301
25	1596	4.7	54.37	14.25	0.3642
26	1558	7.54	53.29	14.51	0.5828
27	1592	7.68	58.35	13.88	0.6221
28	1512	7.65	55.04	13.64	0.5745
29	1577	4.44	47.05	15.22	0.3179
30	1536	6.97	48.08	14.04	0.4705
31	1562	9.25	46.19	16.24	0.6937
32	1529	7.19	51.31	15.34	0.5659
33	1578	7.3	47.94	14.18	0.4964
34	1543	7.74	50.79	13.92	0.5472
35	1518	4.42	63.91	14.41	0.4071
36	1531	6.93	47.16	16.31	0.5329

37	1548	4.6	48.46	16.26	0.3625
38	1576	7.43	51.50	14.50	0.5550
39	1593	7.5	52.04	16.54	0.6458
40	1544	7.6	58.55	14.81	0.6589
41	1566	4.26	56.28	14.11	0.3382
42	1561	7.86	59.22	12.41	0.5777
43	1521	9.03	67.54	12.27	0.7486
44	1582	7.82	44.81	10.89	0.3816
45	1541	7.52	53.70	11.06	0.4467
46	1568	4.04	50.92	12.27	0.2525
47	1579	7.21	60.00	10.90	0.4715
48	1549	7.62	61.60	13.04	0.6119
49	1542	7.46	64.07	12.69	0.6065
50	1597	7.15	58.77	11.13	0.4676
51	1526	8.44	68.43	6.56	0.3790
52	1580	4.3	60.14	12.60	0.3259
53	1538	7.46	64.08	13.42	0.6416
54	1523	7.33	69.51	13.15	0.6700
55	1565	4.06	60.93	10.55	0.2611
56	1595	9.02	60.06	12.55	0.6801
57	1591	9.11	58.97	13.26	0.7124
58	1552	7.51	63.99	12.91	0.6203
59	1527	3.75	75.39	8.93	0.2524
60	1572	7.39	66.31	9.49	0.4648
61	1574	7.36	48.51	16.22	0.5792
62	1534	7.08	47.67	14.10	0.4758
63	1530	6.5	49.21	16.03	0.5129
64	1508	4.32	55.16	14.61	0.3482
65	1506	8.26	56.27	14.59	0.6781
66	1584	8.96	39.89	15.42	0.5510
67	1505	8.98	53.63	15.33	0.7382
68	1545	7.58	42.37	15.91	0.5109
69	1564	7.22	63.30	15.28	0.6982
70	1502	9.15	53.59	16.33	0.8006
71	1511	9.03	54.83	14.61	0.7233
72	1547	7.39	56.24	14.86	0.6178
73	1515	8.46	48.18	14.94	0.6091
74	1524	9.06	57.18	14.83	0.7683
75	1525	3.04	58.68	14.06	0.2508
76	1504	7.26	49.32	15.09	0.5401
77	1563	7.78	57.05	14.02	0.6224
78	1503	4.48	53.83	16.72	0.4032
79	1516	7.29	61.00	13.74	0.6109
80	1513	8.73	53.21	14.26	0.6626
81	1589	7.25	56.76	10.87	0.4473
82	1550	7.49	62.68	12.76	0.5992
83	1522	9.02	65.50	11.65	0.6882
84	1587	7.51	58.34	10.76	0.4716
85	1588	8.1	67.29	11.52	0.6278
86	1556	7.71	65.00	13.14	0.6584

87	1537	7.96	67.53	13.65	0.7339
88	1599	4.55	49.06	14.31	0.3194
89	1586	8.85	66.49	13.40	0.7885
90	1585	9.43	60.18	12.55	0.7120
91	1569	7.2	60.00	13.20	0.5702
92	1560	7.54	60.77	14.28	0.6545
93	1573	4.38	57.46	12.81	0.3224
94	1557	8.38	52.51	13.24	0.5824
95	1575	8.83	54.49	12.64	0.6084
96	1570	8.66	62.57	12.11	0.6564
97	1501	8.17	63.20	11.03	0.5694
98	1567	7.26	60.25	12.03	0.5264
99	1598	8.99	52.90	9.81	0.4666
100	1600	7.64	55.35	11.92	0.5042

Name of Division : Neemuch-I

Challan No. : 40/439

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	3949	4.19	58.55	14.50	0.3557
2	3948	4.25	52.21	14.31	0.3175
3	3950	8.2	58.37	11.02	0.5273
4	3988	3.92	62.14	14.56	0.3548
5	3944	4.38	56.14	13.07	0.3215
6	3993	7.83	61.73	13.35	0.6452
7	3946	4.38	53.22	13.62	0.3176
8	3945	4.43	58.44	13.79	0.3571
9	3922	4.19	61.85	11.64	0.3017
10	3914	7.86	54.74	12.61	0.5423
11	3905	4.77	50.75	14.52	0.3515
12	3904	4.29	61.25	13.11	0.3445
13	3989	4.67	59.26	14.50	0.4012
14	3967	4.17	42.43	16.31	0.2886
15	3919	4.22	52.70	15.22	0.3384
16	3958	4.43	46.68	16.47	0.3407
17	3921	3.89	44.66	14.67	0.2548
18	3981	4.72	59.02	15.18	0.4229
19	3995	4.1	61.61	13.29	0.3358
20	3930	3.77	49.18	14.15	0.2624
21	3956	9.14	49.78	15.47	0.7038
22	3980	4.92	58.15	13.86	0.3966
23	3906	7.11	54.21	15.18	0.5852
24	3942	3.63	50.08	15.20	0.2762
25	3998	8.78	62.61	13.75	0.7560
26	3929	8.68	39.70	14.89	0.5130
27	3951	7	43.30	15.08	0.4571
28	3902	4.36	56.02	14.89	0.3636
29	3934	4.32	60.40	13.51	0.3525
30	3977	4.59	50.25	15.54	0.3585
31	3941	4.52	45.79	16.14	0.3340
32	3973	4.95	57.19	15.23	0.4311
33	3925	4.92	47.75	16.15	0.3793

34	3990	4.63	56.32	16.39	0.4273
35	3931	7.7	48.82	16.33	0.6137
36	3912	4.13	51.55	15.60	0.3321
37	3901	7.48	54.06	16.02	0.6478
38	3947	8.23	49.92	13.68	0.5621
39	3937	4.48	59.60	12.67	0.3382
40	3917	4.76	54.68	14.98	0.3898
41	3959	4.23	65.62	15.12	0.4196
42	3916	4.01	67.56	14.37	0.3894
43	3913	4.77	54.30	11.93	0.3091
44	3910	4.31	65.98	12.93	0.3676
45	3924	4.72	49.09	13.99	0.3243
46	3908	4.16	58.96	16.45	0.4035
47	3923	4.5	53.68	13.51	0.3263
48	3907	4.54	64.08	14.58	0.4240
49	3936	4.55	61.16	12.84	0.3572
50	3909	4.52	67.51	13.69	0.4176
51	3968	4.23	56.80	14.63	0.3515
52	3943	4.77	45.70	13.68	0.2981
53	3999	7.55	56.19	12.56	0.5330
54	3974	4.93	60.72	13.64	0.4082
55	3954	4.22	53.72	15.84	0.3591
56	3911	7.24	49.14	15.55	0.5531
57	3971	7.96	47.93	15.67	0.5978
58	3932	4.23	59.24	14.82	0.3714
59	3979	4.95	53.33	15.98	0.4217
60	3985	7.69	55.22	14.72	0.6252
61	3965	4.51	61.48	14.92	0.4136
62	4000	7.28	59.29	13.46	0.5809
63	3984	4.85	52.97	15.69	0.4030
64	3969	9.62	46.34	14.78	0.6590
65	3915	8.26	56.26	15.43	0.7170
66	3960	8.93	55.94	14.96	0.7474
67	3953	7.22	52.11	16.08	0.6050
68	3920	7.13	57.07	14.30	0.5818
69	3970	8.03	51.00	15.33	0.6279
70	3994	6.61	47.74	16.65	0.5255
71	3938	3.96	48.98	12.76	0.2475
72	3996	8.44	59.17	13.10	0.6541
73	3927	4.85	57.01	14.12	0.3904
74	3964	4.55	55.98	13.22	0.3367
75	3939	4.79	49.85	12.34	0.2946
76	3992	5	70.14	13.39	0.4695
77	3975	4.91	67.60	10.47	0.3476
78	3940	4.15	54.38	12.76	0.2880
79	3986	4.98	62.62	13.46	0.4198
80	3955	7.3	57.71	15.96	0.6723
81	3961	8.56	59.17	13.96	0.7071
82	3926	4.65	56.78	13.23	0.3492
83	3957	8.35	48.95	13.40	0.5478

84	3918	7.59	41.08	14.73	0.4592
85	3933	7.16	57.76	13.12	0.5427
86	3976	4.83	48.03	14.62	0.3391
87	3935	4.37	65.05	11.53	0.3278
88	3982	4.1	55.38	16.05	0.3645
89	3991	4.7	62.46	13.38	0.3929
90	3962	8.85	51.22	13.45	0.6098
91	3963	7.01	52.54	16.35	0.6022
92	3972	5.1	56.15	14.84	0.4248
93	3978	4.78	61.38	14.66	0.4302
94	3997	4.47	61.11	14.22	0.3884
95	3903	4.26	67.93	12.76	0.3693
96	3983	4.84	61.93	15.18	0.4550
97	3928	8.42	52.19	9.06	0.3983
98	3987	4.73	65.28	15.06	0.4650
99	3966	4.55	56.19	14.34	0.3667
100	3952	4.46	45.26	13.79	0.2783

Name of Division : Neemuch-I

Challan No. : 41/440

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	4009	7.59	58.07	14.64	0.6452
2	4007	8.98	69.08	12.09	0.7498
3	4008	8.51	68.65	12.98	0.7582
4	4017	8.27	72.05	12.17	0.7253
5	4020	4.36	57.72	15.38	0.3872
6	4006	4.43	67.94	12.39	0.3730
7	4028	4.5	50.99	13.77	0.3159
8	4027	4.27	61.48	15.40	0.4044
9	4014	4.33	65.83	13.49	0.3845
10	4024	4.54	69.11	13.10	0.4109
11	4022	4.46	66.38	14.49	0.4291
12	4026	4.53	57.49	14.82	0.3860
13	4012	8.82	76.19	13.02	0.8749
14	4003	7.53	68.44	13.98	0.7206
15	4001	7.24	67.99	12.16	0.5987
16	4016	4.72	56.32	14.24	0.3785
17	4019	4.68	55.59	13.74	0.3576
18	4030	4.21	51.86	11.53	0.2518
19	4011	4.32	70.32	12.90	0.3918
20	4010	7.26	67.51	13.05	0.6396
21	4015	7.28	71.65	13.48	0.7032
22	4031	4.13	64.28	15.59	0.4138
23	4002	4.43	67.47	12.75	0.3810
24	4023	4.47	59.06	15.20	0.4014
25	4021	4.52	59.61	14.01	0.3774
26	4018	4.42	60.70	12.47	0.3346
27	4025	7.52	49.94	13.58	0.5099
28	4005	4.33	63.14	15.09	0.4126
29	4033	8.71	55.67	13.67	0.6628
30	4013	4.5	71.91	12.33	0.3992

31	4029	4.21	56.38	12.89	0.3061
32	4004	4.21	71.79	12.73	0.3848
33	4032	4.24	61.61	15.45	0.4036

Date: 31.08.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सूचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Neemuch-I****Challan No. : 24/258**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	2308	4.31	63.88	15.75	0.4336
2	2392	7.65	61.49	15.61	0.7344
3	2337	4.15	66.65	15.47	0.4279
4	2347	5.17	47.74	13.64	0.3366
5	2327	5.84	46.20	16.06	0.4333
6	2318	3.8	45.32	15.60	0.2687
7	2379	8.87	60.35	15.03	0.8045
8	2333	4.11	51.16	14.89	0.3132
9	2306	4.74	50.88	16.08	0.3877
10	2371	9.12	53.60	14.78	0.7223
11	2325	8.14	57.73	12.94	0.6081
12	2356	1.55	59.76	13.92	0.1290
13	2335	6.82	63.82	12.61	0.5490
14	2381	4.94	63.72	12.73	0.4006
15	2315	3.62	51.63	9.82	0.1835
16	2362	3.33	58.04	14.08	0.2721
17	2345	6.45	51.06	12.36	0.4070
18	2336	6.65	53.48	14.15	0.5034
19	2398	4.31	57.44	13.65	0.3379
20	2340	2.18	61.37	12.84	0.1718
21	2374	8.87	64.37	12.43	0.7096
22	2388	7.45	60.98	13.71	0.6228
23	2343	3.27	56.65	11.33	0.2099
24	2390	9.14	73.48	13.08	0.8784
25	2312	4.69	58.67	12.00	0.3302
26	2307	7.29	68.92	11.81	0.5934
27	2301	4.79	59.93	12.08	0.3468
28	2304	7.55	62.32	10.21	0.4802
29	2303	4.42	61.07	12.67	0.3421
30	2384	7.29	64.05	14.10	0.6583
31	2323	6.68	53.84	11.24	0.4041
32	2397	9.01	63.38	13.16	0.7514
33	2321	3.6	48.61	11.54	0.2020
34	2309	7.37	65.14	11.71	0.5623
35	2378	4.54	60.81	13.42	0.3705
36	2346	6.54	44.34	11.05	0.3205
37	2400	4.41	63.89	13.30	0.3748
38	2373	7.54	55.94	12.33	0.5203
39	2395	7.71	65.30	13.51	0.6800
40	2349	6.61	56.79	10.81	0.4059
41	2370	4.74	64.89	15.15	0.4659
42	2364	3.22	56.62	11.46	0.2090

43	2366	7.11	61.17	11.62	0.5055
44	2367	7.65	57.95	13.18	0.5845
45	2386	10.09	65.32	12.19	0.8032
46	2314	5.59	48.15	11.86	0.3192
47	2351	8.42	55.55	10.69	0.5001
48	2332	6.84	68.64	11.74	0.5513
49	2334	6.63	61.41	10.58	0.4310
50	2305	7.78	57.64	12.98	0.5819
51	2322	6.63	54.17	11.81	0.4243
52	2355	6.48	58.13	14.28	0.5378
53	2376	7.66	61.90	13.26	0.6289
54	2365	3.34	63.05	10.96	0.2308
55	2357	6.52	52.44	12.68	0.4336
56	2399	4.5	65.45	12.71	0.3744
57	2396	7.81	64.09	11.89	0.5951
58	2311	7.38	65.45	12.77	0.6170
59	2363	6.15	56.41	11.20	0.3887
60	2393	4.68	66.30	13.54	0.4203
61	2361	3.53	46.23	15.21	0.2482
62	2375	8.98	59.64	15.17	0.8127
63	2353	3.45	52.14	15.02	0.2701
64	2319	3.55	49.24	11.05	0.1931
65	2385	7.65	55.44	14.92	0.6327
66	2369	7.67	61.61	14.28	0.6750
67	2350	3.52	53.20	15.28	0.2862
68	2394	7.74	55.93	15.41	0.6672
69	2338	4.08	62.13	15.21	0.3856
70	2324	3.7	47.86	14.88	0.2634
71	2358	6.94	38.92	11.95	0.3227
72	2380	4.53	62.03	14.85	0.4172
73	2329	6.31	50.29	16.29	0.5168
74	2391	4.67	60.56	14.18	0.4012
75	2328	3.27	50.26	14.09	0.2315
76	2352	6.85	54.38	13.81	0.5144
77	2360	6.34	49.03	13.64	0.4241
78	2339	3.69	62.66	12.82	0.2963
79	2377	9.28	61.55	14.52	0.8296
80	2341	7.54	44.60	15.40	0.5180
81	2348	3.44	57.07	13.60	0.2669
82	2342	1.13	44.36	13.80	0.0692
83	2310	4.81	61.49	13.04	0.3858
84	2368	7.37	53.17	15.18	0.5948
85	2387	7.78	58.86	14.34	0.6566
86	2359	8.55	57.78	13.29	0.6566
87	2320	8.36	49.49	14.59	0.6036
88	2313	1.74	40.12	14.78	0.1032
89	2344	1.85	42.10	15.91	0.1240

90	2316	4.25	50.43	12.79	0.2741
91	2330	3.69	53.14	10.82	0.2122
92	2331	6.22	61.00	12.98	0.4926
93	2389	8.29	62.61	13.58	0.7047
94	2326	3.42	57.14	10.82	0.2114
95	2317	3.89	43.86	12.75	0.2175
96	2354	6.13	59.11	11.59	0.4199
97	2372	7.52	63.37	14.98	0.7136
98	2382	7.57	67.05	12.87	0.6533
99	2383	7.65	66.61	13.92	0.7092
100	2302	4.56	62.16	12.32	0.3493

Name of Division : Neemuch-I

Challan No. : 39/438

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	3808	7.03	47.22	14.59	0.4844
2	3842	6.92	61.71	15.07	0.6436
3	3891	4.44	49.28	15.22	0.3330
4	3875	8.97	51.80	15.37	0.7140
5	3896	7.3	59.90	13.61	0.5950
6	3884	4.4	58.13	13.26	0.3392
7	3887	7.08	51.83	13.51	0.4956
8	3881	4.6	59.93	12.85	0.3542
9	3888	4.07	53.02	13.64	0.2943
10	3855	8.9	53.73	14.48	0.6924
11	3848	4.73	56.02	12.44	0.3297
12	3810	4	66.47	10.74	0.2856
13	3850	8.8	53.75	13.41	0.6345
14	3892	7.24	61.24	11.19	0.4959
15	3879	7.05	70.27	13.49	0.6683
16	3870	7.36	66.28	11.65	0.5682
17	3859	6.91	58.11	13.56	0.5445
18	3895	4.6	65.58	12.18	0.3675
19	3853	7.13	58.72	12.69	0.5312
20	3869	9.08	58.40	14.43	0.7654
21	3833	4.38	66.42	12.23	0.3557
22	3866	4.26	55.81	11.20	0.2663
23	3823	4.13	61.44	13.05	0.3312
24	3829	7.2	66.76	12.24	0.5882
25	3827	3.7	66.00	10.88	0.2657
26	3819	4.81	68.82	12.12	0.4012
27	3864	4.63	54.95	12.25	0.3116
28	3854	4.52	52.90	12.61	0.3015
29	3815	7.61	61.72	12.91	0.6065
30	3839	6.99	70.04	12.48	0.6109
31	3835	4.48	71.06	11.34	0.3611
32	3824	7.12	60.71	11.88	0.5134
33	3838	4.52	66.99	12.35	0.3738

34	3852	7.26	62.92	10.74	0.4908
35	3846	6.58	69.16	11.73	0.5336
36	3867	4.3	64.24	11.39	0.3148
37	3818	4.3	67.65	11.74	0.3414
38	3820	6.99	66.27	14.08	0.6522
39	3826	7.19	66.18	12.72	0.6054
40	3831	4.41	64.63	11.20	0.3193
41	3885	4.08	55.56	12.94	0.2934
42	3899	4.53	60.52	11.50	0.3153
43	3803	4.32	44.73	11.71	0.2264
44	3804	8.49	49.34	12.22	0.5119
45	3889	4.58	57.58	12.87	0.3394
46	3847	4.49	45.79	13.21	0.2716
47	3882	4.13	60.93	14.74	0.3709
48	3832	3.63	67.71	12.14	0.2984
49	3877	4.23	62.44	13.60	0.3591
50	3856	9.06	59.59	12.45	0.6723
51	3841	6.91	62.08	11.53	0.4948
52	3844	4.4	67.29	12.05	0.3568
53	3840	6.62	66.88	12.90	0.5713
54	3872	4.56	56.74	12.97	0.3356
55	3837	4.13	64.17	12.30	0.3259
56	3813	7.23	65.43	13.46	0.6370
57	3814	7.09	55.09	12.29	0.4800
58	3862	7.78	63.42	12.57	0.6201
59	3834	4.29	56.66	13.17	0.3200
60	3830	4.4	70.16	12.27	0.3788
61	3836	7.69	59.34	14.80	0.6752
62	3868	4.59	58.09	14.44	0.3851
63	3871	7.37	62.04	13.23	0.6051
64	3883	4.39	57.27	14.21	0.3573
65	3858	4.34	48.42	16.63	0.3494
66	3821	4.22	68.51	14.06	0.4064
67	3863	4.63	49.51	16.02	0.3672
68	3825	7.05	57.17	15.41	0.6211
69	3874	4.59	60.82	13.24	0.3695
70	3873	4.16	55.14	14.91	0.3420
71	3886	4.52	50.72	15.81	0.3625
72	3890	4.5	55.40	15.16	0.3780
73	3849	6.98	43.35	16.84	0.5095
74	3900	9.13	58.93	12.12	0.6519
75	3807	4.26	53.78	15.75	0.3608
76	3878	7.27	59.44	14.59	0.6303
77	3805	4.22	51.89	14.76	0.3233
78	3812	4.37	57.64	13.58	0.3422
79	3880	7.58	62.60	13.66	0.6481
80	3809	4.41	54.23	14.11	0.3374

81	3817	5.88	46.11	15.46	0.4192
82	3816	7.39	62.66	14.68	0.6799
83	3828	4.38	57.32	12.75	0.3202
84	3822	7.16	64.08	14.01	0.6430
85	3802	7.32	67.95	11.67	0.5805
86	3843	4.27	57.88	14.39	0.3557
87	3845	4.26	72.42	13.63	0.4205
88	3857	7.41	55.46	13.78	0.5661
89	3851	4.22	54.05	13.54	0.3089
90	3801	4.11	69.69	12.14	0.3477
91	3894	4.52	62.04	11.35	0.3182
92	3811	4.29	64.18	11.48	0.3162
93	3860	9.33	63.36	13.02	0.7697
94	3893	7.28	48.49	11.59	0.4091
95	3865	9.01	67.04	12.23	0.7388
96	3806	8.6	64.97	12.31	0.6880
97	3897	7.32	58.00	12.38	0.5256
98	3861	7.47	60.38	13.03	0.5879
99	3898	4.3	65.51	8.70	0.2451
100	3876	7.83	61.97	12.60	0.6115

Date: 30.08.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जाँच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Neemuch-I****Challan No. : 11/171**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	1069	7.8	52.29	11.23	0.4579
2	1092	4.33	56.48	13.08	0.3200
3	1034	9.64	56.33	15.28	0.8300
4	1032	3.97	63.74	14.01	0.3545
5	1001	7.33	62.99	12.72	0.5871
6	1073	4.64	63.34	11.34	0.3332
7	1060	7.14	56.32	14.06	0.5655
8	1097	7.03	56.64	13.21	0.5258
9	1048	4.57	58.68	12.59	0.3377
10	1013	9.76	59.72	13.28	0.7740
11	1025	7.95	57.76	12.15	0.5581
12	1067	8.2	52.28	11.97	0.5133
13	1053	7.38	62.38	11.56	0.5321
14	1075	7.68	66.04	13.49	0.6843
15	1044	7.91	58.90	14.13	0.6581
16	1005	7.99	60.84	15.52	0.7543
17	1020	7.79	57.27	14.51	0.6473
18	1037	9.14	61.12	13.84	0.7732
19	1081	4.33	61.92	13.92	0.3732
20	1041	9.67	60.07	13.78	0.8007
21	1087	8.44	58.86	12.13	0.6026
22	1022	7.93	64.41	12.90	0.6590
23	1068	8.17	49.96	11.85	0.4837
24	1065	8.24	58.82	12.21	0.5916
25	1072	7.8	54.13	13.02	0.5499
26	1082	7.22	53.70	14.12	0.5473
27	1096	4.32	68.88	12.86	0.3828
28	1007	8.15	52.43	13.73	0.5868
29	1002	7.2	64.48	12.67	0.5882
30	1057	4.55	55.89	13.62	0.3463
31	1036	8.19	63.86	13.09	0.6847
32	1018	8.13	66.18	15.06	0.8106
33	1011	8.07	55.35	13.95	0.6230
34	1046	7	48.41	11.13	0.3773
35	1035	8.09	60.01	15.11	0.7338
36	1085	7.51	44.44	13.73	0.4581
37	1008	8.01	54.34	14.08	0.6128
38	1054	4.4	51.37	13.53	0.3058
39	1038	7.95	58.31	14.53	0.6734
40	1015	7.57	59.50	14.32	0.6450
41	1023	8.04	51.78	15.45	0.6432
42	1070	9.39	47.07	15.49	0.6845

43	1031	7.81	53.83	14.71	0.6186
44	1074	8.79	53.49	15.74	0.7401
45	1028	4.43	51.07	15.08	0.3411
46	1058	8.34	44.04	17.35	0.6372
47	1042	7.97	48.98	16.29	0.6360
48	1064	7.8	48.12	13.78	0.5171
49	1098	9.16	51.14	13.98	0.6549
50	1055	8.78	43.75	15.45	0.5935
51	1079	7.54	60.29	14.51	0.6598
52	1080	4.21	46.32	17.23	0.3360
53	1100	6.97	50.58	15.50	0.5464
54	1040	4.15	55.72	13.53	0.3129
55	1063	8.58	58.70	13.07	0.6581
56	1019	7.77	55.43	14.96	0.6441
57	1051	7.37	52.86	15.36	0.5984
58	1021	8.03	55.38	15.44	0.6866
59	1083	7.17	51.22	15.97	0.5865
60	1095	4.25	59.12	15.46	0.3884
61	1045	7.1	48.06	12.42	0.4239
62	1033	8.24	54.63	14.48	0.6518
63	1052	8.46	46.89	15.18	0.6024
64	1009	8.1	52.13	14.54	0.6140
65	1093	7.86	58.78	14.15	0.6540
66	1062	7.54	47.72	15.88	0.5715
67	1089	8.43	55.40	13.92	0.6500
68	1043	8.13	59.32	13.76	0.6634
69	1026	7.61	42.37	15.70	0.5061
70	1003	8.66	53.66	14.61	0.6789
71	1088	7.09	50.83	16.68	0.6012
72	1030	7.69	56.34	15.34	0.6644
73	1076	7.63	52.35	14.12	0.5639
74	1071	7.29	54.59	13.59	0.5409
75	1047	7.24	53.14	13.25	0.5097
76	1086	8.89	51.89	16.46	0.7592
77	1010	10.26	51.84	14.78	0.7859
78	1012	4.42	55.78	15.61	0.3850
79	1084	7.13	50.39	14.21	0.5105
80	1039	9.43	52.51	15.48	0.7667
81	1099	9.23	51.03	12.72	0.5990
82	1094	4.31	55.72	13.30	0.3194
83	1049	7.15	51.23	12.65	0.4633
84	1027	7.97	62.46	13.93	0.6934
85	1061	7.54	60.39	14.36	0.6537
86	1050	8.49	57.03	13.45	0.6512
87	1016	4.83	60.64	12.70	0.3719
88	1091	7.45	64.05	13.91	0.6638
89	1006	8.09	60.69	12.67	0.6221

90	1090	6.92	61.14	12.97	0.5488
91	1004	8	56.59	14.90	0.6744
92	1014	7.89	63.22	15.01	0.7488
93	1017	7.99	57.85	10.72	0.4954
94	1056	7.16	45.26	11.84	0.3838
95	1029	8	58.62	13.02	0.6104
96	1059	7.53	57.36	9.12	0.3938
97	1077	7.49	65.30	13.86	0.6778
98	1078	7.56	69.55	11.91	0.6260
99	1066	7.81	50.59	11.21	0.4428
100	1024	9.93	57.30	13.66	0.7775

Date: 29.08.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Neemuch-I****Challan No. : 17/247**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	1652	4.24	48.71	11.41	0.2357
2	1685	7.54	64.61	13.28	0.6469
3	1699	8.76	57.85	14.04	0.7113
4	1675	6.22	55.85	15.24	0.5293
5	1679	7.51	59.86	14.58	0.6556
6	1619	8.9	52.07	13.04	0.6043
7	1671	4.55	61.66	15.37	0.4313
8	1601	8.8	55.33	14.02	0.6829
9	1696	7.49	61.98	11.84	0.5498
10	1636	7.6	62.50	13.06	0.6202
11	1656	4.81	57.76	9.28	0.2578
12	1680	7.46	57.57	13.62	0.5849
13	1628	4.29	55.88	12.69	0.3042
14	1627	4.33	56.78	12.19	0.2996
15	1638	4.47	65.04	13.67	0.3974
16	1645	4.17	63.35	11.62	0.3069
17	1659	7.74	66.48	11.45	0.5890
18	1668	7.35	55.46	13.87	0.5652
19	1697	4.69	62.03	13.94	0.4057
20	1684	8.58	57.74	13.28	0.6581
21	1618	8.56	49.70	11.21	0.4768
22	1683	7.58	57.46	11.76	0.5124
23	1640	7.31	54.57	11.76	0.4693
24	1644	7.48	59.09	10.83	0.4787
25	1626	7.45	61.78	11.96	0.5506
26	1603	7.43	59.60	13.39	0.5929
27	1630	7.37	58.72	12.84	0.5557
28	1665	4.54	49.86	13.06	0.2956
29	1625	7.9	63.76	14.15	0.7126
30	1634	7.15	59.04	12.84	0.5420
31	1637	8.58	53.60	14.78	0.6795
32	1653	7.14	48.63	15.20	0.5276
33	1610	9.65	57.46	13.07	0.7247
34	1643	8.65	53.46	15.45	0.7145
35	1647	4.42	51.59	14.34	0.3271
36	1615	9.01	55.92	14.66	0.7388
37	1612	4.39	57.37	15.25	0.3841
38	1642	8.64	60.15	14.63	0.7603
39	1692	7.49	60.18	14.86	0.6696
40	1678	4.58	59.74	13.44	0.3678
41	1670	4.44	51.34	15.91	0.3627
42	1669	9.2	45.54	17.74	0.7434

43	1654	7.22	60.17	15.99	0.6946
44	1693	8.72	57.79	15.49	0.7804
45	1616	8.69	55.28	15.70	0.7543
46	1661	4.4	66.95	14.98	0.4413
47	1609	7.49	60.04	14.56	0.6546
48	1635	4.14	54.74	15.09	0.3420
49	1698	4.47	57.90	15.28	0.3956
50	1606	9.54	54.78	13.96	0.7298
51	1686	7.6	54.59	14.27	0.5920
52	1620	8.43	51.50	13.24	0.5749
53	1633	4.21	55.39	13.45	0.3136
54	1681	7.27	58.52	14.88	0.6332
55	1613	8.52	51.80	15.73	0.6944
56	1646	8.75	59.68	13.61	0.7105
57	1605	7.54	58.27	14.19	0.6236
58	1677	7.5	58.46	14.11	0.6187
59	1690	8.77	53.22	15.52	0.7244
60	1631	8.43	50.79	12.15	0.5201
61	1674	4.65	52.45	12.05	0.2939
62	1608	8.77	65.89	12.82	0.7411
63	1655	8.27	62.61	12.46	0.6451
64	1657	4.49	63.56	13.58	0.3875
65	1604	8.85	56.59	12.60	0.6310
66	1662	4.24	69.32	12.19	0.3583
67	1667	7.47	50.94	12.43	0.4729
68	1602	8.78	50.86	12.19	0.5444
69	1664	8.69	57.09	12.98	0.6439
70	1624	7.28	53.85	13.18	0.5169
71	1673	7.22	65.36	12.33	0.5819
72	1700	7.4	57.41	13.27	0.5639
73	1666	7	47.08	12.23	0.4032
74	1688	7.46	56.85	11.19	0.4745
75	1691	4.63	62.78	11.42	0.3320
76	1694	7.58	59.06	12.26	0.5488
77	1632	7.68	62.54	11.18	0.5368
78	1676	7.4	56.99	11.91	0.5025
79	1663	7.54	57.44	13.35	0.5783
80	1649	7.52	61.69	12.37	0.5738
81	1689	9.03	63.02	14.19	0.8073
82	1611	8.98	59.47	12.98	0.6933
83	1658	8.22	62.81	12.43	0.6420
84	1682	7.45	52.46	13.17	0.5148
85	1695	8.87	58.27	13.44	0.6945
86	1660	7.37	67.25	12.98	0.6434
87	1651	8.48	56.47	12.75	0.6106
88	1629	7.24	57.53	12.52	0.5213
89	1617	8.49	57.15	10.57	0.5128

90	1622	4.25	52.27	11.04	0.2452
91	1650	4.38	60.65	14.33	0.3806
92	1672	4.46	45.01	16.66	0.3345
93	1614	4.26	52.46	15.84	0.3540
94	1687	4.63	51.48	16.12	0.3843
95	1648	7.6	61.14	13.56	0.6300
96	1607	9.02	49.47	14.37	0.6413
97	1623	3.93	42.93	16.00	0.2700
98	1641	8.65	48.06	15.31	0.6366
99	1621	4.18	45.70	14.07	0.2688
100	1639	4.52	50.92	13.16	0.3028

Name of Division : Neemuch-I

Challan No. : 19/249

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	1869	7.41	67.32	13.49	0.6728
2	1885	7.1	72.86	13.46	0.6965
3	1849	4.24	69.87	14.40	0.4265
4	1882	6.77	73.98	12.54	0.6283
5	1862	6.85	68.46	15.86	0.7439
6	1828	8.28	57.09	12.61	0.5962
7	1880	8.66	73.67	13.87	0.8851
8	1811	9.84	52.62	13.06	0.6760
9	1806	9.5	52.24	15.14	0.7515
10	1803	10.23	54.51	13.85	0.7724
11	1813	4.4	52.14	15.94	0.3656
12	1887	3.97	54.73	12.46	0.2708
13	1861	4.41	68.25	13.17	0.3965
14	1853	7.3	71.18	12.74	0.6621
15	1893	7.22	61.67	15.40	0.6859
16	1886	7.4	73.53	14.27	0.7763
17	1872	8.28	72.64	15.14	0.9108
18	1835	4.35	64.04	14.33	0.3993
19	1827	5.12	60.99	13.94	0.4352
20	1822	9.66	49.68	16.02	0.7689
21	1873	7.51	63.07	11.91	0.5640
22	1889	8	53.98	12.34	0.5328
23	1825	8.36	52.27	12.15	0.5309
24	1896	6.19	62.48	14.23	0.5503
25	1859	7.4	65.19	13.24	0.6386
26	1844	4.37	60.18	14.41	0.3789
27	1854	7.04	66.59	13.43	0.6294
28	1860	8.61	69.18	12.98	0.7732
29	1884	7.33	73.16	12.99	0.6964
30	1851	7.23	64.62	13.97	0.6529
31	1871	4.58	61.49	14.41	0.4058
32	1866	4.3	61.54	15.45	0.4089
33	1881	4.41	67.41	13.26	0.3943
34	1867	4.36	66.78	15.51	0.4517
35	1897	7.16	55.26	15.67	0.6201
36	1847	8.3	60.96	13.58	0.6872

37	1883	7.24	66.23	13.62	0.6530
38	1846	7.42	59.55	15.05	0.6648
39	1891	7.27	57.60	14.67	0.6143
40	1820	9.68	53.71	15.62	0.8122
41	1834	7.52	40.93	16.22	0.4993
42	1839	8.43	62.57	13.94	0.7351
43	1864	8.44	59.74	15.12	0.7621
44	1804	7.53	40.88	17.00	0.5233
45	1802	4.92	47.66	14.16	0.3321
46	1841	6.93	57.78	16.60	0.6646
47	1894	7.09	62.11	15.30	0.6736
48	1843	8.76	60.70	13.36	0.7104
49	1890	4.6	61.25	14.43	0.4066
50	1874	8.87	60.16	13.65	0.7282
51	1817	5.31	51.60	14.55	0.3988
52	1848	8.71	57.51	15.06	0.7543
53	1801	9.74	47.13	15.15	0.6954
54	1879	4.28	64.53	13.13	0.3625
55	1823	8.01	48.69	13.95	0.5439
56	1892	8.4	63.46	15.44	0.8232
57	1857	7.18	65.35	15.50	0.7273
58	1831	5.18	54.80	14.58	0.4139
59	1876	7.45	63.93	14.48	0.6899
60	1832	4.52	54.21	13.89	0.3404
61	1809	8.52	44.81	12.61	0.4814
62	1888	5.02	53.51	14.11	0.3790
63	1833	8.97	61.25	14.76	0.8109
64	1807	4.93	50.87	12.29	0.3081
65	1836	7.3	64.30	13.16	0.6176
66	1819	8.23	52.76	13.27	0.5761
67	1840	7.22	60.19	14.55	0.6325
68	1830	10.06	48.73	14.65	0.7183
69	1899	4.35	62.16	13.59	0.3676
70	1837	7.33	65.42	13.42	0.6436
71	1898	8.75	53.99	13.60	0.6423
72	1814	8.06	54.84	13.20	0.5835
73	1850	7.56	65.38	12.65	0.6252
74	1858	9.03	65.41	13.30	0.7856
75	1805	5.02	52.18	13.72	0.3594
76	1855	4.62	63.74	12.13	0.3571
77	1829	10.08	59.31	14.40	0.8608
78	1815	4.89	51.87	11.88	0.3012
79	1895	6.81	63.14	13.86	0.5959
80	1812	7.93	53.14	13.30	0.5607
81	1863	8.61	67.39	14.07	0.8162
82	1842	8.62	63.75	14.29	0.7853
83	1852	7.09	70.65	14.18	0.7104
84	1818	8.14	59.84	13.45	0.6553
85	1877	8.67	71.62	12.76	0.7924
86	1870	4.34	65.05	12.82	0.3620

87	1868	7.44	70.18	13.84	0.7224
88	1865	4.46	70.90	13.88	0.4389
89	1826	8	57.87	13.58	0.6288
90	1838	4.19	64.66	13.19	0.3574
91	1856	7.06	63.12	15.03	0.6700
92	1878	4.4	60.54	15.10	0.4022
93	1900	6.93	61.38	15.61	0.6639
94	1821	8.07	55.91	14.13	0.6375
95	1810	9.52	42.67	15.09	0.6131
96	1875	4.49	56.66	15.85	0.4032
97	1824	9.7	54.05	11.97	0.6276
98	1845	8.72	53.72	14.58	0.6828
99	1808	4.67	50.40	16.01	0.3769
100	1816	4.83	48.20	14.32	0.3333

Date: 27.08.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Neemuch-I****Challan No. : 13/173**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	1250	8.97	48.44	14.27	0.6198
2	1204	7.21	68.78	13.26	0.6576
3	1272	4.63	64.71	12.81	0.3838
4	1289	4.33	67.82	13.89	0.4079
5	1247	4.62	44.82	13.74	0.2846
6	1275	4.83	59.15	13.37	0.3821
7	1286	4.42	64.07	14.30	0.4049
8	1290	7.64	54.25	13.09	0.5424
9	1277	9.19	54.54	12.14	0.6084
10	1292	8.7	39.32	14.14	0.4837
11	1273	7.25	49.73	14.52	0.5234
12	1227	4.19	56.02	16.33	0.3834
13	1284	8.72	54.20	16.13	0.7621
14	1271	9.18	56.68	15.24	0.7932
15	1291	9.33	50.99	14.65	0.6970
16	1231	7.14	59.14	13.87	0.5855
17	1230	7.37	62.46	14.65	0.6744
18	1248	9.47	53.19	15.19	0.7652
19	1217	4.3	59.19	16.00	0.4072
20	1300	4.78	62.47	15.02	0.4484
21	1296	7.75	58.09	16.29	0.7331
22	1285	8.79	49.93	14.96	0.6566
23	1232	8.44	59.10	15.09	0.7528
24	1202	7.17	61.34	14.18	0.6238
25	1264	4.3	63.17	15.12	0.4107
26	1243	4.3	60.18	14.54	0.3763
27	1266	4.81	62.65	12.27	0.3699
28	1294	7.61	63.62	11.71	0.5669
29	1246	9.42	50.15	13.00	0.6142
30	1226	4.31	66.32	14.11	0.4034
31	1220	4.39	63.96	12.90	0.3622
32	1201	4.33	61.38	14.08	0.3741
33	1205	4.46	66.74	13.17	0.3920
34	1262	7.49	67.99	14.62	0.7445
35	1203	4.26	61.85	13.90	0.3664
36	1218	8.63	65.96	13.87	0.7896
37	1229	7.23	67.55	13.71	0.6695
38	1245	9.67	50.92	13.81	0.6798
39	1216	4.5	67.29	13.36	0.4046
40	1241	4.37	60.88	12.02	0.3199
41	1258	8.57	46.94	15.76	0.6342
42	1256	4.86	56.75	13.90	0.3835

43	1276	7.55	57.05	15.90	0.6848
44	1244	4.3	61.04	15.63	0.4102
45	1252	7.48	45.66	17.48	0.5969
46	1278	7.53	60.85	13.23	0.6062
47	1209	7.24	58.49	15.88	0.6726
48	1221	7.43	64.49	15.24	0.7304
49	1210	8.29	60.38	14.89	0.7453
50	1280	4.12	54.70	16.14	0.3638
51	1274	9.25	61.57	15.12	0.8612
52	1233	7.26	71.03	13.71	0.7071
53	1288	4.08	63.81	14.84	0.3864
54	1295	9.03	62.97	13.66	0.7766
55	1268	4.62	58.06	13.40	0.3594
56	1239	7.19	54.24	14.07	0.5486
57	1222	8.56	67.66	13.58	0.7867
58	1287	7.3	63.33	14.29	0.6607
59	1238	9.27	56.47	11.76	0.6155
60	1214	8.77	66.17	13.18	0.7647
61	1298	7.69	65.99	12.74	0.6467
62	1211	7.17	62.56	13.36	0.5994
63	1254	4.72	54.82	13.06	0.3380
64	1251	9.16	50.43	13.96	0.6449
65	1237	9.29	52.05	13.68	0.6614
66	1269	7.65	54.99	14.29	0.6013
67	1279	4.56	44.76	16.02	0.3270
68	1240	7.69	53.39	16.46	0.6760
69	1228	7.16	55.16	15.52	0.6129
70	1213	7.4	62.97	14.61	0.6808
71	1225	7.05	61.59	15.55	0.6754
72	1265	7.45	59.86	15.24	0.6794
73	1249	7.65	42.98	17.12	0.5630
74	1281	7.73	59.93	14.58	0.6756
75	1259	9.41	48.44	15.17	0.6916
76	1215	7.05	69.86	12.93	0.6366
77	1242	8.39	58.15	12.47	0.6083
78	1257	4.95	57.99	13.30	0.3816
79	1260	8.01	66.34	13.60	0.7225
80	1297	7.43	60.88	13.93	0.6301
81	1212	8.37	61.23	13.49	0.6914
82	1224	7.56	61.51	12.88	0.5988
83	1270	8.69	48.72	12.36	0.5231
84	1207	7.46	64.50	12.56	0.6043
85	1267	7.26	57.97	13.68	0.5757
86	1299	8.52	60.38	11.11	0.5717
87	1235	8.74	69.65	12.52	0.7621
88	1208	7.37	61.43	11.66	0.5277
89	1219	4.36	66.40	14.08	0.4077

90	1293	4.41	56.02	12.60	0.3113
91	1253	4.68	49.47	14.01	0.3243
92	1282	7.52	60.64	13.32	0.6076
93	1236	8.97	37.94	16.21	0.5517
94	1206	7.25	63.80	14.98	0.6931
95	1223	8.64	64.58	13.64	0.7612
96	1261	7.64	56.45	15.06	0.6494
97	1283	8.06	55.24	16.02	0.7133
98	1263	4.21	58.73	15.60	0.3856
99	1255	4.47	53.30	16.81	0.4005
100	1234	8.57	61.81	16.02	0.8484

Date: 26.08.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Neemuch-I****Challan No. : 35/404**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	3419	7.34	61.88	12.91	0.5865
2	3420	6.79	62.28	14.18	0.5996
3	3436	4.41	49.57	15.21	0.3325
4	3450	7.32	66.05	13.79	0.6669
5	3486	4.57	57.86	13.72	0.3629
6	3476	4.37	63.02	14.36	0.3955
7	3479	8.92	59.85	14.20	0.7582
8	3427	7.23	64.29	14.39	0.6688
9	3446	7.48	62.23	14.29	0.6650
10	3430	4.46	61.42	13.14	0.3599
11	3418	4.35	59.23	15.45	0.3980
12	3422	4.58	58.60	14.68	0.3939
13	3417	7.42	55.46	14.82	0.6099
14	3463	8.4	57.12	15.23	0.7308
15	3480	7.46	56.74	15.93	0.6744
16	3488	4.41	66.32	14.96	0.4375
17	3408	4.23	58.43	15.23	0.3765
18	3461	5.11	58.62	14.77	0.4425
19	3462	8.72	55.99	14.18	0.6924
20	3421	7.41	62.49	13.30	0.6158
21	3407	4.5	57.16	15.40	0.3960
22	3477	7.56	57.08	14.28	0.6161
23	3424	4.29	51.73	13.80	0.3063
24	3412	3.58	55.34	15.83	0.3136
25	3448	7.11	52.32	13.95	0.5190
26	3432	7.49	43.98	13.42	0.4419
27	3484	8.65	46.46	14.83	0.5960
28	3405	4.38	53.30	14.78	0.3451
29	3455	4.44	56.78	13.77	0.3472
30	3444	7.64	59.03	13.72	0.6188
31	3445	8.71	56.84	14.66	0.7255
32	3416	4.28	54.74	14.63	0.3428
33	3441	4.43	62.17	13.46	0.3708
34	3409	7.51	61.71	14.68	0.6804
35	3472	8.15	58.05	10.22	0.4833
36	3443	8.54	67.93	14.31	0.8301
37	3404	4.32	61.39	15.75	0.4177
38	3428	7.41	61.21	14.02	0.6358
39	3490	5.08	65.47	14.24	0.4735
40	3403	4.45	62.72	14.84	0.4143
41	3451	4.28	57.19	15.14	0.3706
42	3434	7.32	57.96	14.63	0.6207

43	3458	7.64	39.21	14.95	0.4477
44	3401	8.45	64.30	14.96	0.8129
45	3468	4.27	52.98	13.04	0.2951
46	3460	9.29	50.84	11.45	0.5407
47	3431	4.4	63.74	15.31	0.4294
48	3457	4.46	72.46	14.10	0.4558
49	3474	8.06	57.30	15.24	0.7036
50	3411	4.46	63.50	15.34	0.4344
51	3414	4.34	57.25	14.69	0.3650
52	3449	4.38	61.87	15.66	0.4244
53	3437	4.43	56.73	14.51	0.3646
54	3454	4.32	56.28	14.05	0.3417
55	3429	7.49	63.04	12.98	0.6127
56	3467	4.32	52.64	13.41	0.3050
57	3447	4.36	63.68	13.91	0.3863
58	3481	4.43	67.89	13.14	0.3952
59	3494	4.34	58.11	14.66	0.3698
60	3423	7.46	63.27	14.05	0.6632
61	3413	9.12	47.08	15.34	0.6585
62	3498	4.34	56.87	15.58	0.3845
63	3491	4.43	47.98	15.36	0.3265
64	3473	7.05	47.55	16.19	0.5429
65	3500	4.32	50.08	12.40	0.2683
66	3496	4.48	50.24	16.22	0.3651
67	3425	7.22	51.23	16.30	0.6029
68	3492	8.74	55.12	15.64	0.7534
69	3406	4.5	57.21	15.01	0.3865
70	3456	8.63	49.37	16.63	0.7085
71	3499	8.46	48.05	15.84	0.6438
72	3493	4.36	54.79	15.22	0.3636
73	3459	8.93	43.33	14.38	0.5563
74	3402	7.45	59.08	14.98	0.6593
75	3489	4.46	56.50	14.74	0.3715
76	3435	7.39	52.57	16.36	0.6355
77	3487	7.85	52.00	13.92	0.5683
78	3426	8.18	57.75	14.30	0.6757
79	3452	6.97	51.52	15.88	0.5701
80	3465	4.51	54.24	15.30	0.3743
81	3442	4.33	66.63	14.03	0.4049
82	3471	4.3	64.37	15.35	0.4248
83	3478	7.66	63.17	13.88	0.6718
84	3410	4.56	64.30	15.12	0.4432
85	3453	4.22	64.07	12.78	0.3456
86	3440	4.43	64.03	14.32	0.4062
87	3464	4.47	59.34	14.36	0.3808
88	3497	4.42	63.13	14.89	0.4155
89	3415	7.2	51.81	13.61	0.5076

90	3433	7.13	60.82	16.23	0.7037
91	3482	6.58	54.76	15.63	0.5632
92	3495	9.04	54.69	15.34	0.7585
93	3485	4.22	56.23	16.81	0.3988
94	3475	8.58	51.66	15.49	0.6864
95	3469	6.85	52.25	16.50	0.5905
96	3439	7.13	56.39	13.28	0.5340
97	3470	7.17	56.09	16.22	0.6525
98	3483	4.46	59.90	15.16	0.4050
99	3466	4.33	49.63	17.65	0.3793
100	3438	4.28	57.76	14.58	0.3604

Date: 24.08.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Neemuch-I****Challan No. : 14/174**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	1333	8.51	41.76	14.70	0.5225
2	1315	4.32	60.50	15.60	0.4078
3	1304	8.91	54.93	12.51	0.6121
4	1380	8.79	52.19	15.12	0.6935
5	1348	4.39	50.69	14.34	0.3192
6	1309	7.76	56.01	14.00	0.6084
7	1387	7.45	49.70	15.19	0.5625
8	1365	8.34	64.64	14.09	0.7598
9	1357	7.33	55.59	14.41	0.5871
10	1362	8.41	59.78	14.92	0.7502
11	1382	8.68	54.24	11.63	0.5477
12	1311	7.52	69.39	13.16	0.6866
13	1369	9.03	73.30	13.98	0.9256
14	1397	7.56	61.15	12.76	0.5897
15	1391	8.85	58.94	13.79	0.7195
16	1388	7.06	54.13	14.50	0.5542
17	1363	8.74	56.04	15.70	0.7691
18	1383	6.7	60.65	14.56	0.5916
19	1371	8.97	62.75	12.35	0.6952
20	1321	8.56	58.30	13.09	0.6531
21	1350	8.76	57.07	13.30	0.6649
22	1322	7.72	51.84	13.64	0.5458
23	1343	8.87	53.25	14.16	0.6688
24	1318	7.23	57.90	13.87	0.5806
25	1305	8.94	57.67	14.15	0.7295
26	1349	4.74	53.59	14.20	0.3607
27	1329	8.95	62.64	13.38	0.7500
28	1364	8.83	67.95	13.27	0.7965
29	1392	9	55.74	14.01	0.7029
30	1317	7.57	64.05	14.46	0.7010
31	1375	8.43	43.85	14.46	0.5345
32	1330	8.18	47.40	14.68	0.5693
33	1356	4.23	48.00	15.00	0.3046
34	1389	7.26	56.89	14.11	0.5830
35	1331	7.41	57.82	13.46	0.5765
36	1370	8.89	64.85	12.58	0.7254
37	1339	7.81	57.41	12.31	0.5522
38	1340	7.67	57.94	13.53	0.6013
39	1323	4.42	67.09	13.04	0.3867
40	1332	4.4	73.52	12.92	0.4180
41	1366	4.39	66.54	13.57	0.3964
42	1346	4.42	59.58	15.41	0.4058

43	1313	7.24	68.49	13.70	0.6791
44	1352	8.54	67.75	12.43	0.7191
45	1361	8.17	53.58	13.61	0.5956
46	1303	8.96	63.34	12.24	0.6944
47	1344	8.58	65.29	12.08	0.6770
48	1307	4.29	56.65	14.07	0.3419
49	1386	9.12	55.27	13.30	0.6703
50	1400	7.66	62.54	13.53	0.6480
51	1325	7.66	71.06	13.34	0.7262
52	1395	4.57	63.95	13.01	0.3802
53	1368	8.68	75.61	13.27	0.8706
54	1398	7.51	52.99	12.89	0.5129
55	1341	7.27	69.08	14.01	0.7037
56	1359	8.36	60.81	12.60	0.6404
57	1393	7.1	61.69	14.56	0.6376
58	1302	7.5	58.83	12.88	0.5685
59	1394	9.04	63.37	13.41	0.7684
60	1326	4.65	73.48	11.81	0.4036
61	1390	7.18	65.54	13.06	0.6146
62	1312	8.94	66.26	13.67	0.8100
63	1342	8.47	66.29	14.89	0.8360
64	1354	8.89	52.04	13.20	0.6107
65	1306	4.62	59.32	12.17	0.3336
66	1381	6.97	55.06	13.98	0.5367
67	1337	6.99	55.56	15.51	0.6025
68	1308	8.39	66.47	13.46	0.7509
69	1320	7.76	59.48	13.52	0.6239
70	1396	7.53	56.13	13.91	0.5881
71	1314	7.35	61.44	16.10	0.7269
72	1372	4.45	58.54	15.29	0.3983
73	1385	8.77	49.40	14.05	0.6086
74	1301	7.67	50.64	14.77	0.5737
75	1319	4.29	60.74	13.85	0.3608
76	1336	8.72	53.64	13.22	0.6182
77	1353	8.88	51.64	13.15	0.6030
78	1316	4.57	59.09	15.84	0.4278
79	1378	7.49	48.70	14.66	0.5348
80	1335	8.93	44.00	15.36	0.6037
81	1310	8.56	58.81	14.03	0.7062
82	1367	9.01	46.01	14.74	0.6109
83	1358	8.89	49.66	15.12	0.6676
84	1360	7.33	53.60	14.89	0.5849
85	1355	3.61	62.67	13.26	0.3000
86	1374	7.52	49.75	14.23	0.5324
87	1373	3.87	65.07	14.45	0.3638
88	1379	7.28	43.64	14.28	0.4535
89	1376	7.36	44.75	16.69	0.5498

90	1347	7.23	57.24	14.78	0.6117
91	1351	8.74	54.13	15.30	0.7237
92	1377	7.36	53.92	14.63	0.5807
93	1338	7.2	55.94	14.12	0.5688
94	1345	7.52	59.00	13.31	0.5903
95	1328	8.74	64.18	11.75	0.6590
96	1324	4.29	57.58	14.26	0.3522
97	1399	4.26	53.80	14.35	0.3289
98	1334	7.58	49.06	14.61	0.5435
99	1327	9.04	58.76	13.84	0.7350
100	1384	8.5	46.83	14.93	0.5942

Name of Division : Neemuch-I

Challan No. : 38/407

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	3779	4.47	57.14	13.55	0.3460
2	3720	4.57	54.47	15.24	0.3793
3	3753	4.26	56.90	15.34	0.3719
4	3783	4.47	54.28	15.62	0.3791
5	3745	4.5	47.67	15.06	0.3231
6	3776	4.53	59.92	15.00	0.4072
7	3796	8.76	56.86	13.59	0.6771
8	3780	8.61	58.45	13.84	0.6965
9	3732	3.94	44.25	14.64	0.2553
10	3790	4.36	63.81	14.15	0.3937
11	3795	4.25	60.22	12.94	0.3311
12	3787	8.46	58.20	13.73	0.6760
13	3705	7.09	60.99	13.10	0.5665
14	3770	7.2	56.77	15.10	0.6170
15	3707	4.4	54.47	14.21	0.3406
16	3771	4.39	66.11	12.07	0.3503
17	3794	4.21	66.03	13.40	0.3726
18	3785	6.67	64.11	15.52	0.6637
19	3769	4.35	52.02	13.76	0.3115
20	3716	6.98	62.98	12.46	0.5479
21	3754	6.75	65.52	14.55	0.6433
22	3782	4.21	65.12	13.57	0.3722
23	3731	4.41	76.32	12.04	0.4053
24	3791	7.26	67.74	13.92	0.6846
25	3772	7.23	63.71	14.79	0.6811
26	3757	4.27	62.54	14.76	0.3941
27	3701	4.51	55.18	14.14	0.3518
28	3713	6.48	56.31	13.66	0.4983
29	3792	4.29	66.90	12.62	0.3621
30	3741	4.25	64.30	13.87	0.3791
31	3756	8.03	63.59	13.57	0.6930
32	3762	6.55	60.37	13.10	0.5181
33	3764	7.95	61.38	14.94	0.7290
34	3766	8.55	60.53	12.69	0.6566
35	3742	7.38	48.79	14.08	0.5070
36	3786	7.27	58.20	13.76	0.5823

37	3761	4.25	60.82	14.67	0.3791
38	3711	4.27	58.78	14.24	0.3574
39	3800	4.44	62.00	14.29	0.3934
40	3760	8.44	67.64	14.21	0.8111
41	3789	4.31	67.57	13.19	0.3840
42	3709	7.14	70.47	12.93	0.6505
43	3719	4.1	72.45	12.24	0.3637
44	3710	4.31	58.86	13.56	0.3439
45	3775	7.01	66.65	13.07	0.6106
46	3714	4.46	68.55	12.78	0.3907
47	3733	6.97	66.76	14.32	0.6663
48	3743	4.52	54.68	12.18	0.3010
49	3777	7.55	67.60	14.22	0.7256
50	3725	7.49	62.79	14.44	0.6793
51	3768	4.27	70.54	12.99	0.3911
52	3740	7.55	64.40	13.46	0.6546
53	3703	4.19	62.72	12.87	0.3381
54	3773	8.02	70.17	14.09	0.7932
55	3721	4.18	69.48	14.18	0.4117
56	3726	4.28	63.64	12.70	0.3458
57	3763	4.49	62.47	14.89	0.4176
58	3749	4.4	56.56	14.02	0.3489
59	3788	4.27	64.92	14.49	0.4018
60	3734	8.57	66.41	14.40	0.8193
61	3752	7.41	69.57	12.17	0.6276
62	3781	4.35	66.91	13.87	0.4037
63	3708	4.27	60.57	14.76	0.3817
64	3702	6.88	58.40	13.63	0.5476
65	3798	4.14	59.51	14.28	0.3519
66	3759	8.42	70.07	13.33	0.7864
67	3755	7.11	71.85	12.71	0.6491
68	3765	9.06	66.98	11.82	0.7176
69	3737	7.98	68.13	14.27	0.7757
70	3736	8.59	67.17	11.94	0.6889
71	3739	7.06	61.93	14.05	0.6142
72	3758	6.95	65.82	12.72	0.5817
73	3784	4.3	63.03	14.33	0.3883
74	3778	4.19	59.69	13.67	0.3419
75	3747	4.53	67.84	13.18	0.4050
76	3728	6.95	68.31	13.35	0.6338
77	3744	4.33	52.59	13.58	0.3092
78	3751	4.57	60.27	14.20	0.3912
79	3793	7.01	63.79	13.07	0.5846
80	3730	7.14	71.90	13.30	0.6826
81	3746	7.46	55.70	12.21	0.5073
82	3729	7.09	62.83	13.40	0.5970
83	3799	4.31	54.52	13.13	0.3086
84	3727	4.34	57.42	13.74	0.3424
85	3767	4.41	62.04	12.52	0.3427
86	3723	4.31	57.23	13.77	0.3396

87	3718	7.05	51.95	13.46	0.4928
88	3712	4.22	53.81	14.77	0.3355
89	3722	4.14	56.10	15.60	0.3622
90	3717	4.36	50.11	14.99	0.3274
91	3706	5.84	56.51	15.89	0.5244
92	3724	4.14	66.46	15.35	0.4223
93	3750	6.85	59.47	13.23	0.5391
94	3735	7.19	59.96	13.51	0.5824
95	3738	4.06	56.83	14.32	0.3305
96	3715	7.41	57.08	13.77	0.5824
97	3748	4.45	59.29	13.83	0.3649
98	3774	4.29	60.97	13.99	0.3659
99	3797	4.66	57.02	13.50	0.3588
100	3704	4.08	54.96	14.03	0.3146

Date: 23.08.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Neemuch-I****Challan No. : 29/346**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	2809	4.26	57.94	13.27	0.3276
2	2844	7.42	71.36	12.56	0.6648
3	2878	7.41	60.76	12.08	0.5439
4	2856	4.44	64.91	11.51	0.3317
5	2871	7.65	58.96	13.13	0.5921
6	2846	7.58	62.64	11.35	0.5389
7	2825	4.23	74.29	13.46	0.4230
8	2862	4.49	62.22	14.26	0.3983
9	2895	8.66	59.17	11.97	0.6131
10	2899	8.44	56.44	14.07	0.6701
11	2870	4.74	62.65	12.96	0.3849
12	2832	7.43	65.61	14.27	0.6954
13	2883	4.69	63.65	13.76	0.4108
14	2827	7.21	74.23	15.28	0.8176
15	2848	4.39	60.52	14.01	0.3723
16	2888	3.56	55.89	13.54	0.2695
17	2881	4.53	62.96	13.18	0.3760
18	2808	7.34	61.17	13.60	0.6107
19	2864	7.37	64.53	14.44	0.6869
20	2894	7.62	60.92	12.98	0.6027
21	2885	4.43	52.09	12.06	0.2782
22	2822	4.25	68.39	14.31	0.4161
23	2855	4.27	66.46	12.73	0.3612
24	2831	4.22	55.47	13.74	0.3216
25	2839	3.76	64.20	14.21	0.3429
26	2876	7.83	46.94	12.80	0.4706
27	2886	8.53	51.07	15.94	0.6943
28	2892	8.18	51.83	15.07	0.6389
29	2887	7.39	48.85	15.37	0.5550
30	2857	6.39	57.97	13.49	0.4997
31	2815	8.25	57.91	15.28	0.7301
32	2807	7.49	57.06	13.18	0.5632
33	2882	4.43	50.77	15.52	0.3491
34	2891	4.34	52.17	16.12	0.3650
35	2875	7.33	49.65	14.64	0.5329
36	2821	7.41	62.85	11.93	0.5557
37	2849	8.92	50.90	16.15	0.7332
38	2830	4.27	58.11	16.33	0.4052
39	2810	8.89	57.34	16.67	0.8499
40	2813	4.39	59.12	13.28	0.3446
41	2811	7.32	60.01	14.60	0.6412
42	2896	4.22	66.66	12.00	0.3376

43	2858	7.26	52.71	14.38	0.5503
44	2817	8.51	64.70	14.45	0.7957
45	2818	4.08	67.27	12.90	0.3541
46	2900	7.24	65.59	12.65	0.6009
47	2833	8.88	70.61	12.25	0.7681
48	2826	7.01	72.21	13.65	0.6912
49	2834	7.2	57.36	16.46	0.6797
50	2805	7.46	64.39	14.86	0.7139
51	2865	4.68	63.55	13.80	0.4104
52	2863	4.44	67.69	12.42	0.3734
53	2854	4.45	70.45	13.07	0.4098
54	2816	7.2	71.14	13.49	0.6912
55	2829	7.38	67.25	13.25	0.6576
56	2806	7.51	64.99	15.17	0.7405
57	2819	7.18	57.47	14.02	0.5787
58	2842	7.22	74.22	15.02	0.8050
59	2824	4.1	73.88	12.45	0.3772
60	2859	9.02	58.34	13.01	0.6846
61	2814	7.52	64.36	14.71	0.7121
62	2850	7.36	58.08	14.31	0.6116
63	2873	4.23	53.10	15.18	0.3409
64	2889	7.4	56.87	13.77	0.5794
65	2897	8.76	48.40	15.64	0.6631
66	2890	7.4	61.33	13.68	0.6209
67	2874	7.29	55.46	14.80	0.5985
68	2851	7.42	55.24	14.52	0.5951
69	2852	4.24	66.84	13.46	0.3816
70	2820	7.37	55.10	14.17	0.5756
71	2843	7.32	67.63	14.52	0.7188
72	2847	7.32	62.67	12.62	0.5790
73	2837	7.22	75.77	12.64	0.6917
74	2853	7.1	63.76	12.99	0.5879
75	2840	4.33	74.60	13.14	0.4243
76	2872	8	53.49	12.43	0.5320
77	2836	7.17	72.61	12.85	0.6690
78	2866	4.47	60.14	13.65	0.3670
79	2869	4.61	60.76	13.58	0.3803
80	2867	7.34	57.95	14.44	0.6144
81	2804	4.36	67.18	13.74	0.4024
82	2802	7.49	53.95	14.25	0.5760
83	2898	4.19	58.25	12.96	0.3163
84	2835	7.45	67.65	14.03	0.7070
85	2812	4.49	66.82	13.83	0.4149
86	2893	8.6	62.77	14.16	0.7645
87	2803	6.83	58.97	15.45	0.6222
88	2841	4.19	69.59	13.42	0.3913
89	2861	3.81	48.72	14.39	0.2671

90	2879	7.45	67.19	13.68	0.6847
91	2801	3.66	49.88	12.47	0.2277
92	2823	4.44	67.05	14.81	0.4409
93	2838	8.51	67.85	13.75	0.7940
94	2828	7.41	70.69	12.75	0.6676
95	2884	4.35	66.09	10.99	0.3158
96	2877	4.75	57.32	13.92	0.3791
97	2845	6.32	65.23	14.26	0.5878
98	2868	7.43	56.52	15.53	0.6524
99	2880	7.69	68.95	14.27	0.7567
100	2860	4.47	53.26	13.11	0.3120

Name of Division : Neemuch-I

Challan No. : 34/391

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	3354	7.91	63.88	12.95	0.6542
2	3378	4.59	64.35	12.67	0.3741
3	3335	7.1	65.56	12.07	0.5616
4	3338	4.3	64.55	12.61	0.3500
5	3314	3.83	52.45	12.55	0.2520
6	3325	4.42	52.88	12.92	0.3019
7	3329	4.06	68.37	13.66	0.3792
8	3368	7.59	59.97	12.79	0.5822
9	3332	7.74	61.12	13.33	0.6308
10	3304	4.11	62.13	13.57	0.3465
11	3388	7.23	66.55	14.14	0.6803
12	3370	4.86	61.55	14.44	0.4321
13	3350	4.26	60.63	12.67	0.3272
14	3349	7.52	60.25	12.88	0.5836
15	3320	4.4	59.41	12.91	0.3375
16	3303	7.37	46.67	11.91	0.4098
17	3324	7.31	59.29	12.84	0.5563
18	3310	7.2	58.41	11.85	0.4982
19	3351	7.57	58.62	13.51	0.5995
20	3323	7	61.69	14.61	0.6307
21	3327	7.26	66.63	12.62	0.6106
22	3364	7.65	55.01	13.62	0.5730
23	3361	7.45	56.43	12.25	0.5148
24	3348	7.2	44.06	12.69	0.4025
25	3308	7.18	49.86	13.34	0.4775
26	3366	4.55	52.51	14.36	0.3431
27	3313	4.26	59.04	13.86	0.3485
28	3374	4.38	58.04	16.20	0.4117
29	3326	8.42	58.91	14.36	0.7123
30	3305	4.26	50.75	13.56	0.2931
31	3382	7.48	55.73	13.91	0.5797
32	3336	4.29	53.25	13.09	0.2990
33	3372	4.71	49.70	14.25	0.3335
34	3386	7.58	52.90	14.42	0.5784
35	3399	8.6	44.03	15.15	0.5736
36	3302	4.33	50.55	13.85	0.3031

37	3367	4.44	55.32	14.52	0.3565
38	3347	7.63	51.70	14.74	0.5814
39	3362	4.54	58.66	13.94	0.3714
40	3373	7.69	61.26	14.10	0.6644
41	3328	7.18	56.71	13.44	0.5471
42	3391	8.92	46.82	14.67	0.6128
43	3384	4.36	56.19	14.36	0.3519
44	3301	3.64	47.37	15.18	0.2617
45	3394	4.41	58.87	14.13	0.3669
46	3306	4.36	54.69	13.15	0.3135
47	3343	7.55	61.65	11.81	0.5496
48	3357	4.49	53.53	15.37	0.3695
49	3379	4.48	64.04	13.74	0.3942
50	3322	4.64	61.98	14.12	0.4060
51	3392	4.52	57.90	14.51	0.3797
52	3317	7.01	54.02	12.13	0.4592
53	3337	4.18	65.56	10.45	0.2863
54	3307	4.49	52.55	11.51	0.2716
55	3319	4.28	60.94	12.88	0.3360
56	3356	4.69	53.77	13.74	0.3466
57	3358	4.78	57.54	13.49	0.3709
58	3371	4.38	54.62	12.43	0.2974
59	3333	4.31	55.56	13.64	0.3267
60	3334	4.22	62.39	13.24	0.3486
61	3353	4.75	53.49	14.94	0.3795
62	3359	4.58	55.37	14.45	0.3664
63	3340	4.27	61.52	14.39	0.3779
64	3345	9.28	52.58	15.37	0.7498
65	3355	4.58	52.54	14.79	0.3559
66	3331	7.19	59.38	14.16	0.6047
67	3377	4.58	52.84	15.42	0.3733
68	3390	8.95	57.72	13.17	0.6802
69	3365	9.31	59.07	15.08	0.8295
70	3397	7.25	64.99	15.19	0.7156
71	3346	9.27	52.19	13.87	0.6711
72	3339	4.33	64.32	14.55	0.4053
73	3315	7.13	61.21	13.17	0.5747
74	3321	4.08	60.54	12.93	0.3195
75	3311	7.05	58.67	13.21	0.5464
76	3398	8.53	56.31	14.17	0.6807
77	3360	4.59	66.16	14.19	0.4310
78	3387	7.66	63.69	13.93	0.6794
79	3363	4.43	63.45	13.85	0.3894
80	3316	8.01	61.70	13.60	0.6720
81	3341	4.33	70.97	12.70	0.3901
82	3383	4.77	65.14	12.47	0.3873
83	3385	7.26	63.23	14.58	0.6694
84	3352	7.86	61.21	13.95	0.6712
85	3330	7.49	64.31	12.95	0.6239
86	3309	3.53	52.33	14.77	0.2729

87	3344	7.5	61.09	14.63	0.6705
88	3395	7.29	64.37	14.91	0.6998
89	3381	8.79	60.07	13.05	0.6891
90	3393	7.45	56.81	13.34	0.5647
91	3396	4.43	58.23	13.40	0.3455
92	3369	4.6	60.59	13.19	0.3675
93	3342	4.52	62.92	12.19	0.3467
94	3380	4.26	59.24	14.04	0.3544
95	3312	7.19	58.92	13.15	0.5572
96	3400	7.6	66.88	13.91	0.7068
97	3318	4.07	54.98	13.48	0.3016
98	3375	7.16	63.27	13.94	0.6315
99	3376	7.64	62.37	13.56	0.6463
100	3389	4.54	69.80	12.85	0.4072

Date: 22.08.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Neemuch-I****Challan No. : 04/41**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	353	6.45	54.88	12.52	0.4431
2	383	8.34	59.66	14.77	0.7348
3	316	7.96	55.31	12.33	0.5429
4	370	9.58	59.81	13.41	0.7683
5	349	4.17	56.08	11.64	0.2723
6	362	8.14	54.28	14.28	0.6309
7	367	8.22	58.43	14.56	0.6995
8	363	7.54	53.54	14.29	0.5768
9	323	7.18	48.79	13.14	0.4602
10	343	7.16	46.25	12.74	0.4217
11	310	6.64	45.50	12.57	0.3798
12	330	7.31	44.13	13.60	0.4386
13	358	7.86	55.88	11.56	0.5078
14	374	8.3	56.11	14.47	0.6740
15	378	7.82	57.21	11.83	0.5294
16	399	7.64	59.03	12.82	0.5783
17	304	7.45	54.83	10.80	0.4410
18	382	8.34	53.90	12.58	0.5655
19	327	7.94	51.31	11.83	0.4820
20	303	8.02	45.22	11.83	0.4291
21	380	5.18	58.56	12.00	0.3642
22	307	8.73	59.07	10.21	0.5264
23	326	8.94	48.54	12.61	0.5471
24	320	7.22	58.20	11.07	0.4650
25	309	8.66	61.02	10.73	0.5672
26	344	6.74	47.96	15.08	0.4873
27	391	8.6	51.46	13.66	0.6046
28	356	8.16	47.97	13.15	0.5149
29	305	7.58	61.23	14.60	0.6777
30	332	9.56	49.01	15.53	0.7275
31	352	5.62	51.31	14.60	0.4209
32	384	8.46	49.75	14.41	0.6066
33	388	8.64	53.96	15.12	0.7050
34	311	8.49	44.99	15.49	0.5918
35	337	6.85	43.45	15.40	0.4583
36	339	7.6	43.75	15.93	0.5297
37	377	9.63	49.84	16.33	0.7839
38	348	7.01	62.33	13.81	0.6036
39	365	7.84	50.12	15.26	0.5998
40	364	8.06	49.79	16.47	0.6609
41	355	7.97	39.60	16.92	0.5340
42	317	7.07	51.59	14.63	0.5338

43	334	9.26	51.28	14.90	0.7075
44	350	7.23	50.05	14.71	0.5321
45	372	8.01	56.34	15.44	0.6969
46	306	3.51	43.92	16.78	0.2587
47	400	9.04	54.92	15.31	0.7603
48	301	7.09	58.92	13.42	0.5608
49	392	7.27	58.81	13.62	0.5823
50	318	4.08	49.72	15.79	0.3203
51	386	9.49	51.52	12.62	0.6169
52	313	6.88	51.19	10.53	0.3708
53	394	7.35	64.43	12.26	0.5806
54	371	7.98	59.27	14.71	0.6959
55	325	4.12	56.17	13.87	0.3209
56	321	8.1	58.83	12.36	0.5889
57	346	6.84	59.06	12.89	0.5205
58	395	8.82	67.35	12.92	0.7673
59	361	9.41	61.82	10.74	0.6248
60	368	7.82	57.72	14.45	0.6522
61	369	8.15	54.43	13.93	0.6178
62	340	6.68	56.48	11.19	0.4222
63	335	7.55	62.18	12.48	0.5859
64	319	8.65	65.95	12.13	0.6920
65	314	6.21	50.92	11.41	0.3608
66	390	7.38	55.45	14.52	0.5941
67	336	8.32	43.87	14.32	0.5225
68	360	8.31	54.43	15.05	0.6806
69	381	8.46	51.34	12.66	0.5499
70	357	9.15	47.04	14.29	0.6149
71	341	4.32	52.98	11.72	0.2683
72	366	7.84	45.80	15.31	0.5496
73	387	4.6	60.10	12.20	0.3372
74	308	2.94	41.48	15.00	0.1829
75	347	7.7	59.26	12.74	0.5813
76	359	7.96	52.27	15.00	0.6241
77	329	7.98	49.33	14.41	0.5674
78	351	7.29	61.08	13.39	0.5963
79	331	4.78	41.79	14.55	0.2906
80	379	7.81	55.93	15.14	0.6615
81	397	9.01	66.47	12.28	0.7352
82	393	8.7	63.07	13.57	0.7447
83	389	7.24	62.68	12.52	0.5683
84	375	9.6	61.86	15.36	0.9120
85	345	6.78	52.96	11.97	0.4299
86	338	6.92	45.35	12.48	0.3917
87	398	7.95	64.10	13.32	0.6789
88	376	8.19	59.48	13.42	0.6536
89	328	9.29	50.18	13.29	0.6196

90	333	7.95	56.76	14.59	0.6583
91	385	9.6	49.16	12.04	0.5683
92	302	8.76	52.54	16.96	0.7805
93	342	7.96	48.66	15.50	0.6002
94	312	6.35	42.47	15.23	0.4108
95	322	6.63	53.60	14.53	0.5165
96	315	7.04	48.94	15.55	0.5357
97	373	8.2	50.19	16.80	0.6913
98	324	8.16	56.71	14.55	0.6732
99	396	8.36	60.72	14.71	0.7465
100	354	8.36	48.34	16.16	0.6529

Date: 20.08.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Neemuch-I****Challan No. : 22/256**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	2198	7.48	39.57	16.10	0.4765
2	2195	7.36	45.51	14.74	0.4939
3	2188	3.9	50.99	14.53	0.2890
4	2116	3.86	57.75	14.08	0.3138
5	2125	5.08	45.57	13.28	0.3073
6	2135	4.6	55.25	14.41	0.3662
7	2117	5.06	58.59	14.66	0.4347
8	2108	3.89	55.68	13.90	0.3011
9	2154	6.99	55.72	13.69	0.5333
10	2162	8.18	64.47	12.77	0.6732
11	2161	7.16	63.96	11.01	0.5041
12	2168	4.63	48.70	10.70	0.2412
13	2134	7.6	65.10	14.07	0.6962
14	2119	4.82	56.58	13.24	0.3610
15	2148	8.52	59.88	15.30	0.7804
16	2174	7.37	62.61	13.46	0.6213
17	2127	4.77	60.52	14.92	0.4307
18	2189	7.33	56.30	13.82	0.5703
19	2183	7.69	62.67	12.19	0.5875
20	2196	3.67	59.85	13.35	0.2932
21	2107	6.91	64.01	14.23	0.6295
22	2114	7.36	57.68	11.81	0.5012
23	2132	7.21	62.06	15.10	0.6756
24	2128	7.28	58.34	15.22	0.6465
25	2140	4.42	61.05	12.27	0.3311
26	2165	7.41	64.37	14.04	0.6699
27	2122	9.5	55.03	14.37	0.7514
28	2109	7.85	47.41	16.79	0.6249
29	2123	9.22	55.57	15.30	0.7837
30	2192	8.77	62.30	13.35	0.7297
31	2170	6.76	41.95	14.64	0.4151
32	2112	8.05	47.19	16.25	0.6174
33	2175	9.15	58.78	13.51	0.7265
34	2143	4.24	48.95	15.79	0.3278
35	2120	7.24	51.48	14.30	0.5329
36	2121	4.66	50.70	13.94	0.3295
37	2171	6.94	53.40	13.58	0.5032
38	2136	7.25	50.25	14.59	0.5314
39	2115	4.59	47.54	15.59	0.3401
40	2172	7.01	51.92	12.79	0.4655
41	2142	7.04	59.41	12.32	0.5153
42	2146	4.3	66.56	12.11	0.3466

43	2141	4.3	47.30	13.70	0.2786
44	2159	8.36	68.87	13.74	0.7909
45	2139	7.14	55.04	13.12	0.5155
46	2157	4.16	63.03	14.20	0.3723
47	2133	7.14	50.36	13.52	0.4862
48	2150	4.3	59.72	14.28	0.3668
49	2105	7.05	54.89	11.86	0.4590
50	2149	8.45	63.54	14.02	0.7529
51	2193	7.28	47.75	11.25	0.3909
52	2199	8.18	52.54	12.81	0.5505
53	2180	4.13	58.10	13.36	0.3205
54	2113	8.95	50.00	12.86	0.5755
55	2147	6.35	61.43	13.35	0.5207
56	2164	4.23	69.80	13.25	0.3913
57	2145	8.24	59.91	13.70	0.6765
58	2194	4.37	46.47	13.64	0.2771
59	2151	7.16	62.00	14.16	0.6286
60	2184	4.81	61.39	13.59	0.4012
61	2131	7.52	61.49	13.04	0.6031
62	2186	4.32	52.06	13.16	0.2959
63	2124	9.66	61.99	13.32	0.7979
64	2102	7.4	62.56	12.76	0.5905
65	2144	7.27	62.79	10.96	0.5002
66	2160	4.68	64.68	13.39	0.4053
67	2104	7.09	48.45	14.04	0.4821
68	2111	7.78	51.72	13.09	0.5267
69	2155	6.94	53.61	15.76	0.5864
70	2138	7.41	49.10	16.27	0.5921
71	2130	7.54	54.32	14.64	0.5994
72	2191	4.71	57.01	13.56	0.3641
73	2163	8.21	60.81	14.92	0.7446
74	2187	4.3	48.67	14.36	0.3006
75	2166	8.27	45.13	14.23	0.5309
76	2176	8.08	56.10	10.78	0.4888
77	2185	6.05	58.83	13.77	0.4901
78	2167	6.34	43.14	13.54	0.3703
79	2110	4.61	47.02	12.06	0.2614
80	2126	7.14	66.17	13.07	0.6176
81	2179	7.58	67.53	14.51	0.7428
82	2190	4.56	64.03	12.37	0.3612
83	2178	7.37	60.79	13.32	0.5970
84	2156	7.12	59.15	14.22	0.5988
85	2152	6.99	63.41	14.68	0.6508
86	2101	4.44	59.65	14.20	0.3761
87	2158	8.73	60.34	14.45	0.7613
88	2181	4.4	56.86	12.79	0.3199
89	2197	7.48	50.59	14.90	0.5640

90	2106	3.8	56.48	14.55	0.3124
91	2137	8.4	46.31	15.96	0.6208
92	2200	7.45	54.39	15.02	0.6087
93	2118	6.52	47.27	14.64	0.4512
94	2103	9.07	43.60	15.02	0.5941
95	2182	7.24	57.50	15.88	0.6610
96	2153	4.16	49.74	16.61	0.3436
97	2129	7.61	45.77	15.60	0.5434
98	2173	7.96	48.13	15.08	0.5779
99	2169	9.32	55.63	14.81	0.7680
100	2177	8.52	50.27	15.87	0.6799

Name of Division : Neemuch-I

Challan No. : 23/257

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	2288	7.6	61.81	14.59	0.6855
2	2224	7.66	61.79	14.79	0.7001
3	2253	8.63	55.19	15.31	0.7292
4	2261	4.75	53.59	12.60	0.3206
5	2256	4.34	54.34	14.46	0.3411
6	2205	8.72	60.18	13.28	0.6967
7	2262	4.24	63.82	13.46	0.3642
8	2278	4.59	53.54	12.05	0.2961
9	2211	7.37	54.02	14.05	0.5594
10	2266	4.2	46.28	15.84	0.3079
11	2245	7.03	54.04	12.99	0.4935
12	2292	7.62	64.92	13.19	0.6523
13	2298	7.49	60.40	14.14	0.6396
14	2269	7.53	56.75	13.64	0.5828
15	2249	7.51	55.61	13.41	0.5602
16	2241	8.95	66.99	13.63	0.8171
17	2238	4.56	61.96	14.03	0.3963
18	2248	4.51	56.17	11.59	0.2936
19	2213	7.17	65.24	13.44	0.6288
20	2300	4.47	67.43	14.09	0.4246
21	2280	7.78	56.46	12.96	0.5695
22	2276	4.59	59.73	13.19	0.3617
23	2296	4.74	63.97	12.32	0.3735
24	2299	4.52	62.76	12.87	0.3652
25	2236	7.7	66.80	12.63	0.6499
26	2252	8.34	56.08	13.25	0.6197
27	2239	9.07	61.25	13.52	0.7510
28	2251	4.37	51.00	13.94	0.3107
29	2227	8.83	61.73	12.91	0.7038
30	2282	7.62	57.46	13.17	0.5768
31	2210	4.47	65.64	13.59	0.3987
32	2287	7.5	55.59	13.98	0.5828
33	2247	7.58	59.71	12.93	0.5852

34	2232	7.51	56.43	13.29	0.5633
35	2268	7.73	52.68	12.83	0.5225
36	2265	8.88	57.36	12.71	0.6474
37	2257	8.41	58.65	13.15	0.6484
38	2293	8.9	60.67	14.09	0.7609
39	2277	7.31	51.13	12.48	0.4664
40	2286	7.33	56.26	13.12	0.5410
41	2273	4.79	58.27	13.54	0.3779
42	2226	7.38	58.95	12.35	0.5373
43	2284	7.29	58.51	11.90	0.5074
44	2290	4.43	59.55	12.54	0.3309
45	2212	7.06	63.81	14.01	0.6312
46	2289	4.59	63.24	12.82	0.3722
47	2222	4.74	62.55	12.57	0.3726
48	2283	7.41	60.52	11.78	0.5283
49	2223	4.63	62.96	14.56	0.4246
50	2206	7.26	56.95	11.43	0.4726
51	2221	7.76	63.48	12.76	0.6286
52	2220	7.41	58.65	12.84	0.5580
53	2254	8.69	55.75	10.69	0.5179
54	2217	9.07	66.65	13.97	0.8444
55	2270	7.4	53.38	13.47	0.5321
56	2230	7.67	64.17	15.08	0.7425
57	2250	7.49	58.05	10.66	0.4636
58	2297	7.42	60.29	12.84	0.5743
59	2231	4.62	62.52	13.24	0.3825
60	2237	4.45	70.64	13.04	0.4098
61	2216	7.32	60.15	12.98	0.5717
62	2291	4.56	62.59	11.52	0.3288
63	2294	4.57	66.24	12.30	0.3725
64	2234	7.38	68.25	12.47	0.6280
65	2225	7.51	65.88	13.69	0.6774
66	2228	7.46	63.87	12.37	0.5893
67	2240	4.46	60.36	17.23	0.4638
68	2235	7.3	62.31	13.53	0.6154
69	2207	7.48	54.45	14.82	0.6036
70	2260	4.33	54.55	13.49	0.3187
71	2233	9.04	62.00	14.06	0.7883
72	2279	8.83	50.64	16.05	0.7179
73	2258	4.24	57.24	13.31	0.3231
74	2281	4.77	52.16	14.90	0.3706
75	2229	4.7	62.97	13.70	0.4056
76	2267	7.58	46.77	13.04	0.4624
77	2202	7.27	63.53	12.42	0.5736
78	2255	6.86	67.36	12.44	0.5749
79	2271	4.79	52.76	12.59	0.3181
80	2214	8.22	72.29	12.06	0.7168

81	2242	7.36	70.07	13.40	0.6911
82	2215	4.44	55.86	13.10	0.3250
83	2295	4.34	64.86	12.49	0.3515
84	2203	7.23	61.97	14.22	0.6370
85	2275	7.39	58.93	13.24	0.5764
86	2201	7.49	54.02	14.16	0.5730
87	2244	7.49	47.85	14.86	0.5325
88	2218	8.78	56.64	14.23	0.7077
89	2259	4.46	65.03	13.41	0.3889
90	2272	5.76	45.24	16.93	0.4412
91	2209	7.09	66.03	13.25	0.6204
92	2208	7.6	57.86	15.07	0.6627
93	2274	4.43	47.15	16.73	0.3495
94	2204	8.49	59.46	14.43	0.7284
95	2219	4.65	57.43	13.86	0.3701
96	2264	8.18	66.58	14.61	0.7959
97	2243	8.67	49.60	16.07	0.6910
98	2263	4.65	58.00	14.97	0.4036
99	2246	7.35	45.57	16.59	0.5557
100	2285	4.37	42.27	16.94	0.3129

Date: 17.08.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जाँच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Neemuch-I****Challan No. : 02/39**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	162	4.31	53.17	14.54	0.3332
2	150	8.97	53.85	13.44	0.6494
3	160	4.25	48.47	14.55	0.2996
4	157	8.97	38.64	16.49	0.5714
5	136	9.58	49.62	15.09	0.7175
6	191	7.61	43.51	14.50	0.4802
7	132	3.71	41.48	14.73	0.2267
8	137	9.25	49.20	15.20	0.6919
9	183	7.39	51.33	13.91	0.5276
10	135	7.33	44.64	17.03	0.5571
11	173	4.51	62.48	13.56	0.3820
12	129	8.04	51.42	12.39	0.5121
13	172	4.34	64.34	14.25	0.3980
14	133	3.63	50.77	14.99	0.2762
15	161	7.27	48.95	13.24	0.4711
16	113	8.94	41.39	14.35	0.5310
17	197	7.02	57.66	14.65	0.5932
18	141	8.01	53.89	14.99	0.6472
19	155	8.47	54.40	14.61	0.6734
20	115	8.52	45.31	15.07	0.5819
21	167	3.61	57.19	15.84	0.3271
22	116	4.47	48.61	15.63	0.3397
23	170	7.49	54.42	15.71	0.6404
24	114	8.54	41.74	15.57	0.5551
25	187	7.42	53.18	13.46	0.5313
26	174	7.5	69.29	13.00	0.6758
27	117	8.78	51.27	14.98	0.6743
28	146	4.2	60.07	14.67	0.3700
29	189	7.54	53.60	13.30	0.5376
30	193	7.45	58.96	13.09	0.5751
31	104	7.72	65.45	13.32	0.6732
32	122	8.58	39.60	16.69	0.5671
33	168	4.41	56.10	15.35	0.3797
34	110	7.47	51.08	15.56	0.5939
35	185	9.05	40.35	16.41	0.5991
36	111	9.01	54.33	14.32	0.7010
37	159	4.18	48.60	17.28	0.3511
38	118	4.17	44.33	15.11	0.2794
39	119	8.44	49.63	11.81	0.4946
40	190	7.25	57.43	13.70	0.5706
41	179	4.72	56.86	13.33	0.3578
42	120	4.23	45.57	14.51	0.2796

43	175	3.64	56.37	15.52	0.3185
44	125	8.62	45.66	15.59	0.6137
45	158	7.12	44.83	15.55	0.4963
46	147	9.33	48.84	15.40	0.7016
47	181	4.23	49.45	14.70	0.3075
48	138	7.79	51.61	15.93	0.6403
49	123	4.11	48.26	16.10	0.3193
50	143	8.84	48.82	15.30	0.6603
51	134	7.09	45.66	13.84	0.4481
52	192	7.79	53.83	15.57	0.6528
53	186	7.85	48.38	13.08	0.4969
54	109	7.41	49.85	16.27	0.6010
55	128	8.94	52.50	13.73	0.6446
56	126	8.82	48.26	16.00	0.6809
57	101	3.81	60.14	13.75	0.3151
58	171	4.67	59.25	13.45	0.3722
59	178	4.48	50.31	15.80	0.3562
60	198	7.56	50.25	15.74	0.5980
61	106	6.97	64.25	13.76	0.6161
62	196	8.76	62.48	15.12	0.8278
63	151	8.01	62.08	15.09	0.7505
64	107	8.97	59.02	15.66	0.8288
65	180	4.32	58.08	14.24	0.3573
66	139	9.6	55.61	12.57	0.6710
67	148	9.27	53.19	13.31	0.6563
68	199	7.03	60.00	15.50	0.6538
69	145	8.12	56.24	13.98	0.6382
70	102	7.12	61.86	13.09	0.5767
71	184	8.71	46.60	14.83	0.6019
72	163	8.72	58.00	12.60	0.6374
73	156	8.82	47.95	13.24	0.5601
74	182	4.31	53.71	12.29	0.2845
75	194	7.71	66.15	13.44	0.6854
76	108	8.51	57.22	15.19	0.7395
77	131	8.08	52.53	12.28	0.5212
78	188	7.47	62.03	13.45	0.6230
79	176	4.51	63.79	15.72	0.4524
80	165	4.52	61.60	14.37	0.4000
81	153	9.29	60.03	13.36	0.7451
82	200	8.83	56.50	14.25	0.7108
83	121	8.49	48.52	13.17	0.5425
84	154	9.05	49.39	12.33	0.5511
85	127	8.65	50.83	14.07	0.6185
86	144	8.92	62.79	15.02	0.8412
87	103	9.22	64.75	12.80	0.7643
88	130	8.68	45.84	14.14	0.5625
89	177	8.77	57.13	14.32	0.7174

90	124	8.63	50.92	13.59	0.5972
91	152	8.62	48.86	15.76	0.6637
92	105	8.96	49.47	13.64	0.6048
93	169	7.29	55.34	15.63	0.6306
94	164	4.3	43.22	17.54	0.3259
95	142	7.91	50.11	14.61	0.5790
96	166	7.38	45.08	17.19	0.5720
97	149	9.29	48.46	14.24	0.6410
98	195	7.95	48.89	16.24	0.6312
99	112	8.4	40.56	15.56	0.5300
100	140	9.23	59.57	13.95	0.7670

Name of Division : Neemuch-I

Challan No. : 03/40

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	202	9.26	47.21	16.99	0.7427
2	210	7.19	55.45	13.49	0.5378
3	255	8.4	54.05	14.75	0.6695
4	288	6.86	40.03	17.24	0.4733
5	278	6.86	44.48	16.14	0.4925
6	281	6.95	46.84	15.37	0.5004
7	226	8.58	50.57	14.97	0.6495
8	276	7.46	42.06	15.93	0.4998
9	260	8.38	53.56	15.83	0.7106
10	243	4.44	60.63	15.70	0.4227
11	284	8.84	52.08	13.42	0.6179
12	207	4.74	56.77	12.44	0.3346
13	259	8.59	56.67	14.36	0.6992
14	246	7.33	64.27	13.21	0.6223
15	240	4.07	60.03	13.89	0.3394
16	283	8.57	47.82	14.95	0.6128
17	222	6.95	52.50	15.28	0.5574
18	296	8.57	57.78	12.24	0.6059
19	261	7.57	64.58	14.85	0.7260
20	267	8.43	62.62	14.68	0.7747
21	241	4.42	64.12	13.05	0.3700
22	211	8.28	43.15	15.18	0.5423
23	277	9.64	52.62	13.74	0.6970
24	293	8.82	54.40	15.66	0.7515
25	250	7.97	47.65	14.84	0.5635
26	289	8.78	51.69	14.49	0.6576
27	264	8.34	58.48	14.79	0.7214
28	227	8.73	58.82	13.65	0.7010
29	247	4.21	72.22	14.10	0.4286
30	280	7.15	55.69	15.08	0.6006
31	236	4.36	59.10	14.30	0.3684
32	298	3.76	51.99	14.21	0.2779
33	292	6.08	44.63	14.36	0.3897
34	233	6.94	55.69	14.04	0.5427
35	272	7.21	71.56	15.22	0.7852
36	256	8.61	56.79	14.63	0.7155

37	294	8.56	55.13	14.82	0.6994
38	232	3.69	52.57	15.98	0.3100
39	220	7.33	57.89	14.58	0.6187
40	287	7.51	44.92	15.45	0.5212
41	223	8.5	56.28	14.36	0.6868
42	279	7.96	44.72	13.73	0.4887
43	268	8.62	53.30	14.82	0.6810
44	269	3.69	63.96	12.24	0.2889
45	231	7.16	59.45	13.39	0.5699
46	285	7.13	54.23	15.19	0.5875
47	218	8.12	45.96	15.71	0.5863
48	208	7.16	50.26	14.19	0.5105
49	216	8.26	45.58	16.15	0.6079
50	235	7.2	56.97	14.36	0.5890
51	242	7.14	63.28	15.04	0.6797
52	215	8.02	47.16	15.35	0.5806
53	201	7.33	48.80	14.20	0.5080
54	295	8.36	49.69	15.74	0.6538
55	275	6.96	48.53	15.76	0.5324
56	228	4.34	50.71	15.07	0.3316
57	234	7.01	54.71	14.84	0.5692
58	249	4.54	58.70	15.64	0.4168
59	225	8.24	58.10	15.20	0.7276
60	273	7.33	63.99	17.03	0.7990
61	230	7.05	59.48	12.31	0.5161
62	239	4.05	66.78	14.12	0.3819
63	245	8.84	64.09	12.64	0.7160
64	258	7.15	63.66	14.17	0.6449
65	248	8.24	60.42	14.22	0.7078
66	204	7.35	58.24	12.88	0.5513
67	237	8.58	70.10	13.34	0.8022
68	209	7.35	57.39	10.87	0.4586
69	263	4.38	69.85	14.73	0.4507
70	224	4.28	61.64	13.19	0.3480
71	291	7.64	64.99	12.57	0.6242
72	254	8.51	53.97	14.43	0.6629
73	251	4.96	61.23	14.14	0.4295
74	290	7.25	51.12	13.24	0.4908
75	205	7.56	52.23	10.09	0.3984
76	300	6.61	50.89	11.87	0.3992
77	271	4.36	64.10	15.26	0.4264
78	253	4.82	63.50	15.10	0.4622
79	262	8.69	72.20	13.17	0.8264
80	282	4.39	54.93	13.80	0.3328
81	265	8.49	65.26	15.25	0.8448
82	270	8.75	66.44	14.95	0.8689
83	217	8.28	53.58	13.10	0.5813
84	238	7.29	64.69	12.13	0.5723
85	252	4.6	68.83	13.74	0.4352
86	266	8.95	69.90	15.31	0.9576

87	229	3.7	63.51	12.69	0.2982
88	274	8.47	51.86	13.96	0.6132
89	213	7.43	62.45	12.57	0.5833
90	214	5.25	58.25	14.51	0.4436
91	203	9.36	42.77	15.60	0.6243
92	212	6.71	41.63	14.17	0.3959
93	257	4.4	53.76	14.69	0.3476
94	299	8.94	48.11	15.69	0.6750
95	244	4.05	69.91	14.50	0.4107
96	219	7.34	45.80	14.37	0.4830
97	286	8.2	43.73	14.57	0.5223
98	221	6.82	54.57	15.61	0.5811
99	297	8.55	51.76	15.98	0.7071
100	206	7.15	49.30	14.32	0.5048

Date: 16.08.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Neemuch-I****Challan No. : 25/259**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	2423	8.95	56.83	13.65	0.6945
2	2463	8.78	61.59	13.54	0.7323
3	2500	7.56	56.11	13.26	0.5625
4	2432	8.55	54.32	14.25	0.6618
5	2427	8.92	58.03	13.53	0.7002
6	2495	4.44	54.76	15.56	0.3783
7	2499	4.52	55.12	15.57	0.3878
8	2440	4.48	53.88	12.62	0.3046
9	2489	4.64	59.47	13.69	0.3777
10	2458	9.21	61.18	13.06	0.7359
11	2484	9.17	56.03	14.12	0.7253
12	2492	4.37	55.83	15.44	0.3767
13	2498	7.3	55.53	13.83	0.5606
14	2454	7.63	57.81	14.46	0.6379
15	2414	8.77	56.81	12.81	0.6385
16	2462	7.5	51.15	14.37	0.5513
17	2408	7.7	60.92	14.69	0.6891
18	2437	9.09	48.64	14.64	0.6472
19	2491	4.02	50.32	14.94	0.3023
20	2449	7.51	56.15	13.50	0.5693
21	2481	8.52	55.20	13.89	0.6535
22	2480	4.56	60.60	12.64	0.3493
23	2421	4.56	58.52	13.82	0.3689
24	2494	4.34	56.78	15.64	0.3854
25	2443	8.87	51.89	15.44	0.7105
26	2473	8.93	60.44	13.80	0.7448
27	2417	8.97	51.71	13.25	0.6144
28	2401	9.23	56.21	13.72	0.7116
29	2488	4.73	60.55	14.65	0.4196
30	2483	4.57	61.30	15.84	0.4437
31	2486	9.56	61.39	12.69	0.7447
32	2441	8.74	63.75	13.99	0.7796
33	2478	9.02	59.84	15.09	0.8145
34	2403	7.59	60.41	14.57	0.6679
35	2487	9.06	62.82	13.56	0.7719
36	2467	4.52	55.35	13.84	0.3462
37	2470	9.34	61.17	13.70	0.7827
38	2429	4.72	60.36	14.51	0.4135
39	2438	3.41	60.86	15.38	0.3192
40	2472	8.97	59.89	13.86	0.7445
41	2434	8.86	56.39	12.34	0.6167
42	2461	4.98	50.23	14.23	0.3561

43	2422	8.75	55.33	12.60	0.6099
44	2430	9.01	52.56	12.69	0.6010
45	2457	7.57	59.32	14.14	0.6351
46	2466	9.12	60.27	13.34	0.7332
47	2464	9.37	52.82	16.04	0.7936
48	2476	7.64	58.01	14.62	0.6479
49	2407	4.79	56.20	13.75	0.3703
50	2442	8.72	54.57	14.09	0.6706
51	2433	4.15	48.53	14.20	0.2859
52	2455	9.17	58.65	13.49	0.7253
53	2451	7.53	52.40	13.00	0.5128
54	2409	9.16	63.91	12.53	0.7337
55	2456	4.49	55.46	12.08	0.3008
56	2475	8.65	59.88	14.95	0.7742
57	2411	8.05	50.32	13.12	0.5313
58	2482	4.69	59.83	13.87	0.3893
59	2425	7.22	48.57	13.65	0.4787
60	2497	4.46	56.71	14.37	0.3635
61	2436	7.47	59.42	15.85	0.7037
62	2448	7.29	54.94	13.58	0.5438
63	2447	8.68	48.85	15.03	0.6371
64	2412	8.58	37.50	15.44	0.4968
65	2496	7.06	46.43	15.94	0.5224
66	2418	9.14	51.52	13.86	0.6526
67	2465	4.4	54.50	15.78	0.3784
68	2468	4.59	60.81	13.86	0.3869
69	2415	4.44	54.07	14.19	0.3405
70	2450	8.49	47.62	14.80	0.5985
71	2406	7.59	62.30	13.80	0.6527
72	2402	7.52	59.82	14.41	0.6482
73	2444	7.73	60.48	13.26	0.6199
74	2416	8.42	54.08	14.66	0.6677
75	2477	7.83	65.76	13.21	0.6804
76	2471	7.49	63.10	14.03	0.6629
77	2460	4.51	54.32	15.21	0.3725
78	2490	4.38	59.45	14.89	0.3876
79	2426	8.84	54.64	14.68	0.7090
80	2439	8.85	60.21	13.92	0.7416
81	2493	4.4	52.80	16.67	0.3872
82	2410	7.79	63.94	13.79	0.6871
83	2405	7.51	59.13	12.62	0.5602
84	2459	9.04	59.68	14.02	0.7566
85	2413	8.67	55.10	13.58	0.6485
86	2404	4.72	64.78	14.33	0.4380
87	2420	4.39	58.09	13.20	0.3367
88	2435	4.36	48.22	13.60	0.2860
89	2446	8.62	56.89	13.92	0.6827

90	2453	7.59	55.72	14.63	0.6186
91	2469	4.65	54.09	14.11	0.3548
92	2445	4.67	58.28	13.07	0.3559
93	2424	8.98	54.23	14.00	0.6816
94	2474	9.1	58.39	14.80	0.7862
95	2479	4.55	60.28	14.13	0.3877
96	2431	8.85	54.30	13.22	0.6354
97	2419	9.18	47.21	14.40	0.6242
98	2428	7.18	58.31	14.05	0.5880
99	2452	4.48	57.79	15.92	0.4122
100	2485	8.83	61.90	12.96	0.7082

Name of Division : Neemuch-I

Challan No. : 32/389

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	3132	4.8	50.02	14.43	0.3466
2	3170	7.13	55.36	13.55	0.5348
3	3113	7.09	48.62	15.69	0.5410
4	3114	2.91	38.32	16.15	0.1801
5	3150	8.71	53.39	15.02	0.6985
6	3126	7.34	60.26	15.15	0.6701
7	3104	4.4	58.87	14.66	0.3797
8	3156	6.91	60.65	14.13	0.5922
9	3164	9.12	51.75	14.47	0.6831
10	3121	7.33	58.40	12.91	0.5527
11	3123	4.71	47.26	14.64	0.3259
12	3131	7.9	49.92	14.50	0.5720
13	3160	7.82	56.94	14.96	0.6663
14	3139	4.7	59.07	12.66	0.3516
15	3148	8.83	51.95	14.19	0.6508
16	3155	8.22	53.13	14.42	0.6297
17	3197	6.51	48.66	13.75	0.4355
18	3186	7.77	57.88	14.08	0.6333
19	3175	4.44	61.91	14.36	0.3947
20	3187	7.67	59.36	13.17	0.5998
21	3171	7.86	53.05	14.42	0.6013
22	3111	7.45	47.75	14.16	0.5036
23	3192	3.72	56.17	11.84	0.2474
24	3103	7.52	56.66	14.42	0.6144
25	3107	4.38	63.29	14.46	0.4008
26	3106	4.4	54.11	13.32	0.3172
27	3157	4.42	46.64	16.47	0.3395
28	3185	8.78	52.00	15.21	0.6945
29	3180	4.85	60.18	13.78	0.4021
30	3105	3.55	59.81	13.66	0.2900
31	3110	8.33	63.65	12.91	0.6847
32	3129	4.83	55.63	14.49	0.3893
33	3145	7.63	57.31	13.02	0.5692
34	3134	4.94	56.61	15.49	0.4332
35	3137	8.03	55.21	13.58	0.6022
36	3158	7.3	55.38	13.45	0.5439

37	3115	8.25	52.00	14.04	0.6023
38	3188	7.31	49.83	15.35	0.5592
39	3130	4.84	56.36	14.96	0.4080
40	3118	4.24	57.67	14.13	0.3456
41	3144	4.22	47.66	15.65	0.3148
42	3142	8.88	52.85	12.87	0.6038
43	3181	4.9	51.64	16.25	0.4111
44	3112	7.56	57.68	13.37	0.5829
45	3154	8.86	55.42	13.97	0.6858
46	3149	7.28	60.56	13.24	0.5839
47	3184	7.61	54.63	14.44	0.6004
48	3120	7.05	60.65	14.26	0.6098
49	3124	6.81	44.05	17.50	0.5251
50	3195	4.5	61.20	13.42	0.3694
51	3143	9.01	49.75	14.75	0.6613
52	3163	4.67	47.46	13.13	0.2909
53	3117	3.07	52.21	13.06	0.2094
54	3116	3.77	53.06	13.51	0.2703
55	3178	7.82	46.90	13.99	0.5130
56	3161	7.42	48.06	15.33	0.5469
57	3122	4.4	61.03	13.42	0.3604
58	3182	4.77	59.20	13.65	0.3854
59	3140	9.25	43.58	15.12	0.6096
60	3102	4.24	54.71	13.53	0.3138
61	3141	7.27	45.93	14.11	0.4711
62	3167	4.57	39.94	14.87	0.2715
63	3179	3.95	52.77	14.71	0.3065
64	3138	7.81	44.64	13.51	0.4709
65	3162	4.51	49.50	15.72	0.3509
66	3136	4.81	43.99	16.14	0.3415
67	3125	4.2	49.21	13.13	0.2713
68	3152	8.59	56.04	15.11	0.7276
69	3109	7.74	68.86	12.68	0.6757
70	3173	10.01	55.70	13.70	0.7638
71	3128	9.57	47.26	15.51	0.7015
72	3172	7.38	56.50	15.24	0.6354
73	3199	8.47	53.69	15.35	0.6979
74	3153	8.9	53.28	13.87	0.6577
75	3108	4.32	50.14	12.21	0.2644
76	3200	7.42	50.91	12.37	0.4675
77	3177	9.4	53.01	14.56	0.7257
78	3159	9.43	53.76	13.10	0.6639
79	3168	7.41	59.95	14.01	0.6224
80	3101	4.81	60.32	12.90	0.3742
81	3165	4.81	54.05	15.04	0.3911
82	3193	4.46	57.50	14.96	0.3836
83	3127	7.8	51.68	14.47	0.5834
84	3169	4.79	52.62	13.80	0.3478
85	3176	4.81	50.42	14.52	0.3521
86	3151	9.23	60.93	14.59	0.8205

87	3133	9.4	61.68	13.39	0.7764
88	3198	3.44	56.45	14.77	0.2869
89	3147	7.45	56.74	14.12	0.5967
90	3191	7.43	49.55	14.49	0.5335
91	3174	4.5	61.74	13.57	0.3771
92	3166	7.61	54.03	13.01	0.5350
93	3119	7.4	61.19	11.31	0.5121
94	3196	4.12	47.41	15.00	0.2929
95	3135	5.04	53.01	13.21	0.3528
96	3190	4.72	48.55	13.22	0.3030
97	3183	7.74	43.14	14.26	0.4760
98	3189	4.54	52.38	13.38	0.3183
99	3194	8.89	62.16	14.24	0.7868
100	3146	4.61	54.16	12.92	0.3227

Date: 10.08.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Neemuch-I****Challan No. : 36/405**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	3501	7.68	52.88	14.16	0.5752
2	3502	8.6	54.61	13.99	0.657
3	3503	7.54	55.9	13.02	0.5489
4	3504	7.69	55.41	13.52	0.576
5	3505	8.3	49.31	14.95	0.6117
6	3506	8.31	50.02	14.21	0.5908
7	3507	4.39	46.02	15.8	0.3192
8	3508	4.41	49.96	14.21	0.3131
9	3509	4.03	46.6	16.27	0.3055
10	3510	4.51	46.89	14.76	0.3121
11	3511	7.6	55.36	13.37	0.5624
12	3512	4.03	46.67	14.25	0.268
13	3513	8.97	58.22	14.81	0.7732
14	3514	4.45	50.73	13.36	0.3017
15	3515	4.74	56.12	12.74	0.3389
16	3516	4.51	65.62	13.94	0.4127
17	3517	4.46	60.21	13.67	0.3671
18	3518	5.02	45.92	13.18	0.3037
19	3519	4.37	46.62	15.02	0.3059
20	3520	4.69	50.47	13.89	0.3288
21	3521	4.61	55.06	14.67	0.3725
22	3522	7.42	55.01	14.34	0.5854
23	3523	4.45	50.3	16.64	0.3725
24	3524	4.5	58.79	13.39	0.3541
25	3525	7.58	54.55	14.78	0.6109
26	3526	4.45	58.85	14.31	0.3747
27	3527	4.47	50.47	15.28	0.3446
28	3528	4.3	48.54	15.7	0.3277
29	3529	8.74	49.96	14.21	0.6205
30	3530	4.67	55.96	16.1	0.4208
31	3531	7.69	55.49	15.59	0.6652
32	3532	4.51	54.78	15.01	0.3707
33	3533	8.96	58.93	15.36	0.8109
34	3534	4.42	53.21	15.99	0.3761
35	3535	4.44	54.55	14.24	0.345
36	3536	4.62	61.65	13.3	0.3788
37	3537	4.56	60.19	13.91	0.3817
38	3538	7.2	57.9	14.16	0.5904
39	3539	4.6	58.19	15.76	0.4218
40	3540	4.31	55.58	14.81	0.3547
41	3541	4.57	54.16	14.42	0.3569
42	3542	7.49	58.58	15.02	0.6591

43	3543	4.45	55.97	14.65	0.3649
44	3544	4.58	59.41	14.54	0.3957
45	3545	4.43	53.3	14.95	0.3531
46	3546	3.66	52.36	14.69	0.2815
47	3547	4.56	49.51	16.02	0.3616
48	3548	4.47	60.27	14.29	0.3849
49	3549	4.52	58.32	13.01	0.3431
50	3550	8.79	56.31	14.28	0.7067
51	3551	4.69	61.83	13.73	0.3982
52	3552	7.41	50.08	13.54	0.5024
53	3553	4.23	57.38	13.18	0.3198
54	3554	7.2	57	13.81	0.5666
55	3555	7.33	56.05	12.31	0.5058
56	3556	8.72	59.56	12.32	0.64
57	3557	4.66	57.09	14.75	0.3924
58	3558	4.24	64.73	13.84	0.3799
59	3559	8.69	62.41	13.11	0.7108
60	3560	7.16	45.93	14.72	0.484
61	3561	3.47	47.6	13.7	0.2262
62	3562	4.62	50.44	13.42	0.3128
63	3563	7.21	52.72	13.68	0.5198
64	3564	7.34	46.85	13.64	0.469
65	3565	4.43	47.56	17.18	0.3619
66	3566	4.4	61.58	12.24	0.3318
67	3567	4.23	55.65	12.83	0.302
68	3568	4.17	60.13	14.57	0.3653
69	3569	7.15	56.27	14.31	0.5756
70	3570	5.15	61.21	13.74	0.4331
71	3571	4.61	61.9	8.79	0.2508
72	3572	4.51	53.39	12.19	0.2936
73	3573	7.55	61.76	12.35	0.5761
74	3574	7.33	54.71	13.38	0.5366
75	3575	7.32	62.45	13.69	0.6259
76	3576	4.43	56.22	12.15	0.3026
77	3577	4.56	58.4	14.35	0.3821
78	3578	7.44	58.13	15	0.6488
79	3579	4.37	71.17	12.25	0.3811
80	3580	4.29	64.77	13.02	0.3616
81	3581	7.54	65.28	13.34	0.6567
82	3582	4.71	70.56	12.46	0.414
83	3583	4.4	58.25	13.24	0.3392
84	3584	7.4	58.49	13.8	0.5972
85	3585	7.44	64.42	12.9	0.6183
86	3586	4.66	66.06	13.82	0.4255
87	3587	4.59	62.75	12.76	0.3677
88	3588	4.47	60.45	12.82	0.3464
89	3589	4.41	59.4	11.62	0.3043

90	3590	4.32	59.89	12.66	0.3275
91	3591	4.43	66.78	14.87	0.4399
92	3592	7.62	63.63	14.38	0.6972
93	3593	8.91	54.82	14.56	0.711
94	3594	7.3	47.63	15.18	0.5278
95	3595	4.39	61.32	16.05	0.432
96	3596	5.2	43.64	14.76	0.3349
97	3597	4.7	51.28	14.65	0.353
98	3598	5.15	48.5	13.98	0.3492
99	3599	4.81	53.68	12.39	0.3199
100	3600	9.53	58.96	13.76	0.7729

Date: 05.08.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Neemuch-I****Challan No. : 26/260**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	2526	4.7	57.57	14.75	0.3990
2	2555	4.32	60.66	12.89	0.3378
3	2538	4.39	59.59	13.44	0.3516
4	2504	4.57	64.22	14.51	0.4259
5	2521	4.43	67.78	13.34	0.4005
6	2582	7.54	57.24	16.28	0.7027
7	2578	8.8	52.89	15.62	0.7269
8	2513	4.48	57.65	14.15	0.3656
9	2503	4.36	54.66	14.29	0.3405
10	2557	7.46	66.50	12.57	0.6237
11	2598	4.36	62.50	14.43	0.3933
12	2551	4.63	57.28	14.42	0.3824
13	2552	9	53.29	13.77	0.6606
14	2527	4.61	64.73	14.48	0.4320
15	2530	7.78	67.26	13.96	0.7305
16	2593	4.58	68.53	12.75	0.4003
17	2542	8.79	56.82	13.46	0.6724
18	2558	4.42	57.13	12.59	0.3178
19	2565	4.23	64.80	13.94	0.3820
20	2540	7.39	51.94	14.07	0.5402
21	2594	9.08	57.08	14.45	0.7491
22	2509	4.47	53.77	15.79	0.3795
23	2600	4.29	58.95	16.25	0.4110
24	2563	4.23	59.15	14.76	0.3693
25	2508	4.54	57.25	14.32	0.3723
26	2523	7.45	61.58	14.60	0.6698
27	2525	4.51	60.57	15.50	0.4235
28	2567	7.37	66.32	14.64	0.7156
29	2519	7.61	63.74	13.62	0.6605
30	2587	7.31	56.21	13.49	0.5541
31	2574	9.05	58.04	15.70	0.8245
32	2550	4.3	53.21	14.72	0.3367
33	2591	8.84	58.38	14.82	0.7647
34	2545	4.5	51.29	16.26	0.3753
35	2573	4.77	57.97	13.85	0.3830
36	2506	7.44	53.79	14.93	0.5974
37	2510	4.47	50.42	13.45	0.3031
38	2576	8.89	55.95	13.69	0.6810
39	2584	4.47	59.32	12.81	0.3397
40	2577	7.31	57.48	13.60	0.5716
41	2559	4.45	53.37	14.18	0.3369
42	2580	8.97	53.47	13.58	0.6512

43	2507	4.42	54.30	13.57	0.3258
44	2590	4.5	54.06	14.04	0.3415
45	2595	4.24	61.31	14.08	0.3659
46	2560	8.86	55.70	12.84	0.6335
47	2592	4.36	65.57	12.72	0.3636
48	2518	8.86	56.12	12.74	0.6335
49	2501	4.47	58.33	14.14	0.3688
50	2522	4.51	61.97	14.25	0.3982
51	2537	7.45	60.61	13.55	0.6116
52	2544	7.44	58.59	13.43	0.5855
53	2543	8.96	59.56	13.21	0.7052
54	2546	7.49	57.14	13.28	0.5685
55	2599	7.42	60.27	15.15	0.6774
56	2553	7.71	57.00	13.93	0.6122
57	2536	8.7	48.77	14.21	0.6029
58	2561	4.48	50.90	15.19	0.3463
59	2564	4.46	63.28	12.63	0.3564
60	2588	8.57	52.38	15.44	0.6933
61	2515	4.37	59.83	13.54	0.3540
62	2511	4.54	54.98	14.21	0.3546
63	2596	4.49	58.45	16.00	0.4198
64	2572	8.91	47.49	15.60	0.6602
65	2541	4.61	53.94	14.15	0.3517
66	2505	4.23	56.23	15.21	0.3617
67	2532	4.5	51.93	14.81	0.3461
68	2569	7.55	40.00	16.42	0.4960
69	2548	7.13	56.09	15.08	0.6032
70	2517	9.03	54.40	14.14	0.6944
71	2514	7.78	58.92	15.48	0.7095
72	2516	7.9	58.17	14.30	0.6573
73	2597	9.02	58.37	15.40	0.8109
74	2575	9.16	59.01	12.96	0.7007
75	2520	4.68	59.84	14.09	0.3945
76	2547	7.55	53.23	13.15	0.5285
77	2583	4.39	62.80	14.22	0.3920
78	2581	4.5	57.43	14.45	0.3735
79	2533	7.3	55.19	13.92	0.5606
80	2512	4.49	67.68	13.36	0.4059
81	2568	3.98	63.49	11.83	0.2989
82	2566	8.88	61.06	12.18	0.6607
83	2549	4.65	51.42	11.65	0.2785
84	2535	7.61	55.44	12.84	0.5418
85	2585	3.69	56.13	15.11	0.3129
86	2554	8.98	52.02	15.30	0.7148
87	2531	4.31	50.46	12.33	0.2681
88	2562	4.28	49.48	15.46	0.3274
89	2528	4.63	64.26	14.94	0.4445

90	2524	4.48	61.63	15.19	0.4193
91	2529	7.73	66.57	14.84	0.7637
92	2571	4.32	48.71	15.50	0.3262
93	2539	8.98	55.06	12.90	0.6376
94	2589	8.82	55.79	14.38	0.7074
95	2579	7.52	55.81	15.32	0.6430
96	2556	4.58	62.75	15.27	0.4388
97	2534	8.49	49.86	15.36	0.6503
98	2570	9.06	48.79	13.28	0.5871
99	2502	4.64	55.51	15.38	0.3963
100	2586	4.71	62.04	11.38	0.3325

Date: 04.08.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Neemuch-I****Challan No. : 31/388**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	3086	2.81	47.98	15.46	0.2085
2	3015	4.39	67.06	13.21	0.3890
3	3029	4.45	61.25	15.33	0.4179
4	3051	8.07	52.42	14.15	0.5988
5	3037	6.48	52.55	13.87	0.4724
6	3031	4.5	64.65	13.63	0.3965
7	3098	4.18	60.04	12.03	0.3018
8	3025	8.96	64.92	13.92	0.8100
9	3032	7.59	63.10	13.14	0.6292
10	3063	4.13	55.26	12.85	0.2932
11	3005	6.99	60.39	13.98	0.5900
12	3091	6.76	57.19	12.82	0.4955
13	3074	7.65	47.61	14.47	0.5271
14	3096	8.44	59.44	13.26	0.6651
15	3082	6.99	52.36	11.96	0.4376
16	3011	7.74	65.77	13.74	0.6997
17	3047	6.82	60.38	12.02	0.4951
18	3084	6.64	52.51	10.86	0.3785
19	3095	6.98	44.26	7.70	0.2380
20	3056	4.35	64.40	12.45	0.3489
21	3083	8.17	45.53	12.19	0.4534
22	3002	7.45	47.07	16.59	0.5818
23	3052	6.86	59.36	12.42	0.5056
24	3042	3.76	49.90	13.67	0.2564
25	3030	7.08	61.62	14.90	0.6499
26	3036	3.3	54.18	14.80	0.2647
27	3061	4.1	53.81	12.60	0.2780
28	3001	7.26	58.08	13.48	0.5685
29	3054	4.14	51.27	13.98	0.2968
30	3053	4.2	61.33	12.23	0.3150
31	3041	4.12	54.33	13.53	0.3028
32	3035	8.87	61.86	14.39	0.7894
33	3020	8.87	65.21	14.15	0.8187
34	3004	4.48	56.22	13.91	0.3503
35	3097	6.41	57.29	12.48	0.4583
36	3018	8.71	55.84	16.22	0.7891
37	3094	7.23	58.98	13.29	0.5668
38	3081	8.26	50.99	13.04	0.5493
39	3006	7.68	56.20	14.16	0.6113
40	3022	4.44	58.27	14.83	0.3836
41	3024	9.01	57.51	13.18	0.6830
42	3068	4.39	43.82	12.94	0.2489

43	3016	4.27	48.33	15.62	0.3224
44	3008	8.65	61.56	14.65	0.7802
45	3007	7.58	51.11	14.71	0.5700
46	3072	7.1	50.05	10.59	0.3763
47	3073	7.03	43.32	13.50	0.4113
48	3028	4.29	57.46	14.34	0.3535
49	3085	7.03	44.01	13.11	0.4056
50	3045	7.23	46.93	11.38	0.3861
51	3059	8.86	57.67	12.02	0.6140
52	3099	9.06	34.98	14.12	0.4476
53	3012	7.45	62.64	13.86	0.6467
54	3033	7.32	59.90	15.61	0.6844
55	3040	2.19	48.58	13.71	0.1459
56	3087	3.75	49.18	14.19	0.2618
57	3010	8.8	59.95	13.63	0.7190
58	3048	4.41	56.34	12.85	0.3193
59	3093	7.68	55.84	12.98	0.5568
60	3046	4.19	59.05	13.29	0.3289
61	3071	7.4	46.09	14.12	0.4817
62	3079	6.9	56.34	12.92	0.5023
63	3055	6.96	56.42	13.75	0.5401
64	3069	4.2	45.87	15.41	0.2969
65	3023	7.5	63.46	13.69	0.6518
66	3026	7.59	61.79	13.27	0.6224
67	3027	9.11	64.19	14.18	0.8290
68	3003	7.54	60.65	13.77	0.6296
69	3100	7.72	53.86	13.42	0.5582
70	3019	8.87	66.04	14.13	0.8276
71	3065	6.7	66.11	12.99	0.5755
72	3090	4.2	63.52	12.56	0.3352
73	3014	7.42	53.61	15.61	0.6211
74	3039	6.88	51.22	12.61	0.4444
75	3064	3.72	55.05	13.86	0.2838
76	3060	7.15	55.08	12.58	0.4955
77	3092	7.35	50.68	12.59	0.4689
78	3080	3.91	53.75	12.35	0.2596
79	3077	4.21	42.81	13.48	0.2429
80	3070	8.47	44.60	11.50	0.4345
81	3013	4.31	61.80	11.10	0.2957
82	3058	6.66	61.93	11.03	0.4549
83	3043	4.26	59.28	10.66	0.2692
84	3076	4.55	50.12	12.69	0.2894
85	3050	4.36	66.05	10.69	0.3078
86	3089	8.26	51.04	12.70	0.5352
87	3062	4.22	53.31	12.40	0.2789
88	3057	4.04	53.11	12.31	0.2642
89	3078	6.97	48.34	13.16	0.4433

90	3075	4.25	54.48	13.58	0.3145
91	3021	7.49	64.82	14.15	0.6868
92	3009	4.45	64.39	14.96	0.4285
93	3044	7.26	53.39	12.51	0.4850
94	3088	7.82	47.68	12.77	0.4762
95	3038	6.9	47.31	13.42	0.4382
96	3066	3.89	50.40	14.66	0.2875
97	3049	6.83	58.21	15.56	0.6188
98	3034	4.65	57.88	15.07	0.4055
99	3017	7.39	60.86	15.17	0.6821
100	3067	3.51	34.62	17.79	0.2162

Name of Division : Neemuch-I

Challan No. : 33/390

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	3209	6.83	64.82	11.62	0.5143
2	3251	7.26	64.31	13.29	0.6207
3	3250	4.4	59.15	12.73	0.3313
4	3248	4.41	66.61	14.53	0.4269
5	3282	4.23	60.98	13.43	0.3464
6	3210	8.35	55.77	14.72	0.6855
7	3235	4.49	57.44	12.31	0.3174
8	3254	7.24	55.85	12.91	0.5220
9	3220	7.02	64.88	12.47	0.5679
10	3204	4.01	60.84	13.94	0.3400
11	3259	4.29	62.57	12.05	0.3235
12	3201	8.76	55.43	15.15	0.7358
13	3289	4.39	55.57	12.51	0.3051
14	3275	4.34	48.45	12.36	0.2600
15	3270	7.58	52.96	13.88	0.5571
16	3217	3.65	63.00	10.97	0.2522
17	3273	4.22	60.58	13.06	0.3338
18	3252	7.24	66.21	12.91	0.6190
19	3227	8.64	62.49	14.37	0.7759
20	3206	4.51	72.41	11.30	0.3689
21	3265	6.96	59.21	14.27	0.5881
22	3228	4.26	67.26	13.51	0.3872
23	3233	7.42	52.95	14.15	0.5558
24	3280	3.54	52.60	15.55	0.2896
25	3225	7.44	64.10	13.78	0.6570
26	3231	1.12	68.12	14.56	0.1111
27	3213	4.26	58.41	13.78	0.3429
28	3216	8.35	61.56	13.73	0.7056
29	3258	4.56	62.94	13.76	0.3949
30	3285	4.33	54.97	13.79	0.3282
31	3234	7.25	58.46	14.21	0.6025
32	3274	4.3	57.30	12.86	0.3169
33	3266	7.56	51.66	14.40	0.5625
34	3294	7.25	64.50	14.00	0.6547
35	3240	7.91	60.58	13.70	0.6565
36	3297	4.35	57.59	13.49	0.3380

37	3218	4.25	54.24	14.29	0.3294
38	3249	8.69	57.72	13.88	0.6961
39	3276	7.31	58.26	13.89	0.5914
40	3244	7.07	56.21	14.02	0.5571
41	3288	6.95	67.21	12.47	0.5824
42	3267	7.42	52.85	13.15	0.5157
43	3271	4.71	53.10	14.26	0.3565
44	3272	6.91	54.86	13.96	0.5293
45	3299	4.17	65.71	13.01	0.3565
46	3229	4.2	66.03	12.24	0.3394
47	3245	7.37	54.79	13.14	0.5306
48	3298	7.13	59.99	12.19	0.5212
49	3243	7.13	57.69	12.27	0.5048
50	3284	4.32	61.98	13.52	0.3620
51	3292	7.16	59.59	12.10	0.5162
52	3221	7.25	63.05	13.05	0.5967
53	3277	6.98	58.30	14.37	0.5849
54	3236	7.63	57.71	12.65	0.5570
55	3256	8.57	62.85	12.86	0.6925
56	3242	4.18	52.77	13.51	0.2980
57	3260	4.33	68.31	12.85	0.3802
58	3223	4.26	57.20	13.02	0.3174
59	3269	4.16	48.11	13.09	0.2621
60	3207	4.34	59.35	13.92	0.3585
61	3212	4.38	63.93	14.11	0.3951
62	3224	4.35	57.43	13.08	0.3267
63	3263	7.22	65.49	13.97	0.6606
64	3296	4.13	63.08	13.82	0.3601
65	3253	4.33	65.52	12.71	0.3607
66	3290	6.97	57.16	14.70	0.5855
67	3230	7.17	67.24	12.55	0.6051
68	3226	4.7	64.49	13.60	0.4122
69	3262	8.27	66.81	13.25	0.7319
70	3208	4.25	56.52	15.43	0.3706
71	3283	4.15	50.80	15.22	0.3208
72	3203	4.43	55.22	14.40	0.3522
73	3300	7.49	54.82	14.74	0.6052
74	3279	6.98	59.36	13.04	0.5403
75	3281	4.37	57.76	14.58	0.3680
76	3215	8.68	57.38	13.58	0.6762
77	3232	9.21	46.23	12.20	0.5194
78	3295	4.31	61.20	12.94	0.3414
79	3246	4.48	55.03	15.46	0.3812
80	3238	7.59	55.38	13.45	0.5655
81	3239	6.74	49.36	14.22	0.4731
82	3291	7.23	60.31	13.05	0.5690
83	3222	8.45	66.25	12.59	0.7047
84	3247	4.24	58.21	15.19	0.3748
85	3268	6.8	47.69	15.01	0.4869
86	3237	9.08	59.02	13.91	0.7455

87	3255	7.13	64.73	14.61	0.6745
88	3214	7.26	56.95	14.15	0.5852
89	3202	8.79	56.98	14.65	0.7340
90	3205	4.15	51.97	14.53	0.3133
91	3287	7.47	58.95	13.54	0.5961
92	3261	7.19	67.33	14.23	0.6888
93	3257	4.3	49.88	14.39	0.3087
94	3219	6.97	60.71	13.62	0.5764
95	3264	7.06	55.57	14.67	0.5754
96	3278	4.66	44.81	16.56	0.3458
97	3241	6.78	55.19	15.47	0.5790
98	3211	4.34	54.47	15.51	0.3667
99	3293	7.15	59.43	15.51	0.6592
100	3286	4.3	58.71	14.29	0.3608

Date: 30.07.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Neemuch-I****Challan No. : 18/248**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	1744	7.11	60.09	12.58	0.5375
2	1704	7.36	68.83	14.46	0.7323
3	1779	6.83	49.53	13.91	0.4706
4	1710	4.41	57.11	13.26	0.3338
5	1752	4.51	61.16	15.60	0.4303
6	1742	9.06	55.63	14.96	0.7538
7	1714	7.4	70.25	12.87	0.6690
8	1771	8.75	59.60	13.79	0.7192
9	1794	7.13	56.04	13.92	0.5561
10	1733	4.91	56.75	13.97	0.3894
11	1746	8.35	45.86	16.31	0.6246
12	1735	7.86	57.39	13.75	0.6202
13	1789	7.2	59.11	14.63	0.6228
14	1790	6.93	56.75	14.64	0.5759
15	1781	8.29	50.38	14.35	0.5994
16	1762	6.47	58.79	13.91	0.5292
17	1743	7.28	58.99	12.70	0.5453
18	1709	6.9	59.47	13.75	0.5644
19	1716	7.61	68.79	12.98	0.6796
20	1759	7.03	49.97	15.39	0.5406
21	1758	7.23	63.24	13.63	0.6232
22	1800	8.07	45.46	16.41	0.6020
23	1721	8.24	50.45	14.19	0.5900
24	1711	8.57	57.41	15.00	0.7379
25	1765	3.78	57.91	11.40	0.2495
26	1798	4.23	66.33	12.50	0.3507
27	1748	4.51	56.88	14.73	0.3779
28	1706	8.53	63.40	13.99	0.7566
29	1701	7.54	61.51	13.85	0.6424
30	1755	6.81	50.61	15.41	0.5312
31	1751	4.43	56.25	14.06	0.3504
32	1764	4.3	51.17	13.45	0.2958
33	1736	7.7	52.35	14.84	0.5983
34	1707	7.29	60.92	14.49	0.6437
35	1719	4.13	70.06	5.18	0.1499
36	1726	7.89	57.20	14.58	0.6580
37	1797	8.07	62.75	11.75	0.5948
38	1745	8.6	46.91	14.94	0.6029
39	1753	4.43	58.61	13.50	0.3504
40	1776	3.56	65.72	12.84	0.3005
41	1732	7.81	60.53	13.75	0.6498
42	1705	7.54	60.54	13.54	0.6183

43	1737	8.2	63.83	13.93	0.7290
44	1731	7.67	60.85	13.94	0.6504
45	1778	6.86	49.15	13.73	0.4631
46	1728	7.98	53.72	12.94	0.5546
47	1780	4.28	52.63	14.27	0.3214
48	1768	4.51	57.22	14.05	0.3626
49	1788	8.34	56.46	13.37	0.6297
50	1741	8.79	56.11	14.15	0.6979
51	1720	9.61	46.35	14.09	0.6275
52	1792	8.05	55.43	15.28	0.6818
53	1713	7.44	55.25	15.24	0.6264
54	1729	7.24	54.55	14.79	0.5843
55	1775	3.63	56.27	13.88	0.2835
56	1763	8.07	55.43	13.31	0.5956
57	1717	4.57	67.29	13.03	0.4008
58	1796	4.23	49.65	13.23	0.2779
59	1770	7.22	60.82	14.29	0.6274
60	1727	7.67	56.17	15.28	0.6581
61	1785	7.11	51.71	14.25	0.5240
62	1708	7.34	57.78	14.16	0.6004
63	1725	8.21	58.97	11.73	0.5681
64	1715	7.31	69.86	14.97	0.7646
65	1718	3.77	63.01	13.17	0.3129
66	1793	4.16	50.59	12.95	0.2725
67	1791	7.11	56.92	14.69	0.5944
68	1750	8.88	53.27	15.17	0.7175
69	1738	8.05	51.48	15.11	0.6263
70	1787	8.41	59.23	12.65	0.6299
71	1767	7.65	63.43	13.84	0.6717
72	1766	3.6	51.69	16.72	0.3110
73	1703	7.57	66.22	13.83	0.6934
74	1777	4.06	60.04	14.92	0.3638
75	1702	8.46	60.63	14.33	0.7352
76	1786	8.12	56.85	14.86	0.6861
77	1774	7.31	52.88	15.15	0.5855
78	1795	4.27	60.27	13.97	0.3595
79	1773	4.12	58.59	14.97	0.3613
80	1754	4.32	58.20	13.71	0.3447
81	1740	4.36	46.24	14.58	0.2939
82	1724	7.69	62.17	13.93	0.6660
83	1761	6.99	62.92	13.59	0.5976
84	1757	4.17	59.27	13.38	0.3307
85	1722	7.88	51.28	14.39	0.5815
86	1730	7.83	55.42	14.18	0.6154
87	1739	8.08	60.89	14.45	0.7110
88	1712	7.01	47.25	14.31	0.4739
89	1784	3.95	54.45	10.63	0.2287

90	1799	4.15	55.37	13.78	0.3166
91	1734	7.77	55.55	13.52	0.5835
92	1760	7.38	62.37	11.67	0.5373
93	1756	8.07	55.16	15.26	0.6795
94	1783	6.6	55.82	13.47	0.4963
95	1747	4.63	52.21	12.41	0.3000
96	1769	4.52	62.04	14.44	0.4050
97	1772	8.8	59.71	15.68	0.8237
98	1749	6.81	59.53	14.55	0.5897
99	1782	8.4	46.54	15.90	0.6216
100	1723	5.01	50.85	15.65	0.3988

Date: 29.07.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Neemuch-I****Challan No. : 20/250**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	1924	7.26	68.09	13.34	0.6592
2	1999	7.33	62.37	12.49	0.5710
3	1906	8.24	63.22	12.64	0.6584
4	1987	4.38	59.73	12.79	0.3346
5	1957	7.42	65.66	12.50	0.6092
6	1913	7.22	64.27	13.26	0.6151
7	1917	6.93	64.94	12.27	0.5523
8	1934	8.6	64.99	14.03	0.7843
9	1976	4.51	72.73	13.89	0.4555
10	1930	9.06	64.93	14.23	0.8371
11	1904	7.15	65.62	13.68	0.6421
12	1998	7.26	63.85	13.14	0.6091
13	1984	7.42	68.14	12.14	0.6136
14	1995	8.57	62.22	15.94	0.8501
15	1944	7.4	61.09	13.86	0.6268
16	1929	7.17	65.89	13.52	0.6388
17	1975	4.38	71.86	12.41	0.3907
18	1963	4.51	65.20	12.98	0.3815
19	1951	7.32	63.81	13.78	0.6434
20	1991	7.14	59.81	14.23	0.6076
21	1979	6.82	61.22	12.37	0.5163
22	1952	4.35	62.05	13.78	0.3719
23	1922	7.23	52.54	13.36	0.5075
24	1977	6.94	64.64	12.87	0.5774
25	1967	4.29	64.01	13.54	0.3719
26	1965	7.28	61.58	14.73	0.6603
27	1902	7.28	61.49	13.77	0.6166
28	1916	4.34	56.86	14.21	0.3507
29	1953	8.02	61.76	14.65	0.7258
30	1939	4.44	66.36	13.77	0.4058
31	1955	7.37	58.41	15.39	0.6626
32	1926	8.46	68.32	15.57	0.9001
33	1933	4.55	69.66	13.32	0.4222
34	1988	4.52	54.71	14.60	0.3611
35	1971	7.83	68.49	14.62	0.7838
36	1940	9.1	62.47	14.58	0.8290
37	1942	4.24	57.23	13.11	0.3180
38	1911	8.78	62.94	13.52	0.7472
39	1974	4.33	68.49	14.08	0.4174
40	1993	7.5	56.30	13.64	0.5760
41	1943	8.55	50.81	14.62	0.6353
42	1982	7.31	68.79	13.14	0.6608

43	1997	8.66	60.75	16.08	0.8461
44	1964	7.46	61.11	14.20	0.6475
45	1908	7.36	49.55	14.81	0.5402
46	1915	7.37	64.88	13.21	0.6316
47	2000	4.45	64.88	13.90	0.4014
48	1905	9.19	65.49	13.33	0.8023
49	1986	4.57	60.17	13.79	0.3793
50	1961	7.52	65.85	13.20	0.6535
51	1958	7.06	64.98	14.37	0.6594
52	1932	4.17	67.11	14.47	0.4049
53	1990	7.27	54.50	13.82	0.5474
54	1920	8.07	61.30	12.97	0.6416
55	1966	8.14	62.16	13.11	0.6634
56	1956	4.54	62.63	12.34	0.3509
57	1996	8.6	65.65	15.17	0.8566
58	1948	8.58	60.41	13.11	0.6795
59	1901	7.24	59.91	13.14	0.5698
60	1992	4.15	57.06	13.65	0.3233
61	1949	7.5	61.84	12.99	0.6022
62	1985	7.17	52.18	13.26	0.4962
63	1989	7.26	58.17	13.80	0.5830
64	1980	4.54	59.01	14.79	0.3963
65	1912	7.5	58.86	14.51	0.6405
66	1972	9.09	65.27	14.25	0.8454
67	1960	7.3	64.54	13.42	0.6322
68	1937	7.03	60.80	14.93	0.6383
69	1931	7.99	63.46	14.69	0.7447
70	1935	4.45	67.90	13.96	0.4219
71	1954	4.36	63.47	12.76	0.3532
72	1921	7.4	62.23	13.71	0.6312
73	1928	8.94	67.45	15.05	0.9074
74	1903	7.14	63.57	13.15	0.5969
75	1936	7.11	64.92	13.85	0.6392
76	1941	8.68	66.55	13.22	0.7638
77	1918	7.39	65.56	13.21	0.6400
78	1945	4.69	60.54	12.67	0.3597
79	1947	7.41	57.02	13.35	0.5639
80	1959	4.37	52.64	15.63	0.3597
81	1925	8.5	70.27	14.23	0.8500
82	1946	7.5	59.05	14.46	0.6405
83	1919	8.06	60.31	13.78	0.6698
84	1910	8.71	58.20	14.59	0.7395
85	1983	6.93	66.23	15.31	0.7027
86	1962	8.75	63.42	14.87	0.8251
87	1938	4.5	67.01	14.04	0.4235
88	1970	4.38	57.35	13.11	0.3294
89	1950	8.69	61.76	12.97	0.6961

90	1981	7.33	63.27	12.91	0.5989
91	1923	8.96	64.08	13.06	0.7500
92	1927	4.5	60.98	12.91	0.3541
93	1973	8.46	67.99	13.37	0.7690
94	1968	8.7	58.48	14.00	0.7125
95	1994	8.83	63.92	14.16	0.7991
96	1907	7.19	66.07	13.76	0.6536
97	1978	7.08	60.22	14.96	0.6379
98	1969	8.78	63.16	14.30	0.7928
99	1909	7.1	65.32	15.09	0.7001
100	1914	8.64	60.98	13.61	0.7171

Date: 27.07.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Neemuch-I****Challan No. : 30/347**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	2941	4.51	55.47	14.28	0.3572
2	2961	7.81	59.45	13.42	0.6232
3	2922	4.31	67.18	12.71	0.3681
4	2912	7.23	65.36	14.17	0.6695
5	2937	4.27	55.42	15.32	0.3625
6	2914	4.59	61.57	14.54	0.4108
7	2972	7.53	58.06	14.52	0.6348
8	2903	7.39	63.40	13.74	0.6437
9	2918	8.65	64.61	14.29	0.7984
10	2949	8.99	60.79	13.74	0.7507
11	2962	4.34	62.02	15.01	0.4041
12	2963	4.32	50.01	15.16	0.3275
13	2975	7.21	57.12	13.80	0.5681
14	2986	4.21	62.76	15.42	0.4075
15	2934	7.46	70.36	13.25	0.6953
16	2989	4.34	58.24	14.42	0.3646
17	2905	4.59	57.27	14.06	0.3695
18	2951	7.59	57.59	15.45	0.6755
19	2978	4.46	67.36	13.20	0.3965
20	2960	4.27	53.64	14.34	0.3284
21	2976	8.78	57.02	13.31	0.6664
22	2982	8.55	60.62	12.42	0.6438
23	2930	8.7	64.51	14.39	0.8074
24	2955	8.98	58.83	14.09	0.7444
25	2944	8.73	51.38	14.85	0.6661
26	2925	4.23	61.45	12.58	0.3270
27	2916	7.55	66.53	13.63	0.6848
28	2946	8.72	51.92	13.42	0.6078
29	2984	8.42	58.50	13.85	0.6820
30	2957	9.01	55.54	15.16	0.7586
31	2965	8.61	53.41	15.73	0.7232
32	2915	4.62	64.86	14.11	0.4227
33	2940	4.63	53.36	14.67	0.3625
34	2906	7.32	62.74	14.14	0.6493
35	2945	7.37	53.81	12.04	0.4776
36	2909	8.89	63.04	13.37	0.7494
37	3000	7.13	58.98	14.29	0.6011
38	2901	3.67	60.55	14.86	0.3303
39	2948	4.38	52.14	16.15	0.3688
40	2935	4.56	68.20	11.80	0.3671
41	2993	8.83	59.94	13.18	0.6976
42	2973	9.04	51.35	13.94	0.6473

43	2985	7.22	61.14	14.80	0.6534
44	2998	4.31	58.83	14.82	0.3758
45	2968	7.27	58.98	14.85	0.6369
46	2911	4.26	63.60	11.70	0.3169
47	2970	4.45	63.37	13.56	0.3823
48	2969	4.28	65.10	14.65	0.4083
49	2931	4.34	67.32	13.53	0.3954
50	2977	7.29	55.83	14.22	0.5788
51	2908	3.74	58.31	14.42	0.3145
52	2966	8.65	58.21	13.98	0.7041
53	2950	8.71	54.11	14.34	0.6759
54	2923	4.13	63.35	14.71	0.3849
55	2933	8.57	68.68	14.09	0.8296
56	2967	7.51	54.80	14.49	0.5963
57	2994	7.38	59.29	15.31	0.6701
58	2910	4.37	59.09	14.44	0.3728
59	2920	4.32	68.76	14.88	0.4419
60	2996	7.4	55.30	15.42	0.6312
61	2917	7.41	61.87	12.87	0.5898
62	2954	4.34	43.03	18.43	0.3442
63	2991	7.88	62.91	15.26	0.7565
64	2980	7.46	50.44	15.70	0.5908
65	2992	4.51	58.88	14.10	0.3743
66	2902	6.96	57.62	15.60	0.6257
67	2932	4.5	61.95	13.12	0.3658
68	2981	9.09	49.26	17.42	0.7799
69	2947	8.65	47.90	17.49	0.7249
70	2927	4.52	63.02	12.66	0.3607
71	2921	4.39	58.76	14.64	0.3775
72	2987	4.59	62.75	14.47	0.4168
73	2983	4.18	57.57	14.40	0.3465
74	2926	4.34	59.43	14.24	0.3672
75	2988	8.98	50.35	15.53	0.7022
76	2997	7.34	55.57	14.45	0.5894
77	2964	4.54	63.60	14.61	0.4218
78	2953	7.48	51.26	14.46	0.5543
79	2936	3.76	69.30	13.38	0.3486
80	2924	7.33	64.80	12.92	0.6135
81	2904	4.16	57.49	13.93	0.3332
82	2974	4.64	57.14	15.38	0.4079
83	2942	7.22	57.26	10.25	0.4238
84	2907	7.25	65.35	13.88	0.6576
85	2995	7.29	60.47	13.56	0.5978
86	2913	9.02	69.42	12.92	0.8091
87	2939	4.36	61.01	13.60	0.3619
88	2971	7.54	55.75	16.25	0.6831
89	2919	8.49	62.60	13.39	0.7115

90	2938	4.34	49.10	16.19	0.3450
91	2929	8.81	68.80	13.79	0.8361
92	2956	4.44	47.07	15.42	0.3223
93	2958	4.36	52.33	14.14	0.3226
94	2952	7.59	54.03	14.92	0.6118
95	2928	4.19	60.92	13.12	0.3348
96	2979	7.64	60.31	12.58	0.5799
97	2959	4.62	53.41	14.88	0.3673
98	2999	4.59	59.26	14.11	0.3837
99	2943	7.46	46.47	15.06	0.5222
100	2990	8.76	48.95	14.01	0.6009

Date: 22.07.2022

अस्वीकरण:—

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Neemuch-I****Challan No. : 12/172**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	1162	7.18	56.57	14.25	0.5787
2	1187	4.54	59.14	13.02	0.3496
3	1159	8.36	56.03	13.42	0.6287
4	1173	9.57	54.96	13.68	0.7197
5	1175	4.52	53.30	14.45	0.3480
6	1139	7.17	64.79	14.65	0.6804
7	1109	10.2	54.88	14.76	0.8262
8	1158	7.17	54.90	14.01	0.5514
9	1141	7.18	64.60	13.31	0.6175
10	1168	7.22	52.47	12.90	0.4888
11	1116	8.85	62.58	14.06	0.7788
12	1195	9.44	56.30	14.16	0.7524
13	1148	7.02	50.20	14.48	0.5104
14	1133	7.02	62.50	14.42	0.6325
15	1130	4.38	69.33	12.62	0.3833
16	1118	4.51	63.15	12.67	0.3608
17	1163	7.37	59.42	14.14	0.6191
18	1156	7.7	59.95	14.75	0.6807
19	1181	7.74	57.78	13.48	0.6029
20	1197	8.54	55.42	14.56	0.6892
21	1124	8.53	63.95	13.53	0.7378
22	1138	8.1	62.43	14.35	0.7258
23	1119	8.32	60.26	14.50	0.7272
24	1120	8.46	59.21	14.71	0.7369
25	1170	8.29	44.53	13.36	0.4933
26	1177	4.58	60.37	12.75	0.3527
27	1151	3.75	52.22	12.91	0.2527
28	1111	8.12	57.51	13.82	0.6455
29	1185	4.57	59.59	13.29	0.3619
30	1172	4.53	54.45	14.38	0.3547
31	1200	7.42	60.05	14.05	0.6262
32	1127	7.28	61.35	13.32	0.5948
33	1123	7.15	63.36	12.94	0.5863
34	1171	9.1	51.19	14.05	0.6543
35	1131	8.21	65.23	12.49	0.6691
36	1169	8.25	61.53	13.29	0.6748
37	1106	10.4	56.41	13.92	0.8164
38	1186	4.69	60.35	11.68	0.3306
39	1136	7.39	67.53	13.49	0.6732
40	1152	4.4	49.03	13.95	0.3010
41	1129	8.41	69.32	12.87	0.7502
42	1176	4.52	59.27	13.30	0.3562

43	1179	4.58	63.34	13.77	0.3994
44	1104	7.79	50.24	15.23	0.5959
45	1199	7.26	63.13	14.84	0.6803
46	1178	4.61	62.76	13.18	0.3812
47	1160	7.16	59.19	14.24	0.6036
48	1184	4.32	55.78	15.10	0.3637
49	1108	7.85	55.42	14.38	0.6256
50	1117	8.53	59.88	13.48	0.6884
51	1149	7.31	43.75	15.98	0.5110
52	1132	8.67	67.11	14.08	0.8193
53	1166	7.25	61.99	15.52	0.6975
54	1147	6.93	47.09	15.59	0.5087
55	1144	7.15	65.18	14.18	0.6607
56	1153	4.38	50.66	15.16	0.3364
57	1135	8.25	63.54	13.77	0.7219
58	1150	7.29	44.99	15.36	0.5037
59	1194	8.6	53.14	14.77	0.6751
60	1107	8.24	53.12	16.04	0.7020
61	1103	6.94	54.96	14.97	0.5712
62	1113	4.37	58.66	15.73	0.4034
63	1154	7.15	46.27	16.14	0.5341
64	1174	9.16	58.27	13.20	0.7044
65	1157	7.41	52.29	15.62	0.6054
66	1121	6.96	56.04	14.22	0.5547
67	1198	8.38	56.83	15.52	0.7391
68	1145	7	36.61	14.78	0.3787
69	1115	4.36	56.51	15.18	0.3741
70	1188	9.25	52.74	15.59	0.7604
71	1165	3.95	49.74	13.21	0.2595
72	1193	7.47	60.13	13.14	0.5901
73	1183	4.58	53.78	13.61	0.3353
74	1161	4.36	51.19	13.87	0.3096
75	1126	7.29	57.75	12.78	0.5380
76	1143	8.48	65.90	14.46	0.8081
77	1191	8.3	66.74	12.24	0.6781
78	1155	9.06	42.43	14.75	0.5672
79	1192	4.18	68.51	12.84	0.3678
80	1128	8.68	61.74	12.05	0.6458
81	1137	8.83	66.39	12.16	0.7126
82	1110	8.29	58.74	14.13	0.6881
83	1140	7.26	59.53	13.39	0.5786
84	1189	4.2	60.88	14.09	0.3604
85	1105	8.5	56.44	13.29	0.6375
86	1101	4.5	58.02	11.86	0.3096
87	1102	7.06	56.94	14.44	0.5803
88	1164	4.28	55.94	13.00	0.3112
89	1167	4.26	56.57	14.07	0.3391

90	1112	8.69	64.80	12.89	0.7256
91	1180	9.26	55.41	15.11	0.7751
92	1190	8.83	59.90	13.26	0.7011
93	1114	7.48	62.25	13.80	0.6425
94	1122	7.18	60.25	13.54	0.5859
95	1134	4.3	62.58	14.09	0.3793
96	1146	8.19	41.99	14.27	0.4906
97	1125	4.36	63.95	14.09	0.3928
98	1196	9.21	60.41	12.98	0.7221
99	1142	4.35	65.63	13.32	0.3802
100	1182	7.42	66.72	13.97	0.6915

Name of Division : Neemuch-I

Challan No. : 27/344

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	2616	7.46	40.46	14.19	0.4282
2	2628	7.38	64.65	14.23	0.6790
3	2606	7.72	62.68	13.43	0.6500
4	2662	4.25	56.15	14.07	0.3358
5	2655	4.06	56.81	15.01	0.3463
6	2622	7.15	51.11	13.46	0.4919
7	2601	4.69	60.74	13.57	0.3865
8	2673	4.23	58.61	15.54	0.3854
9	2639	7.58	51.62	15.17	0.5935
10	2646	8.89	54.78	14.28	0.6952
11	2649	7.12	49.70	13.72	0.4856
12	2693	5.14	53.69	12.46	0.3439
13	2633	4.22	68.40	13.48	0.3891
14	2676	8.41	47.98	16.65	0.6720
15	2621	4.15	57.47	13.97	0.3332
16	2682	7.2	53.34	16.10	0.6185
17	2650	7.01	50.17	14.07	0.4949
18	2648	4.74	53.62	14.68	0.3730
19	2604	7.72	69.05	14.25	0.7596
20	2684	3.88	53.39	15.94	0.3302
21	2643	7.2	50.06	15.72	0.5666
22	2681	7.31	62.14	16.09	0.7310
23	2609	8.39	53.27	15.88	0.7098
24	2659	4.37	57.64	13.57	0.3417
25	2645	7.58	57.44	14.71	0.6405
26	2672	4.41	60.81	15.08	0.4044
27	2669	6.96	62.54	13.51	0.5881
28	2665	8.83	62.06	13.33	0.7302
29	2605	4.56	58.68	13.77	0.3684
30	2626	7.7	60.74	12.23	0.5721
31	2614	4.32	57.09	14.40	0.3551
32	2664	7.37	59.55	12.98	0.5697
33	2690	8.07	56.60	12.69	0.5794

34	2636	8.81	70.71	12.90	0.8035
35	2613	4.57	56.90	14.01	0.3642
36	2615	4.13	41.72	14.60	0.2515
37	2666	4.41	58.82	14.57	0.3779
38	2619	4.28	51.75	13.87	0.3073
39	2637	7.14	39.37	13.79	0.3877
40	2661	6.64	63.30	13.30	0.5591
41	2623	4.02	58.58	14.00	0.3296
42	2617	7.39	52.30	14.84	0.5735
43	2692	4.98	61.15	13.05	0.3974
44	2640	4.63	47.47	14.98	0.3292
45	2670	8.61	62.72	14.75	0.7964
46	2678	4.46	58.63	16.49	0.4313
47	2632	7.48	71.08	13.46	0.7158
48	2602	7.75	68.96	14.17	0.7572
49	2687	7.79	54.54	15.22	0.6466
50	2653	8.07	63.14	14.79	0.7537
51	2689	7.88	56.55	14.77	0.6580
52	2680	4.1	56.27	15.80	0.3645
53	2607	4.65	61.64	15.02	0.4306
54	2671	4.38	56.45	15.04	0.3719
55	2654	8.32	62.93	13.68	0.7164
56	2611	7.01	56.01	15.57	0.6113
57	2624	7.22	45.66	13.60	0.4484
58	2641	7.27	49.35	14.65	0.5256
59	2695	7.35	60.00	16.22	0.7152
60	2608	7.42	60.22	14.75	0.6589
61	2683	4.28	56.87	14.24	0.3467
62	2700	7.29	49.85	16.23	0.5898
63	2688	4.84	60.01	13.36	0.3882
64	2635	7.45	71.80	14.40	0.7703
65	2699	7.11	46.12	15.44	0.5062
66	2627	4.52	56.11	12.89	0.3268
67	2691	4.84	64.29	13.53	0.4211
68	2620	7.17	56.85	13.21	0.5385
69	2694	3.73	61.32	13.75	0.3144
70	2698	4.58	64.33	13.09	0.3856
71	2652	7	60.19	14.06	0.5922
72	2625	4.33	64.13	12.01	0.3334
73	2668	7.35	67.03	13.28	0.6541
74	2657	6.94	55.63	13.73	0.5302
75	2696	7.47	61.61	14.46	0.6656
76	2685	4.45	57.24	14.29	0.3640
77	2631	7.4	65.76	13.69	0.6660
78	2638	4.56	49.22	16.50	0.3703
79	2644	7.53	55.82	14.98	0.6295
80	2660	4.08	55.46	14.62	0.3309

81	2642	7.2	52.76	15.07	0.5724
82	2663	7.16	60.16	13.86	0.5971
83	2677	8.89	62.37	15.50	0.8597
84	2697	7.07	59.23	13.78	0.5769
85	2603	4.59	61.09	15.19	0.4260
86	2667	7.27	64.15	13.64	0.6361
87	2651	7.43	48.93	14.49	0.5268
88	2647	8.8	57.03	14.24	0.7146
89	2656	7.3	59.84	11.73	0.5125
90	2610	7.28	51.36	15.19	0.5678
91	2629	7.28	68.76	12.90	0.6457
92	2686	8.18	60.29	13.39	0.6601
93	2679	7.46	62.35	13.78	0.6408
94	2612	7.49	61.21	14.03	0.6434
95	2618	4.5	50.39	14.43	0.3271
96	2630	7.23	64.65	12.75	0.5958
97	2674	3.47	66.95	11.99	0.2786
98	2658	6.8	58.72	14.10	0.5630
99	2634	4.57	68.02	11.76	0.3656
100	2675	4.25	64.67	11.64	0.3200

Date: 19.07.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जाँच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Neemuch-I****Challan No. : 37/406**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	3653	4.5	63.52	13.82	0.3951
2	3646	9.15	41.15	16.55	0.6231
3	3654	7.52	57.15	14.73	0.6332
4	3652	4.37	51.19	14.34	0.3208
5	3690	7.8	60.21	11.99	0.5632
6	3675	6.96	63.84	14.22	0.6320
7	3673	8.44	63.11	12.85	0.6845
8	3603	8.09	45.89	15.76	0.5849
9	3698	6.88	59.82	13.34	0.5490
10	3611	8.08	61.64	13.32	0.6634
11	3691	3.71	55.76	13.20	0.2731
12	3661	9.25	65.29	13.00	0.7853
13	3613	4.74	62.93	12.46	0.3716
14	3679	7.28	67.59	12.89	0.6341
15	3648	4.02	56.24	15.22	0.3441
16	3663	7.1	56.48	14.62	0.5865
17	3635	3.71	57.60	14.53	0.3105
18	3629	4.3	53.62	14.92	0.3440
19	3614	4.78	56.89	14.29	0.3886
20	3630	7.18	58.74	13.31	0.5615
21	3678	8.54	61.55	11.47	0.6029
22	3697	8.73	59.26	13.36	0.6914
23	3647	4.22	50.18	16.46	0.3486
24	3619	9.3	65.43	14.69	0.8937
25	3651	4.55	59.43	13.97	0.3777
26	3636	7.05	60.22	14.23	0.6042
27	3644	4.19	57.73	14.43	0.3490
28	3658	4.3	57.08	14.68	0.3603
29	3660	4.24	62.44	13.08	0.3464
30	3684	8.07	55.10	12.09	0.5375
31	3618	4.72	67.82	14.20	0.4545
32	3605	8.1	55.29	14.87	0.6658
33	3620	4.94	62.42	14.23	0.4387
34	3628	6.91	54.16	14.07	0.5265
35	3681	3.64	67.31	12.85	0.3149
36	3674	4.34	64.56	13.15	0.3685
37	3624	7.09	61.19	13.55	0.5878
38	3671	4.22	62.98	13.72	0.3646
39	3604	5.12	58.55	12.91	0.3871
40	3693	7.19	41.62	15.81	0.4731
41	3625	7.38	63.41	14.48	0.6775
42	3638	4.26	50.31	14.85	0.3182

43	3688	4.22	56.90	14.52	0.3486
44	3694	4.51	51.06	15.41	0.3549
45	3641	6.81	54.78	14.15	0.5278
46	3665	4.46	51.63	14.86	0.3421
47	3668	4.46	57.00	15.56	0.3956
48	3699	7.23	53.93	13.78	0.5372
49	3669	4.07	61.06	14.66	0.3643
50	3615	4.87	60.59	13.53	0.3993
51	3627	4.19	48.62	14.23	0.2899
52	3631	4.47	61.53	13.88	0.3817
53	3643	8.79	61.66	13.70	0.7428
54	3634	4.43	59.34	14.44	0.3797
55	3657	6.96	51.32	14.34	0.5123
56	3626	3.36	57.30	14.82	0.2853
57	3687	3.97	57.56	14.11	0.3224
58	3692	7.42	45.07	14.91	0.4986
59	3680	2.59	57.02	16.50	0.2437
60	3632	7.11	56.94	13.47	0.5453
61	3656	4.23	56.82	14.43	0.3469
62	3645	8.13	64.50	12.37	0.6488
63	3676	4.31	63.30	12.78	0.3487
64	3659	7.19	60.99	14.43	0.6327
65	3662	7.22	52.39	13.19	0.4989
66	3633	4.24	63.31	14.44	0.3875
67	3682	4.41	51.83	14.51	0.3316
68	3686	4.27	53.47	13.24	0.3023
69	3639	4.46	63.64	13.12	0.3724
70	3609	4.97	49.80	16.10	0.3986
71	3683	7.18	54.99	13.37	0.5277
72	3623	4.19	64.78	14.74	0.4001
73	3622	4.35	61.69	14.01	0.3758
74	3612	4.32	60.87	15.13	0.3979
75	3642	8.12	60.68	12.99	0.6399
76	3601	5.1	61.78	13.84	0.4360
77	3607	4.63	59.48	14.29	0.3936
78	3695	4.39	45.58	16.30	0.3262
79	3677	4.32	60.72	14.72	0.3862
80	3610	4.87	60.42	11.75	0.3458
81	3666	4.38	55.76	14.54	0.3552
82	3606	5.05	55.61	14.44	0.4055
83	3670	7.15	65.47	14.30	0.6692
84	3602	4.19	50.50	14.38	0.3042
85	3667	4.46	55.78	15.06	0.3746
86	3617	8.11	62.95	14.23	0.7267
87	3655	4.49	44.79	16.83	0.3385
88	3700	7.24	51.20	15.96	0.5915
89	3640	4.15	55.92	15.22	0.3532

90	3649	6.85	53.73	14.98	0.5514
91	3608	5.07	59.66	15.05	0.4553
92	3672	4.94	56.13	15.57	0.4318
93	3621	7.73	63.10	14.80	0.7220
94	3689	4.76	51.98	12.70	0.3142
95	3696	7.08	53.36	11.49	0.4340
96	3664	4.8	46.88	14.46	0.3254
97	3637	4.25	63.30	15.36	0.4131
98	3685	3.58	53.94	13.27	0.2563
99	3616	4.88	56.18	14.47	0.3967
100	3650	4.42	56.75	15.81	0.3965

Date: 16.07.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Neemuch-I****Challan No. : 15/175**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	1447	7.39	68.06	13.27	0.6673
2	1408	9.04	65.33	13.53	0.7991
3	1469	9.58	62.39	14.57	0.8708
4	1476	7.65	65.25	13.10	0.6541
5	1406	4.27	52.60	14.26	0.3202
6	1405	8.4	51.79	17.01	0.7400
7	1497	9.05	51.34	15.02	0.6978
8	1427	7.24	62.24	12.92	0.5821
9	1419	4.31	51.67	12.13	0.2702
10	1426	7.52	56.06	14.32	0.6039
11	1414	4.1	59.83	14.27	0.3501
12	1433	9.14	61.51	13.41	0.7541
13	1479	8	62.25	14.38	0.7160
14	1480	4.81	60.35	13.54	0.3930
15	1435	8.41	59.12	14.83	0.7376
16	1455	9.45	61.77	14.13	0.8250
17	1446	7.42	74.34	13.20	0.7279
18	1411	7.61	61.16	13.11	0.6103
19	1467	9.01	66.74	12.84	0.7722
20	1430	4.52	61.90	13.28	0.3715
21	1481	7.38	62.10	13.38	0.6133
22	1445	9	67.82	11.50	0.7020
23	1409	8.17	62.88	12.55	0.6446
24	1500	8.29	48.90	14.46	0.5861
25	1472	7.6	58.90	12.12	0.5426
26	1462	4.53	52.71	14.61	0.3488
27	1436	8.88	62.86	13.55	0.7566
28	1490	9.47	59.25	14.23	0.7983
29	1443	8.35	64.27	14.08	0.7557
30	1484	8.6	62.26	13.32	0.7129
31	1457	4.74	55.12	14.24	0.3721
32	1416	7.02	56.50	11.96	0.4746
33	1402	4.51	55.16	14.45	0.3594
34	1465	7.52	52.35	14.31	0.5632
35	1412	8.01	63.61	14.68	0.7481
36	1450	7.6	68.12	13.99	0.7243
37	1496	9.46	47.71	16.03	0.7237
38	1439	9.12	54.50	13.78	0.6849
39	1499	8.6	44.46	14.17	0.5418
40	1489	7.68	61.09	13.80	0.6474
41	1413	4.19	57.49	13.58	0.3272
42	1429	8.44	58.20	14.09	0.6921

43	1434	8.79	54.43	13.76	0.6584
44	1474	4.21	63.78	12.75	0.3423
45	1464	7.56	56.01	14.14	0.5988
46	1428	8.83	60.91	12.94	0.6958
47	1403	6.74	50.50	15.13	0.5149
48	1486	7.82	63.16	12.70	0.6272
49	1438	7.25	66.83	12.99	0.6293
50	1456	7.71	59.51	13.80	0.6330
51	1423	8.75	54.35	14.19	0.6746
52	1485	7.47	59.14	13.87	0.6125
53	1483	9.49	61.52	13.87	0.8095
54	1482	9.09	65.69	14.71	0.8781
55	1437	8.68	59.38	14.23	0.7335
56	1410	9	57.87	13.65	0.7110
57	1488	9.48	60.14	13.17	0.7508
58	1461	7.16	52.67	14.71	0.5549
59	1442	8.95	63.31	13.03	0.7384
60	1440	8.71	60.50	13.37	0.7046
61	1401	8.84	52.97	16.03	0.7505
62	1466	7.33	60.30	14.18	0.6267
63	1494	7.16	64.92	14.60	0.6788
64	1422	7.42	54.39	14.91	0.6018
65	1468	7.54	51.93	15.56	0.6092
66	1431	7.84	64.96	14.07	0.7166
67	1454	7.17	52.53	15.42	0.5808
68	1453	4.13	45.52	17.03	0.3201
69	1420	4.32	54.55	15.82	0.3728
70	1463	7.39	52.00	14.69	0.5646
71	1452	3.66	77.84	11.42	0.3254
72	1425	8.32	53.30	14.67	0.6506
73	1449	7.55	68.25	12.21	0.6289
74	1477	9.51	60.35	11.98	0.6876
75	1407	7.4	54.41	13.89	0.5594
76	1421	7.6	62.30	13.61	0.6445
77	1473	9.11	60.32	15.14	0.8317
78	1432	7.1	61.80	13.22	0.5801
79	1404	7.21	62.68	14.53	0.6568
80	1451	9.1	70.33	12.70	0.8126
81	1492	8.04	65.47	10.88	0.5724
82	1478	7.33	66.54	11.98	0.5842
83	1424	7.45	57.59	13.77	0.5908
84	1498	4.64	54.97	13.57	0.3461
85	1458	7.15	63.29	14.24	0.6442
86	1460	4.53	60.27	14.19	0.3873
87	1417	7.56	54.79	14.69	0.6086
88	1487	9.31	68.62	13.41	0.8565
89	1493	8.61	69.04	14.14	0.8403

90	1475	4.68	60.93	13.80	0.3936
91	1470	7.53	58.54	15.70	0.6920
92	1418	4.22	56.25	13.32	0.3161
93	1471	8.41	52.43	15.83	0.6980
94	1491	8.89	53.81	14.51	0.6943
95	1448	7.43	70.40	14.56	0.7616
96	1495	9.1	65.65	13.71	0.8190
97	1441	4.87	58.46	13.74	0.3911
98	1415	7.41	60.21	12.82	0.5721
99	1459	7.84	62.05	15.63	0.7605
100	1444	9.02	59.46	13.12	0.7036

Date: 14.07.2022

अस्वीकरण:-

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Neemuch-I****Challan No. : 07/100**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	602	8.79	56.77	13.30	0.6636
2	687	8.88	65.28	13.53	0.7841
3	620	7.61	56.55	14.24	0.6126
4	626	8.59	62.79	13.12	0.7078
5	614	9.34	50.85	15.32	0.7276
6	668	7.19	51.70	14.24	0.5292
7	638	7.46	60.32	13.08	0.5886
8	634	8.24	56.50	14.05	0.6543
9	657	7.37	56.52	14.54	0.6058
10	678	4.79	45.79	15.13	0.3319
11	615	7.28	57.96	13.10	0.5526
12	644	9.03	63.11	14.07	0.8019
13	676	8.79	61.01	13.64	0.7313
14	691	7.16	68.58	14.74	0.7239
15	688	6.32	61.80	12.43	0.4854
16	606	7.79	52.12	15.25	0.6193
17	607	8.7	53.93	15.11	0.7090
18	648	7.48	55.44	14.54	0.6029
19	611	9.3	54.98	14.62	0.7477
20	636	9.25	51.48	14.72	0.7012
21	690	4.43	61.64	14.29	0.3903
22	652	7.4	55.67	14.42	0.5942
23	647	7.4	61.83	14.54	0.6653
24	656	8.68	54.11	15.82	0.7430
25	632	8.12	62.25	14.23	0.7194
26	645	7.23	35.19	17.36	0.4418
27	653	7.72	58.75	13.91	0.6307
28	605	8.62	52.54	13.84	0.6267
29	601	8.32	55.60	14.42	0.6673
30	629	7.62	60.61	13.94	0.6439
31	667	7.21	62.46	12.30	0.5537
32	696	7.53	46.26	16.34	0.5693
33	613	7.43	53.02	14.62	0.5758
34	672	7.27	56.56	15.52	0.6383
35	699	9.28	57.87	13.20	0.7090
36	641	8.86	64.83	14.38	0.8258
37	610	7.26	52.77	15.48	0.5931
38	655	7.31	53.12	15.93	0.6184
39	697	8.26	50.33	15.76	0.6550
40	683	7.44	65.11	12.15	0.5885
41	624	7.14	61.67	13.96	0.6148
42	616	9.02	50.45	13.34	0.6070

43	623	7.41	63.41	14.27	0.6706
44	679	8.48	62.25	14.68	0.7751
45	671	9.17	66.02	12.51	0.7574
46	639	7.28	50.93	15.81	0.5860
47	619	3.76	52.42	16.69	0.3290
48	695	7.01	52.21	15.23	0.5573
49	640	9.19	63.32	15.00	0.8730
50	651	9.13	47.42	14.53	0.6291
51	662	8.5	56.96	15.68	0.7590
52	637	7.21	53.66	15.26	0.5905
53	604	7.32	56.50	15.29	0.6324
54	670	4.61	55.39	13.92	0.3554
55	685	7.69	58.63	14.28	0.6437
56	658	4.23	62.75	14.69	0.3900
57	675	9.2	55.78	15.53	0.7967
58	665	4.7	59.89	16.16	0.4550
59	661	8.9	60.82	13.89	0.7520
60	633	8.75	53.18	16.23	0.7551
61	689	7.59	66.19	10.77	0.5412
62	698	7.55	61.47	9.87	0.4583
63	659	4.4	60.24	11.09	0.2939
64	694	9.12	61.35	10.63	0.5946
65	682	7.04	61.98	10.26	0.4477
66	612	9.26	56.35	12.05	0.6288
67	686	7.13	68.13	10.88	0.5283
68	681	7.83	53.25	11.92	0.4972
69	693	8.92	49.17	15.66	0.6868
70	669	4.2	58.42	12.75	0.3129
71	692	8.72	50.30	14.39	0.6313
72	622	4.22	58.59	13.65	0.3376
73	646	7.6	47.16	15.54	0.5571
74	617	9.1	55.45	15.09	0.7617
75	664	7.53	59.87	12.69	0.5723
76	627	7.23	54.20	14.98	0.5871
77	649	8.87	55.44	14.66	0.7211
78	673	7.75	57.79	14.24	0.6378
79	608	7.21	50.43	15.23	0.5537
80	643	8.84	55.55	15.19	0.7461
81	625	7.85	55.21	14.49	0.6280
82	654	7.18	57.76	15.08	0.6254
83	684	8.37	62.70	15.28	0.8018
84	642	9	57.84	15.02	0.7821
85	660	7.27	55.37	15.42	0.6209
86	663	8.38	59.13	16.96	0.8405
87	631	7.44	53.92	16.25	0.6517
88	666	7.22	56.86	15.86	0.6512
89	650	7.36	54.06	14.91	0.5932

90	618	7.68	42.87	15.96	0.5253
91	680	4.47	52.65	16.70	0.3929
92	674	8.62	61.59	14.16	0.7517
93	621	9.21	61.72	14.86	0.8446
94	609	7.33	58.24	13.91	0.5937
95	603	4.51	46.85	17.80	0.3761
96	700	6.96	56.37	14.39	0.5645
97	630	9.31	61.54	14.19	0.8128
98	635	7.54	60.99	13.66	0.6281
99	628	7.23	63.68	12.72	0.5856
100	677	4.53	53.35	15.03	0.3633

Date: 12.07.2022

अस्वीकरण:—

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Neemuch-I****Challan No. : 01/08**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	81	4.76	56.33	14.49	0.3884
2	54	8.88	46.70	16.85	0.6989
3	42	7.83	54.16	13.66	0.5794
4	11	8.48	51.98	15.72	0.6928
5	48	9.27	64.24	13.90	0.8278
6	28	7.15	42.61	15.28	0.4655
7	46	9.04	59.43	14.89	0.8000
8	45	9.95	43.70	15.86	0.6895
9	8	3.9	52.77	13.44	0.2765
10	61	8.08	51.53	13.45	0.5599
11	93	7.44	57.70	14.32	0.6145
12	15	8.02	50.59	13.96	0.5662
13	90	8.58	58.96	15.82	0.8005
14	100	8.28	64.92	14.20	0.7634
15	76	7.51	59.43	12.27	0.5475
16	16	8.15	50.89	14.03	0.5819
17	63	6.36	43.52	14.87	0.4115
18	65	7.77	52.12	13.78	0.5579
19	7	4.06	54.07	15.50	0.3402
20	33	9.75	51.23	14.89	0.7439
21	92	9.24	62.54	13.82	0.7983
22	96	3.77	52.54	13.34	0.2643
23	57	8.46	54.93	13.76	0.6396
24	66	7.66	50.60	14.76	0.5722
25	82	9.09	62.36	13.36	0.7572
26	44	10	47.64	14.06	0.6700
27	22	7	59.20	14.36	0.5950
28	56	7.31	43.54	14.81	0.4715
29	2	9.53	50.58	14.81	0.7138
30	59	6.87	60.97	12.12	0.5077
31	71	7.74	56.40	13.97	0.6099
32	98	3.6	55.93	14.68	0.2956
33	10	8.22	54.49	14.50	0.6494
34	3	8.08	57.64	13.01	0.6060
35	18	9.2	59.22	12.14	0.6615
36	34	8.06	45.07	15.53	0.5642
37	55	8.79	58.41	14.86	0.7630
38	35	8.93	41.23	13.85	0.5099
39	78	9.27	64.84	13.59	0.8167
40	27	9.03	52.95	14.73	0.7043
41	85	8.91	65.42	12.00	0.6994
42	13	8.26	45.63	14.38	0.5419

43	20	7.06	59.50	13.23	0.5556
44	24	8.84	60.23	11.92	0.6347
45	72	8.4	66.48	14.31	0.7988
46	60	8.25	56.84	11.73	0.5503
47	49	9.44	61.97	12.80	0.7486
48	87	8.38	55.98	14.49	0.6796
49	62	6.1	48.20	14.15	0.4160
50	89	3.75	60.23	14.91	0.3367
51	26	9.11	44.76	17.14	0.6987
52	1	9.28	51.16	14.58	0.6923
53	75	7.58	54.30	14.94	0.6147
54	51	9.14	52.21	15.53	0.7413
55	31	9.96	47.23	14.99	0.7052
56	36	9.31	44.10	19.77	0.8118
57	88	7.66	47.68	16.72	0.6105
58	70	6.47	41.24	17.31	0.4620
59	43	7.69	52.69	17.63	0.7144
60	6	9.53	47.29	15.29	0.6890
61	91	7.47	49.45	15.98	0.5901
62	58	8.38	60.40	14.29	0.7232
63	50	8.79	57.07	14.75	0.7401
64	73	7.85	58.42	13.13	0.6021
65	80	9.24	62.31	14.86	0.8556
66	29	7.67	45.65	15.86	0.5553
67	97	4.59	54.53	14.62	0.3658
68	47	7.75	63.51	12.71	0.6254
69	30	7.83	39.89	17.02	0.5317
70	9	9.14	41.49	16.92	0.6416
71	19	7.43	52.45	15.67	0.6107
72	39	8.04	54.39	15.50	0.6778
73	99	7.5	60.08	13.62	0.6135
74	14	7.03	45.97	17.25	0.5575
75	86	8.53	58.46	15.07	0.7515
76	67	8.25	57.87	13.41	0.6402
77	21	7.64	55.12	15.02	0.6326
78	37	8.64	53.84	12.48	0.5806
79	41	8	55.46	14.55	0.6456
80	83	8.96	65.74	13.28	0.7822
81	40	5.06	48.94	16.51	0.4088
82	84	7.46	49.17	16.49	0.6050
83	68	6.91	49.57	14.71	0.5037
84	4	8.38	40.10	16.11	0.5413
85	32	9.56	50.60	16.32	0.7897
86	77	4.54	61.69	14.56	0.4077
87	74	8.96	61.72	13.46	0.7446
88	23	8.72	60.19	14.47	0.7595
89	69	8.09	49.93	13.06	0.5275

90	79	8.98	61.71	14.16	0.7849
91	53	4.8	52.07	14.96	0.3739
92	52	9.1	51.11	12.99	0.6042
93	17	8.96	48.19	14.71	0.6353
94	64	6.97	55.65	11.77	0.4565
95	94	7.58	55.43	14.96	0.6284
96	12	8.88	55.33	13.23	0.6500
97	5	5.16	53.63	13.43	0.3715
98	38	9.39	52.26	14.39	0.7061
99	95	7.43	52.93	15.78	0.6204
100	25	7.45	46.46	16.32	0.5647

Date: 27.06.2022

अस्वीकरण:—

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।

Govt. Opium & Alkaloid Works, Neemuch (M.P.)**Analysis Result : 2021-22****Name of Division : Neemuch-I****Challan No. : 10/103**

S.No.	Cont. No.	Factory Wt. (Kg.)	Consistence (%)	MS% (ODB)	MS Content (In Absolute Term)
1	912	7.43	60.94	12.82	0.5803
2	951	8.68	60.62	13.38	0.7039
3	988	5.24	53.84	14.67	0.4140
4	990	7.22	62.67	13.79	0.6238
5	913	8.7	56.16	12.04	0.5881
6	971	7.56	72.10	12.80	0.6978
7	919	8.17	54.43	13.85	0.6160
8	995	7.37	63.63	13.61	0.6382
9	983	6.52	59.17	12.03	0.4642
10	933	4.28	58.88	13.65	0.3441
11	989	3.6	57.02	12.49	0.2563
12	980	7.08	54.41	15.20	0.5855
13	948	9.93	63.69	13.86	0.8768
14	953	4.5	65.95	12.69	0.3766
15	955	9.36	54.07	14.78	0.7479
16	982	7.01	56.98	12.41	0.4956
17	972	7.28	64.33	12.11	0.5671
18	965	8.85	62.17	12.98	0.7142
19	976	9.2	64.33	13.43	0.7949
20	969	9.29	55.79	13.73	0.7116
21	1000	8.5	62.31	13.50	0.7149
22	916	7.4	69.01	11.13	0.5683
23	934	7.2	58.61	14.76	0.6228
24	966	9.41	66.99	11.30	0.7123
25	961	7.11	63.89	12.82	0.5823
26	981	7.49	53.83	10.20	0.4112
27	928	8.52	66.25	14.45	0.8154
28	994	7.3	58.03	13.44	0.5694
29	946	7.62	65.66	14.03	0.7018
30	959	4.36	62.90	13.24	0.3632
31	931	4.29	62.73	15.16	0.4080
32	956	7.76	61.92	14.13	0.6790
33	932	7.11	60.88	15.39	0.6662
34	978	4.37	47.64	15.32	0.3190
35	964	7.52	60.15	13.68	0.6189
36	985	7.4	54.91	13.60	0.5528
37	927	8.64	66.22	14.00	0.8009
38	993	6.87	54.53	14.49	0.5427
39	917	4.3	74.18	12.95	0.4132
40	999	4.3	63.95	13.51	0.3715
41	940	4.21	65.41	13.81	0.3802
42	947	7.64	65.43	13.97	0.6983

43	930	4.16	57.91	15.13	0.3644
44	952	4.53	61.31	14.52	0.4032
45	902	4.16	58.65	13.25	0.3232
46	929	8.77	66.61	12.43	0.7262
47	942	7.13	60.27	14.83	0.6374
48	903	4.53	61.73	13.11	0.3665
49	906	7.08	57.33	14.08	0.5714
50	968	8.01	60.04	13.46	0.6472
51	973	7.45	67.86	13.35	0.6750
52	991	6.99	54.86	15.11	0.5795
53	908	8.4	63.56	14.47	0.7728
54	944	7.8	55.43	14.54	0.6287
55	926	7.08	67.85	15.95	0.7661
56	977	4.15	72.18	14.10	0.4225
57	957	4.36	54.57	14.50	0.3449
58	967	8.54	60.47	14.30	0.7387
59	962	8	58.43	13.88	0.6488
60	914	4.22	55.98	14.51	0.3427
61	998	7.05	73.57	12.31	0.6387
62	925	4.14	64.30	14.12	0.3759
63	937	4.28	61.11	15.63	0.4087
64	910	7.25	59.61	14.09	0.6090
65	922	9.06	65.59	12.75	0.7574
66	975	8.04	71.18	14.15	0.8096
67	970	7.58	70.23	12.60	0.6708
68	920	8.64	68.62	13.51	0.8009
69	924	8.76	68.51	10.99	0.6596
70	939	8.22	59.19	14.53	0.7069
71	984	8.45	59.45	14.13	0.7098
72	901	7.34	60.42	13.08	0.5799
73	958	9.3	67.45	14.05	0.8816
74	996	7.18	62.18	12.40	0.5536
75	945	8.62	58.08	14.36	0.7189
76	905	8.53	65.75	12.85	0.7208
77	907	8.65	60.07	11.95	0.6211
78	987	8.15	54.27	14.63	0.6471
79	960	9.59	72.54	12.16	0.8458
80	935	6.97	50.38	15.38	0.5402
81	949	4.33	64.29	11.90	0.3312
82	954	4.19	54.49	14.85	0.3390
83	963	6.78	63.20	14.84	0.6360
84	950	8.98	56.95	13.77	0.7040
85	909	7.11	55.48	14.10	0.5560
86	941	4.57	62.95	13.68	0.3935
87	943	4.15	60.76	14.01	0.3532
88	992	7.1	53.84	12.69	0.4849
89	997	8.93	57.01	13.87	0.7064

90	938	9.26	55.77	14.40	0.7436
91	974	7.49	71.49	12.31	0.6591
92	904	4.35	64.81	12.85	0.3624
93	911	7.39	65.81	12.81	0.6230
94	936	4.64	47.50	15.98	0.3522
95	921	4.41	66.17	13.44	0.3920
96	915	8.74	62.03	12.64	0.6852
97	923	7.17	64.59	12.63	0.5851
98	979	8.34	47.84	14.19	0.5663
99	986	7.29	55.07	14.40	0.5781
100	918	8.58	66.33	12.45	0.7087

Date: 24.06.2022

अस्वीकरण:—

फसल वर्ष 2021.22 के लिए अफीम फैक्ट्री प्रयोगशाला नीमच के द्वारा अफीम नमूनों के प्राप्त जॉच परिणामों के प्रकाशन में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गयी है फिर भी अफीम उत्पादक किसानों को यह सलाह दी जाती है की विभाग की सुचना को ही अधिकृत माने।